धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

सुप्रभात

रांची, गुरुवार
16.01.2025

* * नगर संस्करण। पेज : 12

खबर मन्त्र

khabarmantralive.com

रांची और धनबाद से एक साथ प्रकाशित

सबकी बात सबके साथ

khabarmantra.net | माघ, कृष्ण पक्ष, तृतीय, संवत् 2081 | मूल्य : ₹ 3 । वर्ष : 12 । अंक : 186

12 भाजपा-संघ के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं : राहुल

झारखंड की बंद कोयला खदानें खोलने में जुटी हेमंत सरकार

4 कोल ब्लॉक शीघ्र शुरू होंगे : सीएस

समीक्षा बैठक

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य में बंद कोयला खदानों को खोलने की दिशा में हेमंत सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकार द्वारा आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में ही 34 में से 4 कोल ब्लॉक राजहारा (पलामू), तुबेद (लातेहार), हजारीबाग जिला स्थित बदाम और मोइत्रा जेएस डब्ल्यू से अविलंब खनन करने की स्थिति स्पष्ट हो गयी। ये कोल ब्लाक सप्ताह भर के भीतर शुरू हो जायेगा। वहीं अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्या का भी समाधान लगभग कर लिया गया।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।

समय सीमा के भीतर हल निकालें डीसी

समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकांश आवंटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन अधिग्रहण, रेट की गणना, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि हस्तांतरण, कोल ब्लॉक की जमीन से गुजरने वाले नाला, नदी और सड़क को लेकर समस्या आ रही है। कुछ जगहों पर विधि व्यवस्था की भी समस्या सामने आयी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का समाधान एक समयसीमा के भीतर करें। समीक्षा बैठक में वन एवं पर्यावरण सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान सचिव जितेंद्र सिंह, खान निदेशक राहुल सिन्हा एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जल्द शुरू करना लाभदायक

मुख्य सचिव ने कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। वहां रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को इसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया।

जरूरी कागजात उपलब्ध करायें : मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया कि वे संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जरूरी कागजात शीघ्र उपलब्ध करायें। प्रशासन के साथ समन्वय कर कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल करने में आ रही समस्याओं का समाधान करें। कोल कंपनियां साइट पर ऑफिस खोलें और सीएसआर के तहत कार्य करें। लोगों को विश्वास में लेकर जरूरी औपचारिकता पूरी करते हुए खनन की प्रक्रिया शुरू करें।

झारखंड के पर्वतारोही ने देश का नाम रौशन किया

खबर मन्त्र संवाददाता

- शेखर ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा

रांची। झारखंड के पर्वतारोही शशि शेखर ने अर्जेंटीना में अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर तिरंगा फहरा कर भारत का मान बढ़ाया। गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो के पुत्र शशि शेखर ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया था। उन्होंने 17 अगस्त 2024 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एल्ब्रुस (5,642 मीटर) पर चढ़ने में कामयाबी पायी थी और तिरंगा फहराया था। पर्वतारोही शशि शेखर ने 13 जनवरी की शाम अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ (6,961 मीटर/ 22,837 फीट) पर तिरंगा फहराने में सफलता पायी। अर्जेंटीना स्थित माउंट अकोंकागुआ न केवल दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि यह दक्षिणी गोलार्द्ध व एशिया महादेश के बाहर की सबसे ऊंची चोटी भी है। शशि ने

बताया कि सबसे कठिन समय तब था जब व्हाइट आउट के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आत्मविश्वास और माता-पिता के दिये अदम्य साहस से मैंने सभी चुनौतियों का सामना कर लिया। माउंट अकोंकागुआ से पहले शशि शेखर ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर/ 8,510 फीट), माउंट एवरेस्ट (8,430 मीटर/27,657 फीट), माउंट लोबुचे ईस्ट (6,119 मीटर/ 20,075 फीट) की चढ़ाई की है।

न्यूज डायरी

कुख्यात नक्सली कमांडर कृष्णा गिरफ्तार

रांची। कई जिलों की पुलिस के लिए सर दर्द बना पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का जोनल कमांडर कृष्णा यादव को लोहरदगा के कुडू में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किया है। लंबे समय से पुलिस को कृष्णा यादव की तलाश थी। लोहरदगा के साथ-साथ रांची, खूंटी, लातेहार आदि जिलों में भी उसने कई घटनाओं का अंजाम दिया था। हत्या सहित कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

पूर्व सैनिकों को मिलेगी विशेष मदद

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के अखनूर में आयोजित 9वें सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट बनायेगी। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, पैरामेडिकल समेत आवश्यक मेडिकल उपकरण भी होंगे। ये यूनिट पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य जांच के अलावा उन्हें सेना के अस्पताल तक ले जाने में मदद करेंगी।

हथियार के साथ सात अपराधी गिरफ्तार

लातेहार। चंदवा थाना क्षेत्र के चिरो मोड़ के पास से पुलिस ने हथियार के साथ सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जगदीश सिंह ,बबलू सिंह, दीपक सिंह ,गणेश यादव, मनोज सिंह, अशोक लोहरा और रॉकी कुमार साव शामिल है । सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में एसपी कुमार गौरव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी अपराधी राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करते थे। इनका मुख्य धंधा लोगों में दहशत बनाकर रंगदारी वसूलने का था। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापामारी कर रही है।

दुमका में नॉर्वे के 34 सैलानियों का स्वागत

दुमका। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के गोलबंधा पंचायत के गोलपुर गांव में बुधवार को नॉर्वे देश के विदेशी सैलानी पहुंचे। सात हजार किलोमीटर दूर से नॉर्वे से पहुंचे 34 की संख्या में विदेशी सैलानियों का सामाजिक जागरूकता युवा संगठन मसलिया के अध्यक्ष शिवनाथ बेसरा की अगुवाई में आदिवासी रीति-रिवाज से भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों को आदिवासी पारंपरिक, रीति-रिवाज से अवगत कराया गया। स्वागत समारोह में अतिथियों का लोटा-पानी एवं पैर धोकर अभिनंदन किया गया। आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और समुदाय के मूल्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

राजधानी की जर्जर सड़कों पर 28 को सुनवाई

खबर मन्त्र संवाददाता

हाइकोर्ट ने हर हाल में जवाब देने को कहा

रांची। राजधानी रांची शहर के अंदरूनी इलाके और संपर्क पथों की जर्जर हालत से जुड़ी जनहित याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। सरकार की ओर से बुधवार को इन सड़कों के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 28 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की। साथ ही सरकार को हर हाल में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि राजधानी के वाइआइपी इलाकों को छोड़ सभी सड़कों की हालत जर्जर है। खासकर बड़ा तालाब के चारों तरफ की सड़कें, सेवा सदन जाने वाली सड़क बड़े गड्ढों में तब्दील हो गयी हैं। इस कारण एबुलेंस में मरीजों को आने में भी दिक्कत होती है। एंबुलेंस हिचकोले खाते हैं। कई बार वाहन आपस में टकराते भी हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। याचिका में कोकर चौक से होकर जाने वाली सड़कों का भी मामला उठाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शहर में जलजमाव भी एक बड़ी समस्या हो गयी है। अदालत से आग्रह किया गया है कि तकनीक और उच्च गुणवत्ता युक्त सामानों के साथ सड़क का निर्माण हो, ताकि लंबे समय तक सड़कें ठीक रहें। शहर में सड़कों का निर्माण होता नहीं है, यदि हो भी जाये तो निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता।

कोल बोर्ड सोसाइटी भंग करने का आदेश रद्द : वहीं एक अन्य मामले में हाइकोर्ट ने धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एवं जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल वर्ष 2022 में धनबाद कोल बोर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी को भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी गयी थी। यह आदेश कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने दिया थी, जिसके खिलाफ तत्कालीन सचिव अरविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी संस्थान को भंग करने का आदेश नहीं दे सकते, जिसमें राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग ना हो।

10 देशों के मेहमान आज संगम में लगायेंगे डुबकी

एजेंसी

प्रयागराज। महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, जर्मनी, जापान स्पेन आदि देशों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया का ध्यान महाकुंभ की ओर आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में पवित्र डुबकी लगायेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात (यूएइ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये विदेशी विदेशी मेहमान गुरुवार सुबह आठ बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगायेंगे। सभी मेहमानों को हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण कराया जायेगा। सभी विदेशी मेहमान प्रयागराज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव करेंगे। रात में टेंट सिटी में रात्रि भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गयी है।

कई मुस्लिम देशों की भी रुचि

खास बात ये है कि पाकिस्तान और अरब समेत कई इस्लामिक देशों की नजर महाकुंभ पर है। पाकिस्तान सहित कतर, यूएई और बहरीन जैसे देश महाकुंभ में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के निवासी भी महाकुंभ के बारे में जानना चाह रहे हैं। यह आयोजन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है।

इडी ने पूर्व आबकारी मंत्री को किया गिरफ्तार

एजेंसी

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला

रायपुर। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इडी ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूर्व मंत्री के सीए को भी बुलाया गया था, लेकिन सीए के बाहर होने की वजह से कवासी लखमा अकेले ईडी के दफ्तर में पहुंचे। लंबी पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। इडी के अनुसार, कथित शराब घोटाला 2019-22 के बीच किया गया था, तब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। कोंटा (सुकमा जिला) से छह बार विधायक रहे लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे। एजेंसी ने पहले दावा किया था, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय गयी।

मुझे झूठे केस में जेल भेजा जा रहा है: अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कवासी लखमा ने कहा, छापे के दौरान इडी को मेरे परिसर पर न तो कोई दस्तावेज और न ही एक पैसा मिला। मुझे झूठे मामले में जेल भेजा जा रहा है।

रांची से लापता बहनें प्रेमी संग कर्नाटक में मिलीं

रांची। हिंदपीढ़ी इलाके से रहस्यमय तरीके से लापता दो नाबालिग बहने कर्नाटक से बरामद कर ली गयी हैं। रांची पुलिस सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। दोनों बहनें सुरक्षित हैं और उन्हें पुलिस की टीम रांची लेकर लौट रही है। दोनों बहनें रहस्यमय तरीके से 11 से लापता थी। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों बहनों को कर्नाटक-केरल के बॉर्डर के पास कर्नाटक पुलिस की सहायता से बरामद कर लिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों लड़कियां अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों लड़कियों के दोनों प्रेमी को पकड़ा है। लड़कियों को भगाने की घटना में शामिल एक युवक को भी पकड़ा गया।

100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कोयला व्यवसायी संदीप साहू के आवास पर छापामारी

- परिवार के सदस्य सहित कर्मचारियो के नाम से पूरे देश में 25 से 30 फर्जी कंपनी कर रहा है संचालित

खबर मन्त्र संवाददाता

कुजू। आरा सारूबेड़ा स्थित कोयला व्यवसाय संदीप साहू के कार्यालय सह आवास में बुधवार को जीएसटी विभाग ने छापामारी किया। इस दौरान विभाग द्वारा आवास में जांच कर कई दस्तावेज समेत मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त किया। जबकि सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है। इधर जमशेदपुर जीएसटी संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के नेतृत्व में सुबह 8 बजे से छापामारी की जा रही है। छापामारी के दौरान अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्य कोल ट्रांसपोर्टिंग के निदेशक संदीप साहू द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्य सहित अपने कर्मचारियों के नाम से पूरे भारत में 25-30 अन्य फर्जी कंपनियां खोला है। जिसमें लगातार जीएसटी चोरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि निदेशक संदीप साहू फिलहाल फरार है। जबकि दूसरे निदेशक के रूप में उनके पिता डालेश्वर साहू से पूछताछ की जा रही है। इधर संदीप साहू ने कुजू स्थित रेलवे साइडिंग के समीप अपना कोयला डंप यार्ड बनाया है, उसे भी फर्जी ढंग से संचालित कर रहा है।

जल्द ही संदीप साहू की गिरफ्तारी की जायेगी। समाचार लिखे जाने तक छापामारी की जा रही थी। उल्लेखनीय कि गत 29 जुलाई 2024 को भी जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी को लेकर छापामारी की गयी थी। छापामारी में विभाग के आरके टोप्पो, राजीव रंजन, सतीश कुमार, राजेश कुमार, बबलु सिंह, आशुतोष सहित सदलबल के जवान शामिल थे।

पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया तीन महाबली योद्धा

दुनिया की बड़ी समुद्री ताकत बन रहा है भारत : मोदी

आइएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर बेड़े में शामिल

एजेंसी

मुंबई। पीएम मोदी ने बुधवार को तीन महाबली योद्धा -युद्धपोत आइएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीन अत्याधुनिक और प्रमुख प्लेटफार्म का एक ही दिन नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत का प्रतिविंब है। यह रक्षा क्षेत्र के निर्माण तथा नौसेना को 21 वीं सदी के अनुरूप सशक्त बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। नौसेना डॉकयार्ड में तीन प्रमुख नौसैनिक युद्धपोत नौसेना को सौंपते हुए पीएम ने कहा, यह देश के लिए ऐतिहासिक पल है। 21 वीं सदी की नौसेना को सशक्त बनाने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज का भारत दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बन रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रायर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। सबसे गर्व की बात है कि ये तीनों ही प्रमुख प्लेटफार्म मेड इन इंडिया हैं। आज का भारत दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बन रहा है।

पूर्ण स्वदेशी

तीनों युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह भारत में हुआ है और इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बढ़ती दक्षता रेखांकित होती है। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किये गये और मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में निर्मित आईएनएस नीलगिरि में उन्नत विशेषताएं हैं। नीलगिरि परियोजना 17ए स्टील्थ फ्रिगेट श्रेणी का शीर्ष जहाज है जो शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों में महत्वपूर्ण उन्नयन को दशार्ता है। यह आधुनिक विमानन सुविधाओं से परिपूर्ण है तथा एमएच-60 आर समेत विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर का परिचालन कर सकता है। परियोजना 15 बी स्टील्थ विध्वंसक श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोतों की अगली पीढ़ी का सदस्य है। इसके डिजाइन और क्षमता में सुधार किये गये हैं और यह नौसेना के सतह पर रहने वाले बेड़े का महत्वपूर्ण सदस्य है। इसे भी आईएनएस नीलगिरि की तरह वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और एमडीएल में इसका विनिर्माण किया गया है। आईएनएस वाघशीर स्कॉर्पीन श्रेणी की परियोजना 75 के तहत छठा और अंतिम युद्धपोत है। यह बहुभूमिका वाला डीजल-विद्युत संचालित पोत है।

टीम इंडिया की बड़ी जीत, सबसे बड़ा स्कोर

राजकोट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में द्विपक्षीय सीरीज के तीसरे वनडे में आयरलैंड को 304 रनों से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इतिहास रचते हुए रनों के हिसाब से वनडे क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने बुधवार यहां खेले गये तीसरे वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही आयरलैंड से तीन मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से जीतक क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत ने इस मैच में 5 विकेट पर 435 रन सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इनमें प्रतिका रावल (154), स्मृति मंधाना (135) और ऋचा घोष ने 59 रनों की पारी खेली थी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी कभी इतना बड़ा टोटल वनडे मे नहीं बना पायी है। भारत की पुरुष टीम का सबसे बड़ा वनडे टोटल 418 रन है।

गहना आभूषण

सोना (बिक्री)	:	73900 रु./10 ग्राम
चांदी	:	95000 रु./प्रति किलो

तीसरी आंख

सालाना 8975 करोड़ की बिजली खरीदती है एजेंसी, राजस्व प्राप्ति ₹7311 करोड़

बिजली वितरण निगम को प्रतिवर्ष 1663 करोड़ रुपये का हो रहा घाटा

बिजली वितरण निगम की ऑडिट रिर्पोट में हुआ आय-व्यय का खुलासा

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम सालाना 8975 करोड़ रुपये की बिजली विभिन्न पावर कंपनियों से खरीदता है। इसके एवज में वितरण निगम को विभिन्न स्त्रोतों से सालाना 7311 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होती है। इसका खुलासा बिजली वितरण की ऑडिट रिर्पोट में हुआ है। इस हिसाब से लगभग 1663 करोड़ का सालाना रेवेन्यू गैप रह जाता है यानी वितरण निगम को 1663 करोड़ का घाटा होता है।

वेतन-पेंशन पर सालाना खर्च 349.60 करोड़

वितरण निगम अफसरों-कर्मियों के वेतन-पेंशन सहित अन्य मदों में सालाना 349.60 करोड़ रुपये खर्च करता है। इसमें वेतन का 261.91 करोड़, पेंशन का 52.22 करोड़, अर्न लीव इंकैशमेंट का 18.12 करोड़, ग्रेच्यूएटी का 10.36 करोड़, पीएफ का 1.57 करोड़ और स्टॉफ वेलफेयर का 5.39 करोड़ शामिल है।

सालाना इतने की बिजली खरीदता है वितरण निगम : वितरण निगम विभिन्न कंपनियों से सालाना 809490.28 लाख की बिजली खरीद की जाती है। इसके अलावा दूसरे के लाइन से बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन चार्ज के रूप में सालाना खर्च 88004.39 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। इस हिसाब से बिजली खरीद में कुल खर्च 897494.67 लाख रुपए खर्च होता है।

किस कैटगरी से सालाना कितने राजस्व की होती है प्राप्ति

कैटेगरी	राशि (लाख में)
घरेलू उपभोक्ता	70254.30
कॉमर्शियल	81963.75
पब्लिक लाइटिंग	9108.89
सिंचाई	5244.49
इंडस्ट्रियल एलटी	23423.23
इंडस्ट्रियल एचटी	199745.62
रेलवे	9182.16
मीटर रेंट	617.80
व्हीलिंग चार्ज	37147.39
कैपिटल वर्क	2140.96
कंज्यूमर रीबेट	7709.46

प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी मामला

दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकार्ड में लाये सीबीआई : हाई कोर्ट

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच कराने वाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई को मामले में दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। इससे पूर्व सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में रांची की सीबीआई की अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने सीबीआई को जेपीएससी प्रथम एवं द्वितीय गड़बड़ी से संबंधित केस नंबर आरसी 5/2012 एएचडी-आर एवं आरसी 6/2012 एएचडी-आर के अनुसंधान की स्थिति पर जवाब

सुनवाई 5 फरवरी को

मांगा था। जेपीएससी प्रथम परीक्षा गड़बड़ी मामले में 4 मई को 2024 को सीबीआई ने केस नंबर आरसी 5/2012 एएचडी-आर में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह समेत 37 लोगों को आरोपी बनाया था। इनके अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी झा, अलका कुमारी, मोहनलाल मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेम्स सुरीन, जितेंद्र मुंडा, पूनम कच्छप, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनंत कुमार, परमेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण एवं विजय वर्मा को आरोपी बनाया है।

वहीं सीबीआई ने जेपीएससी द्वितीय परीक्षा गड़बड़ी मामले में केस नंबर आरसी 6/2012 एएचडी-आर में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद समेत 70 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। झारखंड में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का आदेश हाईकोर्ट ने साल 2012 में सीबीआई को दिया था। 12 साल से अधिक समय तक सीबीआई ने की मामले की अनुसंधान पूरी कर दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है।

दरअसल, बुद्धदेव उरांव ने जेपीएससी प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा में अंको की हेरा फेरी एवं एवं रिजल्ट प्रकाशन में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है।

11.81 लाख लाभुकों को चार माह से नहीं मिली पेंशन : अमर बाउरी

- समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग पेंशन से वंचित

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हेमंत सरकार की नाकामी रही है कि 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिली है। झारखंड में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को पिछले चार महीने से पेंशन नहीं मिली है। हर तीन महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है लेकिन समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग पेंशन से वंचित हैं। उन्होंने जनता के सवालों को भी सरकार के समक्ष रखा है। इन सवालों में क्या 11.81 लाख गरीब और जरूरतमंद लोग सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। क्यों समय पर प्रमाण पत्र भेजने में असफल रही सरकार और 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा।

संविधान से छेड़छाड़ करने वाली पार्टी बन गयी है कांग्रेस : बाबूलाल मरांडी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। डोरंडा के अंबेडकर चौक से बुधवार को संविधान गौरव यात्रा का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। श्री मरांडी ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। माल्यार्पण के उपरांत बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान चलाकर अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच अपनी पार्टी की भावना एवं कांग्रेस पार्टी की अंबेडकर विरोधी चेहरे को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भाजपा हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। जबकि कांग्रेस ने सबसे अधिक बार भारतीय संविधान में छेड़छाड़ किया है। वही संविधान विरोधी पार्टी आज जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस से हर हाल में जनता को सजग रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कई बार चुनाव में हराने का प्रयास किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही जनता को ठगने का प्रयास करती रही है। जनता को सतर्क रहने की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश भास्कर, बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, केके गुप्ता, पायल सोनी, पूजा सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बजट में शामिल होंगे लोगों के सुझाव

आज से बजट पर शुरू होगी दो दिवसीय चर्चा

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य सरकार ने बजट को लेकर विभागवार चर्चा करने का फैसला किया है। यह चर्चा 16 जनवरी से शुरू होगी और दो दिनों तक चलेगी। इस दौरान विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों और विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए जायेंगे। बताते चलें कि तीन मार्च को सदन में बजट पेश किया जायेगा।

बजट में शामिल होंगे लोगों के सुझाव : सरकार ने पोर्टल के जरिए लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मिल भी रहे हैं। राज्यहित में दिए गए सुझावों को बजट में शामिल किया जायेगा। यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा।

वित्त मंत्री का दावा, 80 से 90 फीसदी राशि होगी खर्च : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार बजट का 80 से 90 फीसदी राशि उपयोग कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव वर्ष में विकास की गति में कमी आती है, लेकिन इस बार सरकार बेहतर प्रदर्शन करेगी।

कोर्ट ने जेपीएससी के जवाब पर जतायी सहमति

ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर उम्मीदवारी रद्द करना सही : हाईकोर्ट

अधिक अंक होने के बाद भी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में बुधवार को अधिक अंक होने के बाद भी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के जवाब से सहमति जताते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ओएमआर शीट सही से भरना जरूरी है। ऐसे में जेपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय सही है। इस संबंध में प्रार्थी कृष्णानंद पांडेय सहित अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने ओएमआर शीट सही तरीके से नहीं भरा था। रोल नंबर सहित कुछ अनिवार्य कॉलम को भी सही से नहीं भरा गया था। इसलिए, उनका पीटी परीक्षा में चयन नहीं किया गया है। उनकी ओर से हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को हवाला दिया गया। पूर्व में हाई कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट सही तरीके से भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा का रिजल्ट और आंसर शीट जारी किया गया है। उसमें निर्धारित अंक से उनका अधिक प्राप्तांक है लेकिन, उनका चयन पीटी परीक्षा में नहीं किया गया है, जो गलत है।

विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने रचा इतिहास

1.19 लाख विद्यार्थियों के डेटा को अपलोड किया

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने 1 लाख 19 हजार 685 विद्यार्थियों के डेटा को अपलोड डिजिटल वर्ल्ड में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। अब इस मामले में वह झारखंड में पहले पायदान पर आ गया है।

विद्यार्थियों को होगी आसानी

इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने बताया कि विद्यार्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने इस दिशा में ठोस पहल की है। अब विद्यार्थी डिजिलॉकर में जाकर भी अपने अंक पत्र और उपाधि डाउनलोड कर सकते हैं।

नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत हुआ यह कार्य : यह कार्य नई शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी का एकेडमिक बैंक क्रेडिट का डिजिटल आईडी बनाया गया है।

एनएचएआई अध्यक्ष ने लिखा चीफ सेक्रेट्री को पत्र, जतायी चिंता

एनएच प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि पर फंसा म्यूटेशन का पेंच

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड में नेशनल हाइवे के लिए ली गयी अधिग्रहित जमीन में म्यूटेशन का पेंच फंस गया है। अब तक कुल अधिग्रहित भूमि का मात्र दो फीसदी जमीन का ही म्यूटेशन अब तक हो पाया है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के चेयरमेन संतोष यादव ने चिंता जतायी है और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।

पत्र में एनएचएआई अध्यक्ष ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में यह भी महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य में भूमि नामांतरण की प्रगति अत्यंत धीमी है।

नामांतरण प्रक्रिया में देरी : रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक केवल 152 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण किया गया है, जो कुल 7609 हेक्टेयर का केवल 2 फीसदी है। यदि नामांतरण प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है, तो इससे कानूनी स्वामित्व समस्याएं, परियोजना कार्यान्वयन में देरी और नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। बताते चलें कि इस मसले को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने हाल ही में सभी जिलों के डीसी के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिया था कि वे सभी रूकावटों को दूर करें। सभी विभागों से समन्वय बनाकर समाधान निकालने की भी बात कही थी।

राजद ने जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी घोषित किया

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। प्रदेश राजद अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव ने जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी नियुक्त किया है। कैलाश यादव को बोकारो का प्रभारी बना गया है। उनके साथ मनोज पाण्डेय भी रहेंगे। ईश्वरी महतो और मोहर सिंह यादव को चतरा, गिरेंद्र यादव और जावेद अख्तर को देवघर, ज्ञानेश्वर यादव और संतोष यादव को धनबाद, सुरेश अग्रवाल और मो जाहिद इकबाल को दुमका, डॉ जनार्दन कुमार और बीरेंद्र सिंह यादव को पूर्वी सिंहभूम, मदन पासवान और कलाम खान को गढ़वा, राजकुमार गुप्ता और भूतनाथ यादव को गिरिडीह, मदन यादव और डॉ अरुण कुमार को गोड्डा, प्रणय कु बबलू और संतोष प्रसाद को गुमला, शारदा देवी और भोली प्रसाद साहू को हजारीबाग, शत्रुध्न यादव और उस्मान गनी को जामताड़ा, फैजुल हक और चंद्रशेखर भगत को खूंटी, डॉ मुतुर्जा और डॉ मनोज को कोडरमा, मो जियाउद्दीन अंसारी और योगेन्द्र यादव को लातेहार, अजय चंद्रवंशी और साहिल साहनी को लोहरदगा, सुनील कुमार और अशोक मांझी को पाकुड़, नरेश सिंह (विधायक) और सुरेश राम को पलामू, श्यामदास सिंह और रश्मि प्रकाश को रामगढ़, मंजू शाह और विक्रम यादव को रांची, संजय भारद्वाज और कृष्णा यादव को साहेबगंज, कमलदेव सिंह और राजेश यादव को सरायकेला खरसावां, इंद्रदेव ठाकुर और दिनेश दांगी को सिमडेगा और श्रीराम यादव और देवप्रकाश देवता को पश्चिमी सिंहभूम का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के निर्देशानुसार सभी प्रभारी एक सप्ताह के अंदर जिला अध्यक्षों से समन्वय बनाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने काम करें व कृत कारवाई का प्रदेश कार्यालय को अवगत कराने का काम करेंगे।

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे नेतरहाट के मुखिया

रांची। लातेहार जिले के नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चयन किया गया है। मुखिया राम के चयन से पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है. उनकी यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। मुखिया राम के रूप में जिला का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जो पंचायत की सक्रियता और विकास कार्यों को दर्शाता है। मुखिया राम ने पंचायती राज विभाग और जिले के लोगों का आभार जताया है। जिला प्रशासन व स्थानीय अधिकारियों ने नेतरहाट मुखिया राम विष्णु नगेसिया को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। डीसी ने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है।

नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव से लौटे प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

युवा तार्किक बनें और सवाल पूछने की आदत अपने जीवन में विकसित करें : सुदिव्य सोनू

स्वाति राज को भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने, शुभांगी क्षितिजा सौरभ और ऋषित को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन देने के लिए किया गया सम्मानित

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बुधवार को सम्मानित किया। मंत्री ने युवाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। वे हर क्षेत्र में परचम लहराने की क्षमता रखते हैं। जरूरत है उन्हें बेहतर मार्गदर्शन की और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका किताबें हैं। उनसे चीजों को परखने की क्षमता आती है। आज की पीढ़ी बहुत तेज है। युवा तर्क करने की क्षमता को विकसित करें। सवाल पूछने की आदत को विकसित करें। युवाओं का जोश और ऊर्जा राज्य और देश के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि बिना राज्य के विकास के हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

झारखंड में भी होगा युवा महोत्सव का आयोजन

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव करायेगी। उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनें हैं। उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों एवं टीम लीडर को अंग वस्त्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया। इस अवसर पर राजेश कुमार, ललिता कुमारी, ओमप्रकाश पांडेय, पुरुषोत्तम आदि मौजूद थे।

विभागीय पहल : जोन्हा और हुंडरू जलप्रपात में बनाया जायेगा रोपवे

एजेंसी ने दोनों स्थलों को रोप-वे निर्माण के लिए पाया अनुकूल

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड के दो जलप्रपातों जोन्हा और हुंडरू में जल्द ही रोप वे की सुविधा मिलेगी। विभाग की ओर से इसकी कवायद हो रही है। यहां पर्यटक जलप्रपात की खूबसूरती के अलावा रोपवे का भी आनंद लेते हुए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य देख सकेंगे। इन दोनों जगहों पर रोप-वे की संभावना का अध्ययन करने वाली एजेंसी (राइट्स लिमिटेड) ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। एजेंसी ने दोनों स्थलों को रोप वे के निर्माण के लिए अनुकूल पाया है।

राइट्स कंपनी को मिली डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी

इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने दोनों जगहों पर रोप वे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे दी है। इसकी जिम्मेदारी राइट्स को ही दी गयी है। डीपीआर तैयार होने के बाद योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति ली जायेगी। इसके बाद इसपर कैबिनेट की स्वीकृति भी ली जायेगी।

राज्य सरकार तलाश रही है संभावना

राज्य सरकार ने पांच जगहों जोन्हा, हुंडरू दशम, कौलेश्वरी और रांची के पहाड़ी मंदिर में रोपवे निर्माण की संभावना का अध्ययन करने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय के उपक्रम राइट्स लिमिटेड को सौंपी थी। इस एजेंसी ने अपने अध्ययन में जोन्हा और हुंडरू को इसके लिए अनुकूल पाया है। हालांकि अन्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दशम और पहाड़ी मंदिर में रोप वे निर्माण में बाधा

दशम फॉल में जमीन की समस्या है। अधिसंख्य खूंटकटी जमीन होने के कारण इसके अधिग्रहण में परेशानी आ सकती है। रांची के पहाड़ी मंदिर को रोपवे के लिए अनुकूल नहीं पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रांची के पहाड़ों की जमीन इतनी मजबूत नहीं है कि वहां रोपवे का निर्माण किया जा सके। अधिक भार पड़ने पर वहां की जमीन भरभरा सकती है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यपाल को मतदाता दिवस के लिए दिया निमंत्रण

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज भवन में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

दिल्ली स्थित कांग्रेस के नये कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे झारखंड कांग्रेसी

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नयी दिल्ली स्थित नये कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एवं खूंटी लोकसभा सांसद काली चरण मुंडा। सभी ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया।

झारखंड में जारी है कोहरा और बादलों की लुकाछिपी

रांची। झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

16 जनवरी का मौसम : मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक सुबह में कोहरे और धुंध के साथ बादलों की लुका-छिपी रहने के आसार हैं। ऐसे में गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम शुष्क रहेगा।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से किया संवाद

अपने कार्यों और उपलब्धियों से राज्य व देश का नाम करें रोशन : राज्यपाल

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से राज भवन में संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने युवाओं की प्रतियोगिता में भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि किसी विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और अन्य राज्यों की संस्कृति व सोच को समझना युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने कार्यों और उपलब्धियों से न केवल राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन करें।

राज्यपाल से संवाद के क्रम में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किया। स्वाति राज ने कहा कि उन्होंने विकसित भारत 2047 पर अपने विचार रखे। 3 मिनट के संबोधन के क्रम में उन्होंने पोषण, जीरो हंगर, कानून-व्यवस्था, विरासत, युवा रोजगार और अमृतकाल जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। वहीं, शुभांगी राज ने कहा कि उन्होंने विकास भी, विरासत भी पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद और उनके साथ भोजन को अपने जीवन का गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण बताया।

ऋषित ने टेक फॉर विकसित भारत पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने उल्लेख किया कि एक युवा के दृष्टिकोण से विकसित भारत के लिए तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है। उन्होंने अन्य राज्यों के युवाओं की प्रस्तुतियां देखने और उनकी संस्कृति को समझने का अनुभव भी साझा किया। स्वातिका ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में विकसित भारत @2047 पर अपने विचार प्रस्तुत किए और विभिन्न विषयों को रचनात्मकता के साथ समाहित किया। राज्यपाल ने प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर खेल निदेशक संदीप कुमार, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन ललिता कुमारी, डॉ ओपी पांडे, राजेश कुमार चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

रांची नगर निगम ने शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए निकाला टेंडर

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। राजधानी में खस्ताहाल सड़कें अब जल्द संवरने वाली हैं। रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों की खराब सडकों और नालियों की हालत सुधारने की योजना तैयार की है।

नगर निगम ने इसके लिए 4.05 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत 44 सड़कें व नालियों का निर्माण और मरम्मत के कार्य किये जायेंगे। इस टेंडर में 24 वार्डों के विभिन्न मुहल्लों की सड़कों का सुधार किया जायेगा, जिससे शहरवासियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। नगर निगम की अभियंता शाखा ने इस टेंडर के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की हैं।

टेंडर दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। 28 जनवरी को टेंडर ओपन किया जायेगा। यह पहल निगम द्वारा शहर की खराब सड़कों को ठीक करने के उद्देश्य से उठाई गई है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी। शहर के कई क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति बहुत खराह है। वहां से गुजरना भी कठिन है। कई स्थानों पर सड़क के टूटे-फूटे हिस्सों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं नल-जल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी जल्द नहीं की गई, इससे परेशानी और बढ़ गई है।

कुछ ट्रेनों में अस्थायी तौर पर जोड़े जायेंगे अतिरिक्त कोच

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से होकर परिचालित कुछ ट्रेनों में अस्थायी तौर पर कोच में वृद्धि की गयी थी जिसकी अवधि में कुछ संशोधन किया गया है। ट्रेन संख्या 18105 राउरकेला-जयनगर एक्स में 15 जनवरी से 17 जनवरी तक द्वितीय श्रेणी स्लिपर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जायेगा। ट्रेन 18106 जयनगर-राउरकेला एक्स में दिनांक 16 जनवरी से 18 जनवरी तक द्वितीय श्रेणी स्लिपर का 1 अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।

ये ट्रेनें रद्द रहेंगी : कानारोवां-टाटी -परबाटोनिया रेलखंड पर विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इसलिए ट्रेन 18175/ 18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस, 18 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 58659 हटिया -राउरकेला पैसेंजर, 16 और 17 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर, 17 जनवरी और एवं 18 जनवरी को रद्द रहेगी।

प्रधानमंत्री ने दो जहाजों और एक सबमरीन राष्ट्र को किया समर्पित

समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में देश को एक और उपलब्धि : संजय सेठ

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो जहाजों और एक सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इंडियन नेवी के सूरत, नीलगिरि और सबमरीन वाघशीर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में लड़ाकू युद्धपोतों को शामिल करना, नौसेना को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह पहली बार है, जब एक डिस्ट्रॉयर, एक ब्रिगेड और एक सबमरीन को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है।

गांधीनगर अस्पताल, सीसीएल में 24 जनवरी को हृदय रोग संबंधी नि:शुल्क चिकित्सा शिविर

खबर मन्त्र संवाददाता

यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रमोद कुचलाकान्ति देंगे अपनी सेवा

रांची। सीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर, कांके रोड, रांची में बृहस्पतवार 24 जनवरी को प्रातः 9 बजे से निःशुल्क हृदय रोग संबंधी चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. प्रमोद कुचलाकान्ति हृदय रोग से ग्रसित मरीजों का जाँच करेंगे एवं चिकित्सीय सलाह देंगे।

हृदय रोग से ग्रसित सभी मरीज इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकते हैं। मरीज के पास यदि पुराने ईलाज की रिर्पोट/जाँच के पेपर हों तो उसे अवश्य लायें। सीएमडी, सीसीएल, निलेन्दु कुमार सिंह के मार्ग निर्देशन में सीसीएल ने कर्मियों के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के लिए चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्पित है। सीसीएल द्वारा नियमित तौर पर देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आमंत्रित कर विभिन्न बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारी के अत्याधुनिक ईलाज की सुविधा उनके घर के निकट ही प्राप्त हो सके तथा इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।

बीआइटी मेसरा क्रिकेट टूर्नामेंट का छठा संस्करण फिटनेस, एकता और खेल उत्सव की है पहचान

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। बीआईटी मेसरा क्रिकेट टूर्नामेंट के छठे संस्करण का भव्य समापन बीआईटी मेसरा के क्रिकेट ओवल में हुआ। इसमें विभिन्न टीमों और उत्साही दर्शकों की भागीदारी देखने को मिली। छह साल पहले शुरू हुआ यह वार्षिक आयोजन सभी स्तरों पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, जो बच्चों और महिलाओं को खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने और इसे अपनाने का मंच प्रदान करता है। टूर्नामेंट में बीआईटी स्टाफ वाड्र्स की जूनियर और सीनियर सेक्शन की टीमें, पास के गांवों की बच्चों की टीम और बीआईटी मेसरा की कामकाजी और गृहिणी महिलाओं की टीम शामिल थीं। यह आयोजन फिटनेस और सामुदायिक बंधन के महत्व को भी दर्शाता है, खासकर महिलाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। पीके मिश्रा मेमोरियल ट्रॉफी, जिसे स्वर्णिमा पायल द्वारा प्रायोजित किया गया था, ऑरेंज चीता टीम ने जीती। वहीं, जेवी सागर मेमोरियल चिल्ड्रन ट्रॉफी में सीनियर सेक्शन में रॉयल्स चैंपियन बने और जूनियर सेक्शन में डोरेमन्स ने खिताब अपने नाम किया। बीआईटी मेसरा की प्रथम महिला स्निग्धा मन्ना ने इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। डॉ. गौतम, डॉ. धिमन, डॉ. एस. मिश्रा, और डॉ. घोष सहित सम्मानित फैकल्टी सदस्यों, स्टाफ और बच्च कार्यक्रम में रहे।

राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में सजेगी किताबों की खूबसूरत दुनिया

दस दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला 17 जनवरी से

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। स्थानीय जिला स्कूल मैदान में लगेगा 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया जायेगा । यहां 17 से 26 जनवरी तक सजेगी अक्षरों की खूबसूरत दुनिया और उत्सवों की रहेगी धूम । ये जानकारी समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चन्द्र भूषण ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि इस पुस्तक मेले में भागीदारी को लेकर प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेताओं के बीच खासा उत्साह है और वे अपने साथ ला रहे हैं नयी-पुरानी पुस्तकों की सौगात। पुस्तकें बोलेंगी, बातें करेंगी और ऐसी दुनिया में ले जायेंगी जहां आप थोड़ा और संवेदनशील और मानवीय होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्देश्य समाज में पुस्तकों के प्रति पनप रही उदासीनता की भावना को खत्म करना और किताबों के करीब पुस्तक प्रेमियों को लाना है।

छात्र-छात्राओं के लिए एन्ट्री फ्री : आयोजक चन्द्रभूषण ने बताया कि स्कूली एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पुस्तक मेला में पुस्तकों के करीब लाने के लिए संस्था की ओर से विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । मेला अवधि के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक छात्र-छात्राएँ प्रात: 11 बजे से 2 बजे के बीच अपना आई कार्ड दिखा कर फ्री प्रवेश पा सकते हैं।

मेले में भाग ले रहीं प्रमुख संस्थाएं : पुस्तक मेले में जिन प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रताओं की स्वीकृति मिल चुकी है उनमें राजपाल एण्ड संस, प्रकाशन संस्थान, समय प्रकाशन, यश प्रकाशन, लक्ष्मी प्रकाशन, नैय्यर बुक सर्विस, वर्मा बुक कम्पनी, रोहित बुक कम्पनी, विकल्प प्रकाशन, आर्यन बुक कम्पनी (नई दिल्ली), हिन्द युग्म (गौतम बुद्ध नगर), दिव्यांश प्रकाशन (लखनऊ), योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया, क्राउन पब्लिकेशन, झारखंड झरोखा, गीता प्रेस (रांची), श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केन्द्र (गिरिडीह), राज्य अभिलेखागार (पटना) आदि प्रमुख हैं। झारखंड झरोखा के स्टॉल पर ही राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, प्रतियोगिता संबंधी और झारखंड पर केन्द्रित पुस्तकें होंगी।

झारखंड की सफलता की कहानी बनी एटिपिकल प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड

खबर मन्त्र ब्यूरो

स्टार्टअप

कंपनी विकलांगों के विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को पहचानने और उन्हें संचालन में एकीकृत करने में व्यवसायों की सहायता पर दी रही जोर

रांची। झारखंड में स्थित एटिपिकल प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचा रहा है। यह व्यवसाय अंत से अंत तक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करता है, जो कॉर्पोरेटों को समावेशी बनने और विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के उनके प्रयासों में मदद करता है। विभिन्न विकलांगता संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, कंपनी विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) के विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को पहचानने और उन्हें अपने संचालन में एकीकृत करने में व्यवसायों की सहायता करने की भी उम्मीद करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विविध और समावेशी कार्यबल होता है, स्टार्टअप अपने क्षेत्र में एक गेम चेंजर रहा है।

डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया नेशनल स्टार्टअप अवार्ड विजेता 2023 : स्टार्टअप का लक्ष्य अगले दस वर्षों के दौरान दस लाख या उससे अधिक नौकरियां पैदा करना है, और भले ही वे 500 व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करें जो 500 लोगों को रोजगार दे सकें, यह कुल समय के साथ संभव लगता है। दस लाख पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 रुपये प्रति कर्मचारी के औसत वेतन के साथ, भर्ती शुल्क उद्योग में लगभग 2000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने की भारी क्षमता है। यह उपलब्धि झारखंड और उसके बाहर अभिनव स्टार्टअप के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।

अखबार हित में न्यूज प्रिंट पर से जीएसटी हटाने की मांग

- **समाचार पत्रों के समक्ष अस्तित्व के संकट को लेकर नयी दिल्ली में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन**

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची । पूरे देश में समाचार पत्रों के समक्ष गहराते संकट और मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए नवगठित अखिल भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक-संपादक संघ की आज यहां रांची प्रेस क्लब में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट) को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त करने की मांग की गई। इस मांग को लेकर संघ आगामी फरवरी माह में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगा और केन्द्र सरकार से इस समस्या का हल निकालने का आग्रह करेगा।

बैठक में उपस्थित बिहार, झारखंड , नई दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के चार दर्जन से अधिक समाचार पत्रों के प्रकाशकों-संपादकों ने कहा कि आज देश के समाचार पत्र कई कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं और इन्हें दूर करने के लिए संघ निरंतर प्रयास करेगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समाचार पत्र प्रकाशक-संपादक संघ की ओर से समाचार पत्रों खासकर अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट) को जीएसटी से मुक्त करने और प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह समाप्त करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। संघ की बैठक में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनी कि यदि अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट) पर जीएसटी को तत्काल वापस नहीं लिया जाता है तब तक प्रसार जांच की नई पॉलिसी को स्थगित रखने के साथ-साथ सरकार इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन करे और आयोग समाचार पत्रों के समक्ष

सरकार के स्तर पर उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में गहन अध्ययन कर एक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को समर्पित करे।

बैठक में प्रकाशकों ने एक स्वर से कहा कि आज हिंदी समेत सभी भाषाई अखबारों के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है और इससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा खतरा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यदि देश में बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों के समक्ष बंदी की स्थिति उत्पन्न हुई तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्रों से जुड़े एक करोड़ परिवार यानि करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित तथा बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होने वाले में प्रखंड, अनुमंडल, जिला तथा राज्य स्तर पर कार्यरत पत्रकारों के अलावा अखबार के वितरण कार्य में लगे हॉकर तथा एजेंट भी शामिल होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पूरे देश के समक्ष बेरोजगारी को लेकर अलग तरह का बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके साथ 6 वर्षों से विज्ञापन दर को संशोधित करने के मामले को लंबित रखे जाने के समाधान किए जाने पर जोर दिया गया।

संघ की ओर से कहा गया है कि अखबारी कागज, स्याही, मुद्रण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियों पर जीएसटी लागू किए जाने से अखबार प्रकाशन की लागत में काफी वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर डीएवीपी का विज्ञापन दर पिछले 6 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि डीएवीपी (अब केंद्रीय संचार ब्यूरो) की ओर से प्रत्येक 3 वर्ष पर विज्ञापन दर संशोधित करने की परंपरा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 10 फरवरी को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया या कांस्टीट्यूशन क्लब में समाचार पत्र प्रकाशकों-संपादकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें समाचार पत्र उद्योग की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी और इस सिलसिले में समस्याओं के समाधान के लिए संघ का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण सचिव, केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो के महानिदेशक तथा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से मिलकर समाचार पत्र उद्योग के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए विचार- विमर्श और आग्रह करेगा। बैठक में सभी प्रकाशकों और संपादकों की आशंका थी कि यदि समाचार पत्र उद्योग पर गहराते संकट को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए गये तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

बैठक में कमल किशोर, रजत गुप्ता, सौरभ सिंह, अविनाश ठाकुर, अशोक कुमार, प्रेम शंकर, विनय कुमार, श्रीराम अम्बष्ट, विनय वर्मा, राहुल सिंह, रोहित दत, देवन राय, संजय पोद्दार, नित्यानंद शुक्ला, एसएम खुर्शीद, सम्पूर्णानंद भारती, नवल सिंह, मधुकर सिंह, मो. रहमतुल्लाह, संतोष पाठक, मुस्तकीम आलम, अनश रहनुमा समेत बड़ी संख्या में प्रकाशक-सम्पादक उपस्थित थे।

रांची डीसी ने स्मार्ट डिस्प्ले का फीता काटकर किया शुभारंभ



खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बुधवार को समाहरणालय स्थित कमरा संख्या-608 के एनआईसी सभागार में स्मार्ट डिस्प्ले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस स्मार्ट डिस्प्ले में कई अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो उच्च क्षमता वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त हैं। इसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा भी है, जिससे एक साथ दो फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है।

यह स्क्रीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रांची राजीव कुमार, अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रांची रिमा कुजूर, और जिला खनन पदाधिकारी रांची अबु हुसैन उपस्थित थे।

खबर एक नजर में

एफटीवी सैलून का भव्य उद्घाटन

रांची। रातू रोड में बुधवार को एफटीवी सैलून का भव्य उद्घाटन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अनीता गुप्ता एवं छवि गुप्ता उपस्थित थी। स्पेशल अतिथि के रूप में हिल टाप पब्लिक स्कूल की प्राचार्य संगीता राज मौजूद थीं। यह एक फैशन टीवी सैलून की फ्रेंचाइजी इकाई है जो कि हर तरह की फैशन के क्षेत्र में सेवा देने के लिए तत्पर है।

आईसीएम श्रमिक संघ की बैठक आयोजित

रांची। आईआईसीएम कांके रोड रांची में बुधवार को आईआईसीएम श्रमिक संघ की बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैंपस के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव के संबंध में चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कैंपस के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाएं। आईसीएम श्रमिक संघ ने इस मुद्दे पर कोल इंडिया से हस्तक्षेप की मांग की है।

परिषद एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से दरोगा सिंह का इस्तीफा

रांची। स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रह्मर्षि विकास परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से दरोगा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को दिए इस्तीफा में उन्होंने कहा है कि पिछले कई वर्षों से वह अपने जिम्मेदारी, भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करते आ रहे थे। परंतु कुछ महीनो से वह लगातार अस्वस्थ रह रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इस कारण वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। परिषद के परिनियम के आलोक में उन्होंने स्वतः अपना त्यागपत्र समर्पित कर दिया है। उनहोंने अपना त्यागपत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रह्मर्षि विकास परिषद ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को सौंपा है।

डॉ. गुरुचरण साहू बनाये गये रांची विवि के प्रभारी रजिस्ट्रार

रांची। रांची यूनिवर्सिटी में प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर पीजी केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गुरुचरण साहू को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति के संतोष गंगवार के निर्देश पर इन्हें नियुक्त किया गया है। डीआर डॉ. प्रीतम कुमार द्वारा नियुक्ति से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि डॉ. साहू का कार्यकाल एक वर्ष या स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति होने तक रहेगा। वर्तमान में डॉ. बिनोद कुमार रजिस्ट्रार का प्रभार संभाल रहे थे।

लेक्चरर नियुक्ति के नोडल पदाधिकारी बने डॉ. बिनोद नारायण

रांची। रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए नोडल पदाधिकारी के पद पर डॉ. बिनोद नारायण को नियुक्त किया गया है। वीसी डॉ. अजीत कुमार सिन्हा के आदेश के आलोक में डीआर डॉ. प्रीतम कुमार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पीजी सोशियोलॉजी विभाग के अलावा वोकेशनल कोर्सों समेत सभी नियुक्तियों के नोडल पदाधिकारी के रुप में कार्य करते रहेंगे।

चैती दुर्गा पूजा समिति संस्थापक सदस्य मनोज गुप्ता का निधन

रांची। डोरंडा बाजार काली पूजा समिति के वरिष्ठ सदस्य व चैती दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक सदस्य मनोज गुप्ता झुन्नु का आकस्मिक निधन मंगलवार को हो गया। स्थानीय घाघरा नामकुम स्थित स्वर्णरेखा घाट में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। स्व. मनोज गुप्ता झुन्नु के निधन पर सांसद दीपक प्रकाश, विधायक नवीन जायसवाल सहित प्रकाश वर्मा, जयदेव घोष, विवेक सहाय, निर्मल गुप्ता, प्रकाश मामा, प्रमोद चौधरी, अरुण गुप्ता, संजीव, विजय, पप्पू वर्मा, शंकर गुप्ता, उमेश बर्मन, विजय पाल, मुकेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, पियूष, विजय, सतेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शोक व्यक्त किया। यह जानकारी मनोज वर्मा ने दी।

मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा ने की जन सेवा

रांची। मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा ने बुधवार को शाखा अध्यक्ष विनिता सिंघानिया के नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर मेन रोड में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर शाखा अध्यक्ष ने बताया कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 40वें स्थापना दिवस को वृहत रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर झारखंड प्रांत द्वारा सात दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस मौक पर सचिव शुभा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका स्मिता अग्रवाल, चंद्रकला एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी सरिता बथवाल ने दी।

एचडीएफसी बैंक का राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित

रांची। एचडीएफसी बैंक ने रेड एफएम 93 .5 एफएम के सहयोग से एक दिवसीय राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। मौके पर जोनल हेड संदीप गौतम ने कहा कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से बाइकर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एचडीएफसी बैंक शाखा की टीम के साथ-साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

डीएसपीएमयू वीसी ने विभागीय सचिव को दी अंडरस्टैंडिंग इंडिया पुस्तक की एक कॉपी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के वीसी डॉ तपन कुमार शांडिल्य ने बुधवार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा संयुक्त तौर पर लिखी गई पुस्तक-अंडरस्टैंडिंग इंडिया की एक प्रति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को भेंट की। वीसी ने प्रधान सचिव राहुल पुरवार को अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी भारत बोध पुस्तक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तक सही मायनों में इसलिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ यह पुस्तक नई शिक्षा नीति के अंडरस्टैंडिंग इंडिया सिलेबस को हूबहू ध्यानगत करते हुए लिखी गई है, बल्कि इसके प्रत्येक खंडों का लेखन कार्य उस खंड विशेष के विषय से संबंधित विशेषज्ञ प्राध्यापकों के द्वारा किया गया है। यह इस बात से और अधिक प्रमाणित होती है कि कुल 5 इकाइयों या खंडों में विभाजित इस पुस्तक के लेखन कार्य में लगभग 15 विषय विशेषज्ञों ने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 के अंतर्गत सेमेस्टर पद्धति पर आधारित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग इंडिया के परीक्षा प्रारूप को ध्यानगत रखते हुए सामूहिक तौर पर लेखन कार्य किया। गौरतलब है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानि भारत बोध पुस्तक के मुख्य संपादक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉ तपन कुमार शांडिल्य हैं। यह जानकारी पीआरओ प्रो. राजेश कुमार सिंह ने दी।

स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए रांची नगर निगम ने किया 15 टीमों का गठन, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट की मरम्मति के लिए 15 टीमों का गठन किया है। निगम के मुताबिक, निगम के सभी क्षेत्र में मुख्य पथों, सामुदायिक स्थलों में लगे स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव का कार्य मेसर्स ईईएसएल प्रा.लि. को दिया था। इसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में प्रशासक के निर्देश पर विद्युत शाखा के 15 टीमों का गठन किया गया है। सभी टीम खराब पड़े स्ट्रीट लाइट की मरम्मति कर उसे दुरूस्त करेगी। बुधवार को उप प्रशासक के नेतृत्व में सभी टीमों को निगम कार्यालय से रवाना किया गया। सभी टीम को जोनवार (चार जोन) प्रतिनियुक्त किया गया है। टीम सभी निर्धारित वार्डों में गश्ती लगाकर खराब पड़े लाइट को ठीक करेगी। निगम के कनेक्ट सेंटर या अन्य ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निष्पादन करेगी। इसके अलावा निगम ने लोगों को अपने-अपने वार्ड की खराब पड़ी लाइट के लिए कनेक्ट नंबर 18005701235 या वाट्स एप नंबर 8141231235 से मदद लेने को कहा है। एंड्रॉयड या आईओएस से स्मार्ट रांची एप डाउनलोड कर निगम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संपर्क कर सकते हैं।

जोन 1, 2,3,4 के सुपरवाइजर से इस तरह संपर्क होगा

जोन-1: इसमें वार्ड संख्या 1, 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 को शामिल किया गया है। फोन नंबर 7257000151 से लाइट की मरम्मति के लिए बात की जा सकती है।

जोन-2 में वार्ड 03, 04 से 12 तक और 18, 19, 47 को शामिल किया गया है। फोन नंबर 9304011624 से मदद मिलेगी।

जोन-3 में वार्ड 13 से 17 तक और 20-25 तक तथा 45-46 को भी रखा गया है। फोन नंबर 7779893282 से इस वार्ड के लोगों को मदद मिलेगी।

जोन-4 में वार्ड 37-53 तक को रखा गया है। इसके लिए 943179816 से मदद मिलेगी।

सरला बिरला स्कूल में मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। सरला बिरला पब्लिक स्कूल में मकर संक्रांति का उत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों में इस पर्व के महत्व और उससे जुड़ी परंपराओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यालय के चारों सदनों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए शानदार झांकियों का प्रदर्शन किया। इनमें असम का बिहू, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना का पोंगल, पंजाब की लोहड़ी और झारखंड का टुसू पर्व शामिल थे। हर झांकी ने इन त्योहारों और अच्छी फसल की खूबसूरती को प्रस्तुत किया। इसके अलावा, विद्यालय में पतंग बनाने और उड़ाने की गतिविधि का आयोजन भी किया गया। प्राचार्या परमजीत कौर ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और सामूहिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव बच्चों को भारत की परंपराओं और क्षेत्रीय त्योहारों से जोड़ते हैं और उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करते हैं।

बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल का कैंप आज से

रांची। बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल की समस्त 86 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण चुकाएं एवं ऋण पाएं योजना के अंतर्गत विशेष कैंपों का आयोजन आज से किया जा रहा है। यह कैंप 29 जनवरी तक चलेगा। इन कैंपों में ज्यादा पुराने एनपीए केसीसी खातों में बैंक की स्टार संजीवनी योजना के अंतर्गत 10% से 90% की भारी छूट के साथ खाता बंद कर दिया जाएगा साथ ही कुछ आसान शर्तों के साथ 0% ब्याज दर पर उनकी पात्रता के अनुसार 3 लाख तक का नया केसीसी भी दिया जायेगा। 2 लाख तक की राशि बिना बंधक के और 2 लाख से 3 लाख तक की राशि बंधक के साथ 0% ब्याज पर दिया जाएगा। 0% ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को साल में कम से कम एक बार एक दिन के लिए ब्याज समेत पूरी रकम खाते में जमा करनी होगी। पुराने एनपीए खातों में समझौते की पूरी राशि मिलने पर तुरंत नो ड्यूज दिया जाएगा और नए केसीसी स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारभ कर दी जाएगी। इस योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल ने अपने लगभग 50000 केसीसी धारक किसानों का ऋण 70% से 90% तक माफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में बाहरी छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में बाहरी छात्रों के लिए एक भव्य ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में आसपास के अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले तथा शिक्षा से वंचित स्लम एरिया के कई बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तीन आयु वर्गों के छात्रों ने हिस्सा लिया। ग्रुप ए (3-4 वर्ष), ग्रुप बी (5-6 वर्ष) और ग्रुप सी (7-8 वर्ष)। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से कागज पर उतार कर सबको प्रभावित किया। ड्रॉइंग प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एवं मुख्य जज जाने-माने पेंटर आर्टिस्ट जनाब डॉ. जाकिर हुसैन ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्राचार्या सोनी सितारा केरकेट्टा ने बताया कि ड्रॉइंग प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पठन-पाठन और किताब कॉपी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में निजामुद्दीन जुबैरी, तनवीर अहमद, अली जुबैरी की अहम भूमिका रही, साथ ही तमन्ना, खुशनुमा, सादिया, सना, किरन, कुलसुम, नीलू, सदफ, कशिश, मनौवर, शशी, अतिका, नाज, चंदा, सजरा और शहमा सहित सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

राधानगर पंडरा में 22 को होगा सामूहिक सुंदर कांड पाठ

- **पाठ के आयोजन को लेकर बैठक, प्रचार वाहन रवाना**

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। धर्मरक्षिणी श्रीराम सेवा समिति टीम की ओर से 22 जनवरी बुधवार को राधानगर ग्राउंड चिमनी भट्ठा के पीछे पंडरा में एक दिवसीय सामूहिक भव्य सुंदर कांड का आयोजन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। यह जानकारी अयोजनकर्ता सह भाजपा नेत्री कुमुद झा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में गया से पाठ वाचक आलोक मिश्रा आएंगे। उनके साथ 1100 महिलाओं द्वारा सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही नगर कीर्तन, भजन, भंडारा का आयोजन होगा। कुमुद झा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबर्धन होता है एवं सामाजिक समरसता और सौहार्द्र का वातावरण बनता है।

बुधवार को राधानगर पंडरा ग्राउंड में कार्यक्रम के निमित पूजा कर प्रचार वाहन रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र निवासी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति की अध्यक्षता सुनील सिंह कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आयोजनकर्ता के तौर पर सुरेश प्रसाद, सोनू भारद्वाज, राजेश साह, अरुण सिंह, रजनी सिन्हा, दीपक भारद्वाज, पवन पांडेय, मोनू सिंह, प्रमोद सिंह, आमोद पांडेय, अनिल गुप्ता, राजकुमार यादव, बिक्की शर्मा, राजकुमार, ललन श्रीवास्तव, अनीश, फुलमन्ति देवी, शुषमा देवी, नीलम, अंजली, स्वेता, मीनाक्षी सहित कई लोग सम्मिलित हैं।

निःसंतानता को लेकर गलधारणाओं को दूर करने की आवश्यकता : सीपी सिंह

- **इन्दिरा आईवीएफ अब बरियातु रांची में भी शुरू**

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। भारत में निःसंतानता आज भी ऐसा विषय है, जिस पर बात करने में लोग सहज महसूस नहीं करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या काफी बढ़ी है। आज के समय में जटिल समस्याओं के बावजूद आधुनिक तकनीकों से संतान सुख मिल सकता है। निःसंतानता उपचार के क्षेत्र में इन्दिरा आईवीएफ ने एक और कदम रखा है। उन्होंने बरियातु में अपने नवीनतम आईवीएफ हॉस्पिटल की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि इन्दिरा आईवीएफ रांची हेड व ईस्ट जोन क्लस्टर क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ श्रुति सिंह, हॉस्पिटल हेड डॉ विनिता सिंह, विशेष अतिथि डॉ शोभा चक्रवर्ती, डॉ करूणा झा, डॉ, उषा रानी, डॉ प्रीतिबाला सहाय, डॉ सुषमा प्रिया, डॉ कुमकुम विद्यार्थी, डॉ एस सिंह, डॉ शशिबाला सिंह, डॉ उषा नाथ, डॉ मुक्ता नारायण, डॉ अनुभा विद्यार्थी ने फीता काटकर समारोहपूर्वक किया। मौके पर सीपी सिंह ने कहा कि निःसंतानता को लेकर गलधारणाओं को दूर करने की आवश्यकता है,

इन्दिरा आईवीएफ जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, यह अच्छी पहल है। लोग आईवीएफ के खर्च को लेकर चिंता करते हैं ऐसे में कम खर्च में आईवीएफ ट्रीटमेंट मिलने से दंपतियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

इन्दिरा आईवीएफ ग्रुप के सीईओ और को-फाउंडर डॉ क्षितिज मुर्डिया ने कहा कि निःसंतानता की बढ़ती समस्या को देखते हुए हम उच्च तकनीकी से युक्त निःसंतानता उपचार केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम निःसंतानता के उपचार को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रुप द्वारा देशभर में एक लाख साठ हजार से अधिक सफलतम आईवीएफ प्रोसिजर किये जा चुके हैं।

हॉस्पिटल हेड डॉ श्रुति सिंह ने बरियातु में हॉस्पिटल की शुरुआत के अवसर पर कहा कि भारत में लगभग 33-34 मिलियन दम्पतियों के सामने आने वाली निःसंतानता संबंधी चुनौतियों को दूर करने के प्रयास करते हुए अत्याधुनिक निःसंतानता उपचार और सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। बरियातु हेड डॉ विनिता सिंह ने कहा कि दम्पतियों को नवीनतम निःसंतानता उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बरियातु हॉस्पिटल की शुरुआत बड़ा कदम साबित होगी। इन्दिरा आईवीएफ ग्रुप की ओर से यहां पर अत्याधुनिक तकनीक और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करके दम्पतियों को जटिल समस्याओं के बावजूद माता-पिता बनने में सहायता प्रदान की जाएगी। बरियातु हॉस्पिटल के उदघाटन के अवसर पर पूरे जनवरी महीने में निःशुल्क निःसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दम्पती एक्सपर्ट डॉक्टर से निःसंतानता संबंधी परामर्श का लाभ ले सकते हैं।

सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे चंद्रवंशी

■ बिश्रामपुर विस क्षेत्र के सभी भाजपा मंडल अध्यक्षों ने संयुक्त प्रेसवार्ता में संन्यास लेने की बातों को बताया अफवाह

विश्रामपुर (पलामू)। बिश्रामपुर-मझिआंव विस क्षेत्र के सभी भाजपा मंडल अध्यक्षों ने एक स्वर में पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के राजनीति से संन्यास लेने की बातों को अफवाह करार दिया। मंडल अध्यक्षों ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि श्री चंद्रवंशी भाजपा के प्रादेशिक व विश्रामपुर विस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता हैं। वे अभी सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। इनके नेतृत्व में ही कार्यकर्ता अगले पांच वर्षों तक क्षेत्र में संगठन को और मजबूत करेंगे। अगला विधानसभा चुनाव भी इनके नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा। सभी भाजपा मंडल अध्यक्ष बुधवार को विश्रामपुर के नावाडीह कला स्थित आरसीआईटी के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। क्षेत्र में यह अफवाह फैल गयी थी कि रामचंद्र चंद्रवंशी चुनावी राजनीत से संन्यास ले रहे हैं। भाजपा के विश्रामपुर नगर मंडल अध्यक्ष बबन राम ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों की भी यही इच्छा है कि रामचंद्र चंद्रवंशी राजनीति में अभी सक्रिय रहे। इनके दिशा निर्देशन में ही पार्टी आगे भी बेहतर करेगी।

ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अमरेश तिवारी ने कहा कि हम सब अगले पांच वर्षों तक श्री चंद्रवंशी के नेतृत्व में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर पायेंगे। सही कार्यों का समर्थन करेंगे और गलत कार्यों का विरोध करेंगे। आगामी विस चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे भी।

प्रेसवार्ता में भाजपा के ऊंटारी रोड मंडल अध्यक्ष सुशील ठाकुर, पांडू मंडल अध्यक्ष प्रेम शंकर सिंह, नावा बाजार अध्यक्ष महादेव यादव, मझिआंव नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता, मझिआंव ग्रामीण अध्यक्ष दीपक चौहान, बरडीहा अध्यक्ष संजय यादव, कांडी अध्यक्ष शशि रंजन दुबे, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामलला दुबे, जिला कार्यसमिति सदस्य उमा यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के इदरीश हवारी, उपेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, रघुवीर सिंह चंद्रवंशी, आनंद चंद्रवंशी सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे।

बोकारो विधायक श्वेता सिंह चास नगर निगम में गंदगी देख भड़कीं

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने चास नगर निगम कार्यालय पहुंचकर चास नगर की आम जनता की उपस्थिति में नगर आयुक्त के साथ स्वच्छता पेयजल एवं स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं को लेकर आवश्यक बैठक की। इस बैठक में सिंह ने नगर आयुक्त से कहा कि चास नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डो में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार क्षेत्र की जनता इन मामलों को लेकर परेशान है लेकिन कहीं भी कार्यालय के अधिकारी और कर्मी इस मामले को लेकर सजग नहीं हैं। पेयजल से संबंधित कार्यों में धीमी गति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद हैं। इसे भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। विधायक सिंह ने कहा कि चास नगर निगम अपने कार्यों को विभिन्न वार्डों में सुचारू रूप से करने के लिए पांच सीटी मैनेजर नियुक्त किए हैं लेकिन किन्ही का भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। बैठक संपन्न होने के पश्चात इसी क्रम में श्वेता सिंह ने चास के भालोटिया गली पहुंचकर वहां फैले गंदगी के अंबार को देखा और सिटी मैनेजर को जल्द से जल्द यहां की सफाई के साथ-साथ सभी वार्डो में सुचारू रूप से स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता में लेते हुए इसका निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार जनहित के मामलों में बहुत ही गंभीर है।

अगर तय समय पर पूरे निगम क्षेत्र में स्वच्छता की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया गया तो इस मामले में अवरोध बन रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकारी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

एक नजर में

आपत्तिजनक स्थिति में महिला-पुरूष को ग्रामीणों ने पकड़ा, बनाया बंधक

दुमका। जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में बीते रात आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर एक व्यक्ति और एक महिला को ग्रामीणों ने करीब 20 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट किया। जानकारी के अनुसार पांचूबाद गांव के विश्वनाथ सोरेन का जमुनिया गांव की एक शादीशुदा महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। गुरुवार की रात जैसे ही विश्वनाथ महिला से मिलने उसके घर गया, तो ग्रामीणों ने उसे और महिला को बंधक बनाकर जमकर पीटाई की। सुबह जब सरैयाहाट पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस गांव पहुंच जब बंधकों को छुड़ाने का प्रयास किया, तो ग्रामीणों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी और पुलिस को भी बंधक बना लिया। जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस गांव पहुंच आक्रोशित लोगों को समझा-बुझा कर शांत करा बंधकों को छुड़ाया। ग्रामीणों और महिला के पति का आरोप था कि उक्त युवक का महिला के साथ शारीरिक संबंध है और अक्सर रात को वो महिला के घर आता है। घटना के बाद पुलिस ने बंधकों को छुड़ाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में इलाज कराया। इधर घटना के सरैयाहाट प्रखंड के माथाकेशो पंचायत की पूर्व मुखिया तलामय सोरेन ने भी सरैयाहाट थाना में आवेदन देकर जमुनिया गांव के कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पूर्व मुखिया ने अपने दिए आवेदन में बताया है कि गांव में हुए झगड़े को लेकर वो आपसी सुलह के लिए अपनी बेटी के साथ जमुनिया गांव गई थी। इस दौरान गांव के कुछ युवकों ने उसकी बेटी और उसके साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट किया। खबर लिखें जाने तक महिला पुरुष को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर थाना में रखा है।

केबी कॉलेज बेरमो में समीक्षा बैठक

बेरमो। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की समीक्षा बैठक बुधवार को प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता और प्रोग्राम ऑफिसर डॉ प्रभाकर कुमार के नेतृत्व में करवाई गई। प्राचार्य ने कहा समीक्षा बैठक में एन एस एस के स्वयं सेवकों के वर्ष भर के क्रिया कलापो, गतिविधियों पर चर्चा की गई। डॉ प्रभाकर ने बताया सात दिवसीय स्पेशल यूनिट कैंप का आयोजन किया जाना है, इसके लिए आज स्वयं सेवकों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करवाया गया। समीक्षा बैठक में सभी एन एस एस स्वयं सेवकों के वर्ष भर की उपलब्धियों पर लेखा जोखा किया गया। नए सत्र के छात्र छात्राओं से भी स्वयं सेवकों के लिए नामाकन फॉर्म के आवेदन की मांग की जाएगी।

गोड्डा से साइबर ठग गिरफ्तार

गोड्डा। जिला पुलिस को प्रतिबिम्ब एप्प के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम तेलोलिया में एक युवक के द्वारा ऑनलाईन साईबर ठगी किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु टीम का गठन कर लोकेशन पर छापामारी की गयी। पुलिस को देखते ही लड़का घर के पीछे के दरवाजा से भागने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछ-ताछ करने पर फोन के माध्यम से साईबर ठगी करने की बात स्वीकार की। उसके पास से बरामद बुलेट बाईक भी उसी पैसे से खरीदने की बात बताया है। छापामारी के क्रम में उसके पास से प्रतिबिम्ब एप्प में प्रयोग किया गया मोबाईल एवं सिम कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड/गाड़ी का पेपर आदि बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छापेमारी टीम में प्रशिक्षु पुलिस उप अधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में मुफ्फसिल थाना प्रभारी कृष्णा साह के साथ अन्य पुलिस जवान शामिल थे। एसडीपीओ गोड्डा अशोक प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी।

स्पीड न्यूज

दुमका : सड़क हादसे में युवक की मौत

मसलिया। तातलोई मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार 26 वर्षीय लखीश्वर हेम्ब्रम की ब्रेकर से उछलकर गिर जाने से मौत हो गई। घटना जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र में इसमाला गांव के समीप सोमवार की देर शाम को घटी। मृतक बाईक सवार दुमदुमी गांव का रहने वाला था। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दी है। थाना क्षेत्र के कुसुमघाटा पंचायत के उपमुखिया जयदेव किस्कू ने बताया कि लखीश्वर हेंब्रम गांव के ही अपने साथी मिथुन टुडू के साथ बाइक से तातलोई मेला देखने गया था। देर रात को दोनों मेला से लौट रहे थे। रास्ते में इसमल्ला गांव के पास निमार्णाधीन पुल के पास मुख्य सड़क में दोनों ओर सड़क निर्माण कंपनी द्वारा बनाए गए ब्रेकर पर मिथुन टुडू तेजगति से बाइक चढ़ा दी। जिससे पीछे बैठा लखीश्वर बाइक से सड़क किनारे फेंका गया। सिर में चोट लगने से घटना स्थल में ही उसकी मौत हो गई। बाइक के रुकने पर मिथुन टुडू देखा कि पीछे बैठा लखीश्वर बाइक में नहीं है। अंधेरे के कारण उसे लखीश्वर नहीं दिखा। नशे में होने के कारण मिथुन उसकी खोजबीन करने की बजाय घर आ गया। पुल निर्माण करा रहे मुंशी ने जब मृतक को देखा तो टोंगरा थाना को फोन कर घटना की सूचना दी। मृतक दो बच्चों का पिता था। वह मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था।

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बच्चों ने लगाया तिलक और दिया फूल

बोकारो। बोकारो के विभिन्न जगहों पर अलग-अलग संगठनों द्वारा चलाए जा सड़क सुरक्षा अभियान की कड़ी में बोकारो स्टील के सुरक्षा अभियंत्रण विभाग के तत्वावधान में नगर के प्रमुख चौराहों-बीजीएच गांधी चौक एवं पत्थरकट्टा चौराहे पर एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के माथे पर तिलक लगाकर और टॉफी देकर चालकों से सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर बच्चों के साथ सुरक्षा अभियंत्रण विभाग के एजीएम नेहाल पासवान बीएस एल सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। इधर बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस न्यू विभाग में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारम्भ ईडी संकार्य सीआर महापात्रा के द्वारा किया गया।

बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध : डालसा

गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों में 90 दिवसीय इंटेंशिव शिविर आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

गोड्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में पंचायत स्तर पर 90 दिवसीय गहन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बसंतराय की डालसा की टीम ने क्षेत्र के राहा, कोरियाना, धपरा,सोहराय गांवों में जाकर लोगों को जागरुक किया। डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल जायसवाल मांझी व जोबाती मुर्मू ने ग्रामीणों को,मानव तस्करी, बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान में शिक्षा सबसे जरुरी है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरुर भेजें। बच्चों से कभी भी मजदूरी नहीं करायें। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। स्थानीय स्तर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था है। आज विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पोशाक व छात्रवृति की भी व्यवस्था है। वहीं किसी प्रकार की समस्या होने पर विधिक सेवा की भी व्यवस्था है। बेटा और बेटी को समान रूप से शिक्षित करने की जरुरत है। महिला शिक्षा के प्रति समाज में जन जागरुकता जरुरी है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, पोक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि से संबंधित जानकारी दी गई। इसी प्रकार मेहरमा में रामविलास महतो एवं सुषमा मरांडी, बोआरीजोर में दयानंद यादव एवं अनिता टुडू, ठाकुरगंगटी में विमल टुडू एवं मुन्नी रानी, महागामा में जयकृष्ण यादव एवं स्टेंशिला हेम्ब्रम, पोड़ैयाहाट में मो हसीब व शंकर चंद्र सेन, पथरागामा में दिलीप यादव व मीणु बेसरा आदि ने भी शिविर आयोजित कर विविध जानकारी दी।

ढोरी जीएम कार्यालय में राष्ट्रीय भाषा कार्यशाला का आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो। महाप्रबंधक कार्यालय ढोरी क्षेत्र के सभागार में बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय भाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया इसके मुख्य अतिथि रंजय सिन्हा, महाप्रबंधक ढोरी क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कायार्लीन कार्य हिंदी में करने चाहिए और हिंदी में प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने सीसीएल मुख्यालय राजभाषा विभाग से आए दिविक दिवेश, उप प्रबंधक कार्मिक (राजभाषा) का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। मुख्यालय द्वारा राजभाषा एवं राजभाषा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में लगभग 50 अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन अमला अधिकारी कार्मिक व कुमारी माला द्वारा किया गया।

डॉ उषा सिंह की आवास में खिचड़ी भोग का कार्यक्रम

बेरमो। फुसरो नगर परिषद क्षेत्र शास्त्री नगर के चिकित्सक एवं कांग्रेस नेत्री डॉ उषा सिंह ने अपने आवास में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी का कार्यक्रम रखा गया। बेरमो विधायक के निजि सचिव सुनील सिंह, ललन रवानी, मंचू सिंह, पुनीत महतो आदि मौजूद थे।

डीपीएस चास के विद्यार्थी इंटरनेशनल अंग्रेजी ओलंपियाड के स्टेट टॉपर्स

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। डीपीएस चास के सत्रह विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी ओलंपियाड में असाधारण प्रदर्शन कर अपने परिवार व विद्यालय को गौरवान्वित किया। घोषित परीक्षा परिणाम में स्टेट टॉपर रैंक में पहली कक्षा के आर्यन अग्रवाल अनंत आशीष आर्यन कुमार महतो देवांशी कुमारी मो समी जावेद निशा कुमारी परिधि कुमारी रतन सिंह शिवांश कलबलिया शिवांशी दत्ता आहान रवानी अरफा परवीन शिक्षा विश्वकर्मा आर्यन लायक तथा दिशा जगनानी ने स्टेट रैंक 3 हासिल किया। कक्षा-चौथी के रेयांश झा रैंक 2 और कक्षा सातवीं के दक्षेष गोस्वामी ने स्टेट रैंक 1 हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। विदित हो कि एसओएफ द्वारा स्कूल स्तर पर भविष्य के वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों और आईटी प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। विद्यालय की चीफ मेंटर डॉ हेमलता एस मोहन ने विद्यार्थियों को बधाई दी और भविष्य के लिए सफलता की कामना करते हुए कहा कि बच्चों की सफलता यह दशार्ती है कि वे कड़ी मेहनत करने और एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए तैयार हैं। विद्यालय की निदेशिका डॉ मनीषा तिवारी ने कहा कि आईआईओ में इतना उल्लेखनीय परिणाम पाना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

मकर संक्रांति पर आयोजित मेलों का मंत्री योगेंद्र ने किया उदघाटन

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो/ललपनिया। बुधवार को माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र प्रसाद महतो ने गोमिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पचमो एवं रहावन में आयोजित मकर संक्रांति मेला और तिलैया में आयोजित झारखंडी बाबा मेला में शामिल हुए।

इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा मंत्री का पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत किया गया। मंत्री जी ने सभी लोगों को पर्व की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति और सभ्यता पर हम सभी को गर्व है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी। और कहा इस तरह के आयोजन हमसभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने मन मोहक प्रस्तुति दी।सभी जगहों पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहें। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो को जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों लोग उपस्थित थे।

बोकारो : श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल में पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल बोकारो में विभिन्न बैचों के छात्र एक साथ अल्युमिनी कार्यक्रम में अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा किये। कार्यक्रम में नजीर अहमद ने गर्मजोशी से स्वागत भाषण दिया। प्रधानाचार्य पी शैलजा जयकुमार ने कहा कि हमें अपने प्रिय पूर्व छात्रों का फिर से स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह कार्यक्रम स्कूल की यात्रा का उत्सव है जो स्कूल द्वारा प्रदान किए गए मूल्यों और शिक्षा का एक प्रमाण है। कई पूर्व छात्रों-उज्ज्वल पाठक प्रिंस कुमार समीर अंसारी ने अपने अनुभव साझा किए मधुर यादें ताजा कीं और स्वर्गीय के वेणुगोपाल पूर्व निदेशक महोदय अयप्पा सेवा संगम के अनुभवी सदस्य स्कूल प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य मंदिर के कर्मचारी और उनके जीवन को आकार देने में उनकी भूमिकाएं के प्रति आभार व्यक्त किया। विजया भसन ने कार्यक्रम का संचालन किया जबकि प्रिया पांडे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

टोनी सिंह हत्याकांड में मोनी मोहंती गिरफ्तार

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो डिमना चौक पर हुए टोनी सिंह हत्याकांड के अप्राथमिक अभियुक्त मोनी मोहंती उर्फ चित्तरंजन मोहंती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोनी मोहंती रिफ्यूजी कालोनी, साकची का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मोनी महंती के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में करीब 10 मामले दर्ज हैं। बता दें कि दिनांक 15.11.2024 की रात करीब 11:45 बजे ओलीवी ओपी अंतर्गत मानगो डिमना चौक के समीप, उमा टिफिन के पास किसी बात को लेकर उत्तम मंडल, नितेश पोद्दार और उनके साथियों के साथ टोनी सिंह और उसके दोस्त बिष्णु टुडु का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार ने हथियार के साथ अविनाश सिंह को आने बोला, अविनाश अपने दोस्त मोनी मोहंती के साथ हथियार लेकर उमा टिफिन के पास आया। मंडल और पोद्दार के कहने पर अविनाश सिंह और मोनी महंती ने टोनी सिंह और बिष्णु टुडु को गोली मार दी। टोनी सिंह को घायलावस्था में टीएमएच ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सबिता सिंह द्वारा अविनाश सिंह, उत्तम गजल, नितेश पोद्दार को नामजद एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी करवाई थी। उक्त घटना के संदर्भ में मानगो ओलीजीह थाना कांड सं0-311/2024 दर्ज किया गया है। कांड का उदभेदन एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षण पुर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर, महोदय के निर्देशन में पुलिस उपाधीवक्षक पटमदा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०-01) के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी चल द्वारा मानवीय एवं तकनीकी सहायता के आधार पर कांड के अप्राथमिकी अभियुक भोगी मोहंती को ओलीडीह थाना अंतर्गत ठल्ठ 33 बसुन्धरा स्टेट वाले रास्ते के समीप शिव मंतिर परिसर से गिरफ्तार किया गया। मोनी महंती ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उसने बताया कि अपराध करने के पश्चात अविनाश सिंह ने उसे हथियार देते हुए कहा कि उसे छुपा कर रखे और अविनाश को जमानत मिलने तक फरारी में रहे। तीन अभियुक अविनाश सिंह, उत्तम मंडल, नितेश पोद्दार पूर्व में न्यायलय में आत्मसमर्पण किये है जिन्हें रिमांडपर लाया गया है।

जिला अभियंता का कार्यालय

जिला परिषद, रामगढ़

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा सं० :- *ZP/RAMGARH/14/2024-25*

कार्य की विस्तृत विवरणी :-

क्र० सं०	प्रखण्ड	पंचायत /ग्राम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	माण्डू	पुण्डी	पुण्डी पंचायत में पुण्डी-माण्डु रोड से के. के. बसौदी होते हुए टोला डगडगिया तक किलोमीटर 1.5 KM पक्की पथ निर्माण। PHASE- II	9496000	190000	10000	06 (छः) माह
2	माण्डू	पुण्डी	पुण्डी पंचायत में पुण्डी-माण्डु रोड से के. के. बसौदी होते हुए टोला डगडगिया तक किलोमीटर 1.5 KM पक्की पथ निर्माण। PHASE- III	8835900	177000	10000	06 (छः) माह
3	चितरपुर	मायल	प्रखण्ड चितरपुर, पंचायत मायल श्मशान घाट में चाहरदीवारी एवं शेड निर्माण।	8538700	171000	10000	06 (छः) माह
4	पतरातु	बारीडीह	बारीडीह पंचायत के ग्राम जोबो करमाटोला अर्जुन गझु के घर से बजरंग बली मंदिर तक पथ निर्माण। PHASE- II	9496000	190000	10000	06 (छः) माह
5	पतरातु	बारीडीह	बारीडीह पंचायत के ग्राम जोबो करमाटोला अर्जुन गझु के घर से बजरंग बली मंदिर तक पथ निर्माण। PHASE- III	9496000	190000	10000	06 (छः) माह
6	पतरातु	बारीडीह	बारीडीह पंचायत के ग्राम जोबो करमाटोला अर्जुन गझु के घर से बजरंग बली मंदिर तक पथ निर्माण। PHASE- IV	8644200	173000	10000	06 (छः) माह
7	माण्डू	मंझला चुम्बा	पंचायत मंझला चुम्बा, ग्राम-छोटका चुम्बा में मुकेश साव के घर से हीरक रोड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण। PHASE - II	7706900	155000	10000	06 (छः) माह
8	माण्डू	बड़गाँव	ग्राम बड़गाँव के दुब देव से मदन ठाकुर के खेत तक गार्डवाल एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण। PHASE - II	9266200	186000	10000	06 (छः) माह
9	माण्डू	बड़गाँव	ग्राम बड़गाँव के दुब देव से मदन ठाकुर के खेत तक गार्डवाल एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण। PHASE - III	7211800	145000	10000	06 (छः) माह
10	चितरपुर	मारंगमरचा	ग्राम पंचायत मारंगमरचा में नरेश महतो के जमीन से लेकर श्मशान घाट तक पी०सी०सी० पथ निर्माण। PHASE- II	7274000	146000	10000	06 (छः) माह
11	पतरातु	बलकुदरा	बलकुदरा प्राचीन शिव मंदिर के पास बड़ा पुल का निर्माण करवाना।	9068200	182000	10000	06 (छः) माह
12	पतरातु	बारीडीह	पंचायत बारीडीह ग्राम-जोबो से लोवाडीह करमा टोला राजेश बेदिया के घर तक पी. सी.सी. पथ निर्माण। PHASE - II	9826200	197000	10000	06 (छः) माह
13	पतरातु	बारीडीह	पंचायत बारीडीह ग्राम-जोबो से लोवाडीह करमा टोला राजेश बेदिया के घर तक पी. सी.सी. पथ निर्माण। PHASE - III	9826200	197000	10000	06 (छः) माह
14	रामगढ़	वार्ड नं0 21	रामगढ़ वार्ड नं0-21 सिरका दामोदर पुल से बेगामोड़ तक पी.सी.सी पथ निर्माण। PHASE - II	9711000	195000	10000	06 (छः) माह
15	रामगढ़	वार्ड नं0 21	रामगढ़ वार्ड नं0-21 सिरका दामोदर पुल से बेगामोड़ तक पी.सी.सी पथ निर्माण। PHASE - III	9885100	198000	10000	06 (छः) माह
16	रामगढ़	वार्ड नं0 21	रामगढ़ वार्ड नं0-21 सिरका दामोदर पुल से बेगामोड़ तक पी.सी.सी पथ निर्माण। PHASE - IV	9719400	195000	10000	06 (छः) माह
17	रामगढ़	अपर पोचरा	रामगढ़, अपर पोचरा राजू साव के घर से सरना पार विक्रम यादव के घर तक पी. सी.सी पथ निर्माण। PHASE - II	9702700	195000	10000	06 (छः) माह
18	रामगढ़	WARD NO-10	बजरंग बली मंदिर NH-33 से पंचायत भवन मरार होते हुए देवी मंडप से रेलवे फाटक एवं करमाली टोला, गोसाई टोला होते हुए मिसरा टोला तक पी०सी०सी० पथ निर्माण। PHASE - II	9702700	195000	10000	06 (छः) माह
19	रामगढ़	कुन्दरू कलां	रामगढ़, पंचायत- कुन्दरूकलां, के नवाडीह हनुमान मंदिर से लेकर दामोदर नदी सरैया तक पी.सी.सी पथ निर्माण। PHASE - II	5158500	104000	10000	06 (छः) माह
20	दुलमी	प्रियातु	पी.डब्लू. डी. पथ भालू से घोटमदगा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। PHASE - II	6467200	130000	10000	06 (छः) माह
21	दुलमी	जरियो	ग्राम जरियो में जरियों सरकारी तालाब से इमाली टोला होते हुए रजरप्पा नाला तक मॉडल नाली निर्माण तक।	8307100	167000	10000	06 (छः) माह
22	दुलमी	जरियो	ग्राम जरियो में जरियों सरकारी तालाब से लेकर रजरप्पा नाला तक गार्डवाल निर्माण।	6337900	127000	10000	06 (छः) माह
23	गोला	चोकाद	ग्राम चोपाहारू के NH-23 से महतो टोला के पानी टंकी के सामने तक PCC एवं नाली निर्माण।	6243500	125000	10000	06 (छः) माह
24	गोला	सरगडीह	प्रखण्ड गोला, पंचायत सरगडीह के ग्राम- उलादाका के परनु महतो के घर से ग्राम- सरगडीह के शंकर महतो के घर तक पी. सी. सी पथ एवं सरना स्थल के सामने पुलिया निर्माण। Phase-1	9989600	200000	10000	06 (छः) माह
25	गोला	सरगडीह	प्रखण्ड गोला, पंचायत सरगडीह, ग्राम सरगडीह के श्मशान पथ पर मथुर महतो के जमीन पर गार्डवाल एवं पुलिया निर्माण।	8748780	175000	10000	06 (छः) माह

1. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि- दिनांक 21.01.2025
2. ई-निविदा डालने/प्राप्ति की तिथि एवं समय- दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 27.01.2025 अपराह्न 3:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय- दिनांक - 28.01.2025 को अपराह्न 3:00 बजे।
4. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता- जिला अभियंता, जिला परिशद, रामगढ़।
5. ई-निविदा प्रकोष्ट का दुरभाष नं0- 9801557645
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल *Online mode* द्वारा स्वीकार्य होगी।
7. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई- भुगतान संवेदक द्वारा जिस बैंक खाता से किया जायेगा, उसी खाते मे अग्रधन की राशि वापस होगी। अगर बैंक खाता को बंद कर दिया जाता है। तो उसकी सारी जवाबदेही संवेदक की होगी।
8. निविदा Double Bid पद्धति से होगा।
9. इस निविदा में जिला परिशद, रामगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत समुचित श्रेणी के संवेदक भाग ले सकेंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट *Jharkhandtenders.gov.in* एवं कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।

PR 344294 District(24-25)D

भीषण आग से नुकसान

अमेरिका में जंगल की आग ने भड़कने के बाद कई शहरी इलाकों को चपेट में ले लिया। खरबों रुपये की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के अलावा करीब दो लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आलीशान बंगलों व सरकारी संरचना तथा नागरिक सुविधा के साधनों के स्वाह होने के साथ करीब बारह लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब दो लाख लोगों को घर-बार छोड़कर जाने के लिये तैयार रहने को कहा गया है। दमकल विभाग व सुरक्षा बलों की तमाम कोशिशों के बावजूद आग बेकाबू है। लोग असहाय होकर अपनी जीवन भर की पूंजी को स्वाह होते देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तल्ख होते मौसम से हालात और खराब होने की आशंका जतायी जा रही है। आग के बाद का जो मंजर नजर आ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बम गिराया गया हो। विडंबना यह है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले कुछ लोग खाली कराये गए घरों में लूटपाट से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स इलाके में करीब साढ़े पांच हजार से अधिक इमारतों के नष्ट होने की खबर है। कई नामी फिल्मी हस्तियों के घर, व्यावसायिक इमारतें व सार्वजनिक संस्थान आग की भेंट चढ़े हैं। अमेरिका के इतिहास में यह जंगल की आग सबसे भयावह साबित हुई है। चिंता की बात यह है कि इलाके में हाल-फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे जंगल की आग जल्दी काबू में आ सकती। एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप होने व पानी की आपूर्ति में बाधा संकट को और बढ़ा रही है। लोगों की सुरक्षित स्थानों में जाने के लिये अफरा-तफरी से जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। पानी का दबाव कम होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी आ रही है। हकीकत है कि जंगलों में 95 फीसदी आग इंसानों द्वारा ही लगायी जाती है।

कार्टून वर्ल्ड

आज का राशिफल

मेष : मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बनेगी। सफलता मिलेगी। शुभांक-5-7-9

वृष : यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। मेहमानों का आगमन होगा। शुभांक-1-3-5

मिथुन : मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। धीरे-धीरे लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा उचित समय का इन्तजार करें। शुभांक-3-5-6

कर्क : आय के अच्छे योग बनेंगे। संतान की उन्नति के योग हैं। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से मिलन होगा। स्वविवेक से कार्य करें। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अर्थपक्ष मजबूत रहेगा। कार्य सफल होंगे। दैनिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। शुभांक-2-5-7

सिंह : आगे-आगे गौरख जागे वाली कहावत चरितार्थ होगी। मेहमानों का आगमन होगा। परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। सही समय का इंतजार करें। शुभांक-2-4-6

कन्या : जीवन साथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। शुभ कार्यों में व्यय होगा। शुभांक-1-3-5

तुला : लाभ में आशातीत वृद्धि तय है, मगर नकारात्मक रुख न अपनाएं। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। विशिष्ट जनों से मेल-मुलाकात होगी। शुभांक-4-6-8

वृश्चिक : जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अर्थपक्ष मजबूत रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। शुभ समाचार मिलेंगे। शुभांक-3-5-6

धनु : प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी। आत्मीय श्रेष्ठता बनेगी। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आत्मचिन्तन करें। शुभांक-4-6-8

मकर : कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। होश में रहकर कार्य करें। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। समय पर देनदार भी पैसे लौटाने में आनाकानी करेंगे। मनोरथ सिद्धि का योग है। शुभांक-4-6-8

कुंभ : राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। श्रम साध्य कार्यों में सफल होंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। शुभांक-2-4-5

मीन : व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। आय-व्यय समान रहेगा। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। अभी सिर्फ आश्वासनों से संतोष करना पड़ेगा। शुभांक-1-3-5

क्या आप दिल्ली का किला बचा पायेगी?

दिल्ली की सत्ता पर पिछले दस साल से काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस राजनैतिक जमा पूंजी के साथ इस राजनैतिक दल का गठन किया गया था, बीते एक दशक में ही उसके नेताओं ने इसे पूरी तरह गंवा दिया है। पार्टी की स्थापना के समय जो उच्च नैतिक मानदंड और आदर्श स्थापित किया गए थे वे दूर-दूर तक पार्टी नेताओं के व्यवहार में नजर नहीं आ रहे हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान अण्णा हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। उस समय टू जी स्पेक्ट्रम, कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और कोयला घोटाले जैसे लाखों करोड़ रुपये के घपलों के समाचार लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुए घोटालों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट और न्यायालय के आदेशों से लोगों को लगने लगा था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग या तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण प्राप्त है। लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दंभ चरम पर था। भ्रष्टाचार से जुड़े हर सवाल के जवाब में वे एक ही बात कहते नजर आते थे कि 2009 के आम चुनाव में दूसरी बार सत्ता सौंप कर देश की जनता ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में समाजसेवी अण्णा हजारे के नेतृत्व में इण्डिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन की सिर्फ एक मांग थी कि देश में जनलोकपाल बनाया जाए। असीम शक्तियों से सम्पन्न यह जनलोकपाल देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। इसी समय योग गुरू बाबा रामदेव ने भी विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। जिसे सरकार ने निर्ममता पूर्वक कुचल दिया।

देश की जनता राजनेताओं, बड़े कॉरपोरेट घरानों और नौकरशाही की दुरूभि संधि से दिनों-दिन बढ़ते भ्रष्टाचार को अपने दैनिक जीवन में महसूस कर रही थी। जनलोकपाल का जो खाका अण्णा हजारे के आंदोलन के समय पेश किया गया उसे देख कर लोगों ने महसूस किया कि इससे भ्रष्टाचार की समस्या पर काफी हद तक काबू किया जा सकेगा। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने जनलोकपाल बनाने की मांग का

उपहास करते हुए आंदोलन से जुड़े नेताओं को खुद राजनीति में आकर इस तरह का कानून बनाने की चुनौती दी। अण्णा आंदोलन को देशभर में मिले व्यापक जनसमर्थन और तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस के विरुद्ध

- विकास सक्सेना

> वैकल्पिक राजनीति के नए विचार के साथ अरविन्द केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी आदि ने एक नया राजनैतिक दल बनाने की योजना तैयार की और इसे नाम दिया गया– आम आदमी पार्टी। इस राजनैतिक दल की औपचारिक घोषणा के लिए दिन चुना गया 26 नवम्बर 2012 का ताकि देश की जनता को भारत के संविधान के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का सीधा संदेश दिया जा सके।

तैयार हो रहे जनमत से उत्साहित आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं ने राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए लिए स्वयं इस दलदल में उतरने की योजना बनाई। हालांकि अण्णा हजारे इस आंदोलन से जुड़े लोगों के राजनीति में उतरने के विचार से सहमत नहीं थे।

वैकल्पिक राजनीति के नए विचार के साथ अरविन्द केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी आदि ने एक नया राजनैतिक दल बनाने की योजना तैयार की और इसे नाम दिया गया- आम आदमी पार्टी। इस राजनैतिक दल की औपचारिक घोषणा के लिए दिन चुना गया 26 नवम्बर 2012 का ताकि देश की जनता को भारत के संविधान के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का सीधा संदेश दिया जा सके। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को ही देश के संविधान को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी समय पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए अरविन्द केजरीवाल ने कहा था ह्यहम आम आदमी हैं। अगर वामपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से विचार उधार ले लेंगे और अगर दक्षिणपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से भी विचार उधार लेने में खुश हैं ह्व आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा गया कि अब तक देश की सत्ता पर काबिज रहे राजनैतिक दलों में तमाम प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं। नया दल इन दुगुर्णो से मुक्त रहकर नए प्रकार से राजनीति करते हुए देश को वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देगा। उस समय ऐलान किया गया कि इस दल में ह्यहाई कमान कल्चरह्व नहीं होगा, सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। पार्टी नेताओं को भ्रष्ट आचरण से दूर रखने के लिए पार्टी का अपना लोकपाल होगा जो सभी नेताओं की निगरानी करेगा।

बड़े-बड़े आदर्शों के साथ शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों के भीतर खुद को पारंपरिक राजनीति के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में पहली बार जनता की अदालत में पहुंची आम आदमी पार्टी के 28 उम्मीदवारों को लोगों ने विधानसभा पहुंचा दिया। सत्ता की चाह में बच्चों की कसम और सभी आदर्शों को भुलाकर अरविन्द केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। इसके बाद एक-एक करके उन सारे आदर्शों को तिलांजलि दे दी गई जिनकी बात 26 नवम्बर 2012 को की गई थी। पार्टी के अधिकांश संस्थापक सदस्यों प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास आदि ही नहीं बल्कि पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को सादगी पूर्ण जीवन की बात कहते हुए छोटे मकान, छोटी कार और सीमित सुरक्षा की नसीहत देते थे लेकिन सत्ता में आते ही आआपा नेता उन सभी सुख-सुविधाओं को भोगते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर वे राजनेताओं की तीखी आलोचना किया करते थे। खासतौर पर अरविन्द केजरीवाल पर कोरोना काल में अपने सरकारी आवास की मरम्मत पर 33 करोड़ रुपये खर्च करने के आरोप लगे। लाखों रुपये के पर्दे, टॉयलेट और टायल्स आदि को लेकर चर्चा में आया उनका आवास शीशमहल के तौर पर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के तमाम नेता और मंत्री महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल की हवा खा चुके हैं। जहां तक हाईकमान संस्कृति की बात है तो ऐसा लगता है कि अरविन्द केजरीवाल अब पार्टी के स्थायी राष्ट्रीय संयोजक हो चुके हैं। उनके शब्द पार्टी कार्यकताओं के लिए अंतिम आदेश है और मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार भी वही होंगे। अगर मजबूरी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर भी बैठेगा तो उसे भरत भाव में रहना होगा।

भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलन के गर्भ से जन्मी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी उसके नेताओं की भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिबद्धता और सादगी पूर्ण जीवन थी। लेकिन इन दोनों मामलों में आआपा नेताओं खासा निराश किया। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद दिल्ली में

लेटर टू एडिटर

इस जीत के मायने

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का चुनाव एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े समर्थक और प्रमुख सहयोगी जॉर्ज सोरोस के लिए करारा झटका साबित हुआ है। सोरोस, जो भारत सहित दुनिया भर के प्रभुत्व सम्पन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते रहे हैं, अब उनके प्रयासों को एक धक्का लगा है। नागरिकों और मतदाताओं ने भी इन षड्यंत्रों को समझा।

– के. ठाकुर, हजारीबाग

कारगर नीति

सुप्रीम कोर्ट ने अनियंत्रित प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए पराली जलाने पर जुमार्ना राशि 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। राज्य सरकारों की सख्ती के बावजूद समस्या बनी हुई है। इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को कारगर नीति बनानी चाहिए, ताकि पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े।

– रविशंकर सिंह, रांची

ट्वीट

प्रयागः सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ।
श्रवणात तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि ।।
मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात प्रमुच्यते ।। (महाभारत)

अर्थात, प्रयाग सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है। मूलतः प्रयाग शब्द ह्यप्रह्व उपसर्गपूर्वक ह्ययज्ह्व धातु से बना है। इसका अर्थ है - 'यज्ञ करना। तीर्थराज प्रयाग यूं तो सर्वथा वंदनीय है, किन्तु कुम्भ काल में प्रयाग में गंगा स्नान और यहाँ की मिट्टी का शरीर पर लेप करने से मनुष्य पापमुक्त होता है। वैदिक और पौराणिक आख्यानों में इस क्षेत्र का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है कि महाप्रलय के समय सम्पूर्ण जगत के डूब जाने पर भी तीर्थराज प्रयाग नहीं डूबेगा।

– स्वामी अवधेशानंद गिरी

5 दिन का सप्ताह और 35 घंटे काम करने की बात देश के लिए ज्यादा बेहतर

बिश्वजीत देब

सीआईटीयू ने एलएंडटी चेयरमैन के सप्ताह में 90 घंटे काम करने संबंधी बयान की निंदा की है। सीआईटीयू ने 5 दिन का सप्ताह और 35 घंटे काम करने की अपनी मांग दोहराई है।

ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) ने लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के चेयरमैन के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने प्रति सप्ताह काम के घंटे बढ़ाकर 90 घंटे करने का आग्रह किया है। इसी तरह का बयान पहले इंफोसिस के प्रमुख एन.आर. नारायण मूर्ति ने दिया था, जिसमें उन्होंने वैधानिक उपाय के जरिए प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करने का आग्रह किया था। ऐसा लगता है कि, मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासनकाल में कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक नापाक गठजोड़ के कारण, ड्ढारतीय श्रमिकों के खून-पसीने की लूट करने की होड़ मची हुई हैं।

ड्ढारतीय श्रमिक, यहाँ तक कि औपचारिक क्षेत्र में स्थायी श्रमिक ल्ी, चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे अधिक उत्पादक देशों की तुलना में अधिक घंटों तक काम करते हैं। काम के घंटों में वृद्धि ल्'ारतीय श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाल रही है, इसके बावजूद, कॉर्पोरेट वर्ग द्वारा इस तरह की जघन्य कवायद रोजगार और श्रम लागत को कम करने के लिए की जा रही है। साथ ही दक्षता और उत्पादकता की आड़ में अमानवीय कार्य स्थिति थोपी जा रही है, असीमित मुनाफे की भूख के कारण श्रमिकों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण 2022 में 11486 आत्महत्याएं हुई हैं।

श्रम के अमानवीय दोहन की गंभीरता को इस बात से देखा जा सकता है कि मजदूरी का हिस्सा 1990-91 के 27.64% से तेजी से घटकर 2022-23 में 15.94% हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान शुद्ध लाभ का हिस्सा

सामयिक

> श्रम के अमानवीय दोहन की गंभीरता को इस बात से देखा जा सकता है कि मजदूरी का हिस्सा 1990-91 के 27.64 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2022-23 में 15.94 प्रतिशत हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान शुद्ध लाभ का हिस्सा 19.06 प्रतिशत से बढ़कर 51.92 प्रतिशत हो गया है, साथ ही नौकरियों में छंटनी भी बढ़ती जा रही है। सीआईटीयू मजदूर वर्ग के सभी तबकों से आह्वान करती है कि वे पूंजीपति वर्ग की ऐसी घिनौना प्रतिस्पर्धी पहलों के खिलाफ आक्रोश के साथ उठ खड़े हों तथा आने वाले दिनों में उनके बुनियादी अधिकारों और सामाजिक जीवन पर हमले के षडयंत्रकारी शैतानी कदम के खिलाफ कार्यस्थल से लेकर सड़क तक एकजुट देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें।

19.06% से बढ़कर 51.92% हो गया है, साथ ही नौकरियों में छंटनी भी बढ़ती जा रही है।

काम के घंटे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अग्रणी कॉर्पोरेट घरानों द्वारा की जा रही ऐसी गंदी प्रतिस्पर्धी पहल केंद्र में बैठी उनकी आज्ञाकारी सरकार के साथ षडयंत्रकारी मिलीभगत का नतीजा है। नए श्रम संहिता में उपयुक्त सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से में काम के घंटों का इस तरह की वृद्धि का प्रावधान है, हालांकि ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रतिरोध के कारण अभी तक केंद्र सरकार द्वारा श्रम संहिताओं को अधिसूचित नहीं किया जा सका है, फिर भी हमने कुछ राज्य सरकारों द्वारा काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने के कई प्रयास देखे हैं, जिनका संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा विरोध भी किया जा रहा है।

सीआईटीयू मजदूर वर्ग के सभी तबकों से आह्वान करती है कि वे पूंजीपति वर्ग की ऐसी घिनौना प्रतिस्पर्धी पहलों के खिलाफ आक्रोश के साथ उठ खड़े हों तथा आने वाले दिनों में उनके बुनियादी अधिकारों और सामाजिक जीवन पर हमले के षडयंत्रकारी शैतानी कदम के खिलाफ कार्यस्थल से लेकर सड़क तक एकजुट देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। सीआईटीयू का मानना है कि नियोक्ता वर्ग द्वारा किए जा रहे इन गंदे हमलों का जवाब वर्ल्ड ट्रेड यूनियन फेडरेशन (डब्ल्यूएफटीयू) की मांग के अनुसार प्रतिदिन 7 घंटे काम और प्रति सप्ताह पांच दिन काम की मांग को उठाकर दिया जाना चाहिए।19 जनवरी को, जिस दिन सीआईटीयू और एआईकेएस द्वारा हर साल किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त विरोध कार्यक्रमों के दौरान पूरे झारखंड राज्य में इंफोसिस और एलएंडटी प्रमुखों का पुतला जलाया जाएगा।

धर्म के मांगलिक स्वरूप को संवर्धित करता है कुंभ

अरुण कुमार दीक्षित

प्रयाग प्रागैतिहासिक तीर्थ है। प्रयाग अपने आध्यात्मिक प्रभाव के लिए प्रख्यात है। प्रयाग का भारतीय सभ्यता संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषियों-मुनियों ने प्रयाग और कुंभ का श्रद्धापूर्वक वर्णन किया है। सनातन धर्म के श्रद्धालु विश्वास रखते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की यात्रा, दर्शन संगम स्नान से व्यक्ति सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। कुंभ महाकुंभ पूरे संसार के लिए दुर्लभ घटना है। करोड़ों करोड़ लोग एक साथ कुम्भ में संगम स्नान कर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाते हैं। प्रयागराज की महिमा के विशिष्ट होने के ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, भौगोलिक आदि कई कारण हैं। गंगा-यमुना-सरस्वती संगम स्थल ही प्रयाग है। इसी कारण ब्रम्हादि देवताओं ने दिशा, दिकपाल लोकपाल, पितृगण, सनत कुमार आदि महर्षि गण,नदी, समुद्र, गंधर्व ,अप्सरा भगवान विष्णु और प्रजापति ने अपना निवास बनाया है। प्राकृतिक सुंदरता भी संगम में अद्वितीय है। अनेक पक्षियों का कलरव आनंदित करता है।

प्रयाग की महिमा नारद पुराण में विशेष रूप से वर्णित है। प्रयाग का त्रिवेणी संगम कार्मिक तीर्थ है। अर्थात त्रिवेणी संगम में स्नान करने से राज्य, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। त्रिवेणी संगम में गंगा की धारा धवल और यमुना की धारा हरित है। अन्तः सलिला सरस्वती की धारा लुप्त है। नारद पुराण में लिखा है, कि मकर राशि पर सूर्य के संचार के समय समस्त तीर्थ समस्त देवता प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर पहुंच जाते हैं। प्रयाग का महत्व तब और बढ़ जाता है जब प्रत्येक बारह वर्ष बाद कुंभ योग होता है। वहीं छः वर्ष में अर्द्ध कुंभ योग आता है, इसी तरह प्रयाग के अतिरिक्त कुंभ राशि में जब बृहस्पति आ जाते हैं और मेष राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होता है गुरु जब मेष राशि में आ जाते हैं तो प्रयाग में तीर्थराज कुंभ योग होता है। वाल्मीकि रामायण में प्रयाग का वर्णन है। महाभारत में प्रयाग की महिमा का यशोगान है। तीनों लोकों में प्रयाग सभी तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुण्य स्थान है।

प्रयाग में महात्मा बुद्ध के द्वारा धर्म प्रचार का भी उल्लेख साहित्य में मिलता है। प्रयाग के निकट कौशांबी को सम्राट अशोक ने अपनी उप राजधानी बनाया था। वैदिक, बौद्धधर्म के साथ प्रयाग क्षेत्र में जैन धर्म के

कुंभ 2025

उत्कर्ष और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा प्रयाग के वटव्रक्ष के नीचे ध्यान लगाने का उल्लेख मध्यकालीन तीर्थमालाओं में है। प्रयाग, कौशाम्बी को अति प्राचीन नगर होने के साथ बौद्धों एवं जैन धर्मों प्रचारकों, विचारकों महापुरुषों की स्थली का गौरव भी है।

चीनी यात्री ह्वेनसांग ईस्वी सन 644 के लगभग सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग भी आया था। उसने लिखा यहां अन्न बहुत पैदा होता है। फलों के वृक्ष भी खूब पैदा होते हैं। यहां की जलवायु उष्ण है। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। यहां के लोग नम्र और सुशील हैं। यहां के लोगों को पठन-पाठन और विद्या से विशेष प्रेम है परंतु निर्मूल और असत्य सिद्धांत पर उनका अधिक विश्वास है। नगर में केवल दो संघाराम है। थोड़े से हीनयान संप्रदाय के अनुयाई हैं। दूसरी ओर पौराणिक देवताओं के मंदिर अधिक हैं। उनके अनुयायियों की संख्या बहुत है। नगर के दक्षिण और पश्चिम में एक चंपक वाटिका में बड़ा स्तूप है। स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसकी दीवारें भूमि से अधिक ऊंची हैं। इसके बगल में एक और स्तूप है जिसमें बुद्ध के केश और नख समाधिस्थ हैं।

पुराणों में प्रयाग को सभी तीर्थों का अधिपति कहा गया है। कूर्म पुराण में प्रयाग को सर्वोतम तीर्थ कहा गया है। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारागणों में चंद्रमा प्रमुख है उसी प्रकार समस्त तीर्थों में प्रयाग सर्वोतम है। पदम्‍ पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सहित प्राचीन ग्रन्थों में प्रयाग संस्कृति का उल्लेख और कथाएं हैं। कुंभ भगवान विष्णु का प्रतीक है। कुंभ ज्ञान बुद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ को एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। प्रयाग में संगम तट पर मेले का आयोजन होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे विश्व से आते हैं।

मेघदूत में कालिदास ने एक यक्ष की कहानी बताई है। वह यक्ष अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है। मेघदूत (बादल दूत) के माध्यम से उसे संदेश भेजता है। इस संदर्भ में कालिदास ने मेघदूत में प्रयाग का उल्लेख कुछ इन शब्दों में किया है। त्रिवेणी संगमे यत्र गंगा यमुना सरस्वतीः अर्थात जहां गंगा यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं कालिदास के मेघदूत में कुंभ का सीधा वर्णन नहीं है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

स्पीड न्यूज

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ब्रिगेडियर ने रवाना किया मिलन दल

रामगढ़। सेना दिवस के उपलक्ष्य पर जेएंडबी सब एरिया की देखरेख में पंजाब रेजिमेंटल सेन्टर रामगढ़ कैंट द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों के कल्याण व उनके आश्रितों के लिए हार्दिक मिलन दल 3.0 के रूप मे नामित टीम जम्मू और कठुआ जिलों में तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा, नूरपुर और बिलासपुर जिलों में एवं पंजाब के पठानकोट, तरंतारण, फिरोजपुर, मुक्तसार साहिब और भटिंडा जिलों के भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचेगी। इस दल को ब्रिगेडियर संजय चंद्र काण्डपाल, कमांडेंट, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर द्वारा 15 जनवरी को 10:00 बजे फ्लेग आफ करके रवाना किया गया। इस मूहिम की शुरूआत वर्ष 2023 में की गयी थी। वर्ष 2025 में यह हार्दिक मिलन 3.0 का तीसरा सफल प्रयास है। इस दल द्वारा इन तीनों राज्यों के सभी भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों की शिकायतों एवं समस्याओं का निवारण किया जाएगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली सुविधाएं और पेंशन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा।

हरिकीर्त्तन में शामिल हुये विधायक

भुरकुंडा (रामगढ़)। मकर संक्रांति के अवसर पर भुरकुंडा बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर सह खोपड़िया बाबा धर्मशाला में मंगलवार की शाम बड़कागांव भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी पहुंचे। विधायक ने हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की हरियाली-खुशहाली और सुख-समृद्धि कामना की। साथ ही आयोजित हुए अखंड हरिकीर्तन में शामिल होकर हरे राम हरे कृष्ण का स्मरण किया। तत्पश्चात भंडारे का प्रसाद ग्रहण की। मौके पर विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजनो से क्षेत्र में भक्ति का संचार बढ़ता है। साथ ही श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रसाद का अर्थ प्रभु का साक्षात दर्शन करना होता है, इसलिए हर श्रद्धालु को प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश मोहन मिश्रा, योगेश दांगी, भुरकुंडा मुखिया अजय पासवान, किशोर महतो, गुलाब चंद्र मिश्रा, जयप्रकाश सिंह, कमेटी के विनय मिश्रा, बिट्टू गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, पंकज खरवार, वासु सिंह, राकेश चौधरी, अशोक सोनी, बाबूलाल नायक सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे।

दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में प्रसाद वितरित

रामगढ़। रांची रोड स्थित माता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में पूर्णिमा पर हुई पूजा-अर्चना। श्रद्धालुओं ने माता की विधिवत पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी एवं खीर का वितरण किया। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा बताया गया कि माता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। बताया कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मंदिर में कोई मनोकामना रखता है माता की कृपा से उसकी मुराद पूरी होती है। इसलिए काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर में माता का भजन लगातार चलता रहा। मौके पर अध्यक्ष अरूण महतो, संध्या शर्मा एवं कृति गौरव द्वारा जाने-माने गायक आनंद मोहन पांडे, उनके पुत्र एवं बहु को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

जेसीएमयू ने जीएम को किया सम्मानित

भुरकुंडा (रामगढ़)। जेसीएमयू के क्षेत्रीय संयुक्त सचिव एवं माली मालाकार उत्थान समिति रामगढ़ द्वारा बरका-सयाल जीएम अजय सिंह को उनके कार्यालय कक्ष में पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। जीएम अजय सिंह को सम्मानित करते हुए जेसीएमयू के क्षेत्रीय संयुक्त सचिव उदय मालाकार ने कहा इनके कुशल नेतृत्व में बरका-सयाल क्षेत्र लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि बरका-सयाल प्रक्षेत्र को और बुलंदियो पर ले जाने के लिए मजदूरों के साथ-साथ जेसीएमयू भी प्रबंधन का पूरा सहयोग करेगा। शुभकामनाएं देने वालो में उदय मालाकार, धनंजय कुमार भगत, नंदू भगत, बंटी कुमार पांडेय, विकास कुमार, रंजीत भगत आदि शामिल थे।

महुआटोला में बच्चे ने की आत्महत्या

भुरकुंडा (रामगढ़)। भदानीनगर ओपी क्षेत्र के महुआटोला में मंगलवार रात एक नाबालिग बच्चे ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना मिलने के बाद भदानीनगर ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार महुआटोला निवासी राजेश एक्का का पुत्र अनमोल एक्का 17 वर्ष हर दिन की भांति मंगलवार की रात्रि अपने कमरे में सोने गया। सुबह उसके पिता ने कमरा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पिता राजेश एक्का ने खिड़की से अंदर झांका तो देखा की उनका बेटा अनमोल पंखे पर फंदे के सहारे झूल रहा है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है।

पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

कुजू। पाहन टोला में बुधवार की सुबह पेड़ से लटकता हुआ एक 18 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। शव की पहचान पाहन टोला के सूरज मुंडा उर्फ बड़का पिता स्व हरिया के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर कुजू ओपी प्रभारी मो नौशाद पुलिस सदलबल के साथ शव को पेड़ से नीचे उतारा। परिजन समेत पड़ोस के लोगों से जानकारी ली। वहीं शव को अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया। परिजनों ने बताया कि रात्रि में सूरज खाना खाने के बाद सो गया। जब हम लोग सुबह उठे तो देखा कि उसका शव पेड़ से लटक रहा है।

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा: डीटीओ

सड़क सुरक्षा माह के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीटीओ कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) बैजनाथ कामती ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इनमें जागरूकता रथ, शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक, रैली और बाइक रैली शामिल हैं, जिनके माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डीटीओ ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल आयोजनों का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल शामिल होंगे। इसके अलावा, पतंग महोत्सव के जरिए भी संदेश फैलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लोगों को शपथ दिलाई जा रही है और हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है।

डीटीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यह नियम लागू कर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान में परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बाइक सवारों द्वारा हेलमेट पहनकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोगों तक सुरक्षा का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंच सके। यह अभियान पूरे महीने चलेगा, जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

पतंग महोत्सव आयोजित : जिला परिवहन कार्यालय सड़क सुरक्षा कोषांग की ओर से गांधी मैदान हजारीबाग मे दोपहर 12.00 बजे से पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। सडक सुरक्षा के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पतंग महोत्सव क आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव मे पतंग और डोरी की व्यवस्था जिला परिवहन कार्यालय की ओर से की गयी थी। इस कार्यक्रम मे 39 प्रतिभागियो ने हिस्सा लिया। जिसमे विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम मे जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक आदि शामिल हुए। ज्ञात हो की जिले मे सडक सुरक्षा माह 2025 मनाया जा रहा है जिसमे 1 जनवरी से हर दिन सडक सुरक्षा जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम की जा रही है। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा महोत्सव को काफी सफल बताया गया एवं कार्यक्रम में लोगो को यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई गयी।

सदर विधायक प्रदीप प्रसाद शिव मंदिर भूमि पूजन में हुये शामिल

आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा मंदिर : विधायक

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। सदर विधानसभा क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी में शिव मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन पूरे विधि-विधान और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने हिस्सा लिया। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरूआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई, जिसमें पुजारियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की। भूमि पूजन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने शिव की महिमा का गुणगान किया और मंदिर निर्माण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। विधायक ने कहा कि मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और क्षेत्र के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और शिव मंदिर के निर्माण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य और क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन क्षेत्रवासियों के सहयोग और उत्साह के कारण संभव हो पाया। विधायक ने आयोजन समिति को बधाई दी और इस पवित्र कार्य में सभी के योगदान की सराहना की।

बरही में अग्रवाल मेडिसिटी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों का इलाज हुआ शुरू

बरही। बरही में अब आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस अग्रवाल मेडिसिटी मल्टीस्पेशलिटीवीटी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। यह अस्पताल रांची के प्रसिद्ध सर्जनों और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ हर प्रकार की जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन द्वारा ऑपरेशन), सी-आर्म (हड्डी के ऑपरेशन), वेंटिलेटर (कोमा में गए मरीजों के लिए), वर्कस्टेशन (बेहोशी की मशीन), और किडनी स्टोन के इलाज की सुविधाएं प्रदान करता है। अस्पताल में स्वच्छ वातावरण वाले आईसीयू और ऑपरेशन रूम के साथ 24 घंटे डॉक्टर और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हड्डी, नस रोग, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द के इलाज के लिए रांची और हजारीबाग के विशेषज्ञ चिकित्सक भी यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रसूति, और परामर्श, गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं इलाज के लिए यहां सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अन्नपूर्णा देवी के चुड़ा-दही भोज में शामिल हुईं शेफाली गुप्ता

हजारीबाग। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवासीय कार्यालय में आयोजित पारंपरिक चुड़ा-दही कार्यक्रम ने सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द्र का अनूठा उदाहरण पेश किया। भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता के इस आयोजन में शामिल होने से कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने अतिथियों के प्रति आत्मीयता और गर्मजोशी भरा व्यवहार दिखाया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री की इस स्नेहपूर्ण मेजबानी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पार्टी कार्यकताओं और नेताओं के बीच आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही।

सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बगोदर विधायक नगेंद्र महतो जैसे अनुभवी नेताओं के साथ संगठात्मक विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श ने इस कार्यक्रम को और भी सार्थक बना दिया। चुड़ा-दही के इस पारंपरिक आयोजन ने न केवल आपसी मेलजोल को बढ़ावा दिया बल्कि पार्टी के भीतर एकजुटता और संवाद का भी संदेश दिया।

एनएमएल ने किया पुस्तकालय का उद्घाटन

बड़कागांव। एनएमएल पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ने बेल्तू के अपग्रेडेड हाई स्कूल में एक अत्याधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में जगृति महिला क्लब की अध्यक्षा ताज़िन फैज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। पुस्तकालय 150 से अधिक पुस्तकों का संग्रह प्रदान करता है, जो विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित हैं। यह पुस्तकालय पीबी और पीबीऐनडब्लू खनन क्षेत्रों के आसपास के लगभग 600 छात्रों के लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय को बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सियां और आलमारी से सजाया गया है, जिससे एक आरामदायक और उत्तेजक अध्ययन वातावरण तैयार किया गया है। प्रधानाचार्य ने कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस पहल से छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सिद्दीकी ने किया रक्तदान

बरही। मोबाइल वर्ल्ड दुकान के संचालक, युवा समाजसेवी और व्यवसायी मो. शहजाद सिद्दीकी, जो चूड़ीहार बिरादरी के जिला मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बिरादरी के अन्य सदस्यों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के सदर मोहम्मद शकील अहमद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। आयोजन के दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों की सहायता संभव हो सकेगी। मो. शहजाद सिद्दीकी ने कहा कि समाज के कल्याण के लिए इस प्रकार के शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे।

समाज कल्याण विभाग की डीडीसी ने की समीक्षा

रामगढ़। समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को उप विकास आयुक्त रामगढ़ रोबिन टोप्पो की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण कार्यालय रामगढ़ द्वारा संचालित योजना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़ इन्दू प्रभा खालखो ने उप विकास आयुक्त को पीपीटी के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो ने पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत लाभुकों का शत प्रतिशत आधार सत्यापन करने का निर्देश दिया। साथी उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों के वजन माप का डाटा ससमय अपलोड करने का निर्देश सभी महिला पर्यवेक्षीकाओं को दिया। वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की समीक्षा के दौरान माह दिसंबर तक प्राप्त लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं फर्स्ट चाइल्ड के तहत लंबीत आवेदनों का सत्यापन यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सभी चिन्हित बच्चों को एमटीसी सेंटर में रखने एवं उनका उचित उपचार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी चिन्हित बच्चों की सूची उनके माता/पिता के मोबाइल नंबर के साथ जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 1042 आंगनबाड़ी स्वीकृत है जिनमें 447 किराए के भवन में संचालित है एवं अन्य सरकारी भवनों में संचालित किया जा रहे हैं। अभी किराए के आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवन में स्थानांतरित करने के लिए 21 सरकारी विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। जिस पर श्री टोप्पो ने अगले माह तक चिन्हित विद्यालय में आंगनबाड़ी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मनरेगा एवं डीएमएफटी के तहत बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

महाप्रभु चरण पहाड़ी पर टुसु मेला संपन्न

कुजू। मकर संक्रांति पर्व को लेकर श्री श्री चैतन्य महाप्रभु चरण पहाड़ी धाम बन्दराचुवां कुजू कोलियरी में सांस्कृतिक टुसु मेले का समापन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जयसवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में सीसीएल कुजू महाप्रबंधक आरके सिन्हा, भाजपा वरिष्ठ नेता रंजीत सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता, कुजू ओपी प्रभारी मोहम्मद नौशाद, सांसद प्रतिनिधि राजीव जयासवाल शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उदघाटन किया। जायसवाल ने कहा कि इस चरण पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, जो भी कार्य है उसे समिती के लोग लिखित आवेदन दें उसे पूरा करने का वचन देता हूं।

एक नजर में

चट्टी बरियातू कोल परियोजना ने आंगनवाड़ी में पेंटिंग और नवीनीकरण का किया उद्घाटन

केरेडारी। चट्टी बरियातू कोल परियोजना द्वारा बुधवार को आंगनबाड़ी का पेंटिंग और नवीनीकरण कार्य पूरा कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सनी राज (आईएएस), एसडीओ, सिमरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्य को कंपनी के सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में नवीन गुप्ता, परियोजना प्रमुख, चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना भी उपस्थित रहे, साथ ही अन्य विभाग प्रमुखों ने भी भाग लिया। नवीनीकरण कार्य के बाद, विद्यालय भवन अब बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक वातावरण प्रदान करेगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, इस पहल से उनके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद मिलेगी। नए और रंगीन कक्षों से बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही, विद्यालय की स्वच्छता और सुरक्षा में भी सुधार होगा, जो बच्चों के स्वास्थ्य को लाभकारी साबित होगा। नवीन गुप्ता ने कहा कि चट्टी बरियातू कोल परियोजना हमेशा से अपने उरफप्रयासों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम विश्वास करते हैं कि इस पहल से बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। यह कदम चट्टी बरियातू कोल परियोजना की शिक्षा और समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

१५ है पी २ : मौके पर उपस्थित लोग

कई श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किया स्नान

टाटीझरिया। प्रखंड के झरपो, भराजो,खैरा, पंचायत से कई श्रद्धालुओं ने वर्ष 2025 के प्रयाग महाकुंभ मेला का भ्रमण और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के मिलन स्थान संगम नदी में स्नान कर पुण्य का भागी बने। वही श्रद्धालुओं में छोटन कुमार,दशरथ नारायण सिंह,अनिल वर्णवाल इलेक्ट्रॉनिक दुकान, डॉ.दयाल प्रसाद,अनिल कुमार ने बताया कि 12 वर्षों के बाद यह मेले का नजारा श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। जहां कई साधु संतों महात्माओं का भी देव तुल्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता हैं तथा 144 वर्ष बाद विभिन्न राशियों, नक्षत्रों तिथियों मिलन हुआ है जिसके उपलक्ष्य में यह मेले का आयोजन इलाहाबाद के प्रयाग महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है एवं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी द्वारा यात्रियों के आवागमन मार्ग,मेडिकल, शौचालय, सीसी टीवी कैमरा,पेयजल, मेले परिषर की साफ सफाई, चार पहिया वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था किया गया था।

चंडी स्थान में भव्य मेले का आयोजन

दारु। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रखंड अंतर्गत दिगवार पंचायत में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंडी स्थान में भव्य मेले का आयोजन किया गया। पंचायत के मुखिया महेंद्र मुर्मू ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से यहां मेले का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2004 में इसकी शुरूआत प्रखंड के लगभग सभी पंचायत ने मिलकर की थी। उसके बाद लगातार यहां मेले का आयोजन किया जा रहा है। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हमारे पूर्वजों का इस स्थान से आस्था जुड़ा है जो पहले यहां पूजा पाठ किया करते थे अब धीरे-धीरे इसे एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में दान के रूप में जो भी राशि प्राप्त होता है उसे अभी विशाल शिव मंदिर निर्मित करने में लगाया जा रहा है। ये अर्धनिर्मित मंदिर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा।

शिवाजी तरुण व्यवसाय शाखा ने मनाया मकर संक्रांति

बरही। शिवाजी तरुण व्यवसाय शाखा बरही के तत्वावधान में मकर संक्रांति का भव्य उत्सव चकराटांड़ के मैदान में आयोजित किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 100 स्वयंसेवकों ने समाज के लोगों के साथ मिलकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिला बौद्धिक प्रमुख सुबोध जी ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दिन से भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाते हैं। द्वापर युग में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था, क्योंकि यह मान्यता है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सवों में समरसता का प्रतीक बताया गया। सुबोध जी ने कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने और बिखरे हुए लोगों को एक साथ लाने का अवसर है। साथ ही, उन्होंने स्वयंसेवकों को उन लोगों और संस्थाओं से सतर्क रहने का आह्वान किया जो समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि हमारे ऋषि-मुनियों ने मकर संक्रांति को अध्यात्म और विज्ञान से जोड़कर देखा है। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने जिस भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए स्वयंसेवकों ने संघ को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षक कुंदन जी, प्रार्थना वाचक बलराम जी, सह खंड कार्यवाह सुनील जी, जिला व्यवस्था प्रमुख राजेश जी, सामूहिक गीत प्रस्तुत करने वाले नंदकिशोर जी, एकल गीतकार गुरुदेव जी और सुभाषित प्रस्तुत करने वाले प्रदीप चंद्रवंशी मौजूद थे। अन्य उपस्थित स्वयंसेवकों में निरंजन जी, चंदन जी, सुधीर चंद्र जी, राजेंद्र जी, कृष्ण जी, विनोद जी, संजय जी, इंद्रदेव जी, अर्जुन जी, पिंटू जी, सुभाष जी, और अरुण जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। यह आयोजन न केवल मकर संक्रांति के पर्व को उल्लासपूर्ण ढंग से मनाने का माध्यम बना, बल्कि समाज में समरसता और एकता का संदेश भी दिया।

रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

कटकमसांडी। एदला इलाके में मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कटकमसांडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। थाना प्रभारी राजबल्लव कुमार ने बताया कि सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिली कि एदला रेलवे ट्रैक के पुल के पास एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर पाया कि शव रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति ट्रैक पर गया होगा और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। शव की पहचान के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

अन्नपूर्णा देवी ने किया सूर्यकुंड मेले का उद्घाटन

बरकट्ठा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्राचीन और ऐतिहासिक सूर्यकुंडधाम में लगने वाले 15 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव और हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद रहे। समारोह की शुरूआत डिवाइन पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेटों द्वारा प्रस्तुत बैंड वादन से हुई। मेला ठेकेदार समूह ₹पांच पांडव₹ ने अतिथियों का स्वागत फूल-मालाओं से किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सूर्यकुंडधाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। सूर्यकुंड का भी दिव्य और भव्य रूप बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। यह स्थान सहयोग और प्रयास से प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा।

अवैध शराब का धंधेबाज गया जेल

पानी बोतल की आड़ में करता था शराब का धंधा

पुलिस के गिरफ्त में शराब के अवैध करोबारी बिजय साहू।

खबर मन्त्र संवाददाता

ओरमांझी। ओरमांझी थाना पुलिस द्वारा पानी बोतल की आड़ में शराब का अवैध धंधा में शामिल एक और धंधेबाज बिजाय साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा चंदवे विठोरिया के संजय साहू 38 वर्ष व जमुआ कगटकमदाग हजारीबाग को मनोज गंझु 26 वर्ष को पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दोनो को 06 नवंबर को पिकप वेन में लदा 195 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ब्लेक टाइगर के 135 पेटी व रॉयल ब्लू के 60 पेटी के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया गया संजय साहू व बिजय साहू पानी बोतल की आड़ में काफी दिनों से अंग्रेजी शराब का अवैध धंधा कर रहे थें। वहीं तीसरा आरोपी पिकप वेन में अंग्रेजी शराब के उपर पानी बोतल की पेटी लोड शराब को रांची से हजारीबाग ले जाता था। पुलिस के गिरफ्त में आए बिजय साहू शराब लदा वाहन को बाइक से स्कॉट करने में शामिल था। जब वेन को पुलिस द्वारा पकड़ा गया उस वक्त स्कॉट कर रहे बिजय साहू फरात हो गया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए पिकप वेन जेएच02बीक्यू-5780 में 195 पेटी अंग्रेजी शराब व छुपाने के लिए उपर से 40 पेटी बोतल पानी भी जब्त किया गया था। इसकी जानाकरी देते हुए थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया बिजय साहू की गिफ्तारी के लिए पुलिस काफी दिनो से प्रयास में थी।

नगड़ी से लापुंग तक निकली सनातन स्वाभिमान यात्रा

सनातनियों की एकजुटता जरूरी : विक्रम महतो

- यात्रियों पर हुयी पुष्प की बरसात
- धार्मिक नारे से गुंज उठा माहौल

यात्रा में शामिल सनातनी।

यात्रा में शामिल मारुति मंगल परिवार के सदस्य।

खबर मन्त्र संवाददाता

रातू/बेड़ो। सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था मारुति मंगल परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष बिक्रम महतो की अगुआई में नगड़ी स्थित स्वर्णरिखा नदी के उद्गम स्थल रानी चुआँ से मारुति मंगलधाम, लापुंग तक सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाली गयी। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व पूजा-अर्चना की गयी। सामूहिक वंदना के बाद जल उठाया गया। चेकपोस्ट, प्रेमनगर, इटकी मोड़, पलमा, गड़गांव, बेड़ो, जामटोली, हरहांजी, सरसा व साई मंदिर में यात्रियों का पुष्प की बरसात कर स्वागत किया गया। इस बीच धार्मिक नारे से माहौल गुंज उठा। धाम में मंत्रोच्चारण के बीच शिव

इन्होंने निभायी भूमिका

सुमेश महतो, मुकुंद महतो, मदन कुमार, निरंजन गोप, दीपक उरांव, दिनेश, महली, बीके मुंडा, पूसा तिर्की, अजय उरांव, राजकुमार महली, पीतांबर महतो, निरंजन गोप, भोला कोइरी, वीगा उरांव, रमेश माली, प्रताप सिंह, पवन कुमार, अमित, दीपक, धीरज, कलिंदर, विकाश, नीतीश, हरिशंकर, दशरथ, राजेंद्र, संजय, पवन, संदीप, अनुभव, राजेश, अमरनाथ, चिंतामणि, बसंत, जितवाहन, रिकेश, बिनोद, एतवा, सुरेंद्र, रघुवीर, नितेश गोप, दीपक, विकास, विजय, रामजय, कामेश्वर, मनोज, छोटन, सुरेश, दीनदयाल, सीताराम, बजरंग, बुधनाथ व आशीष आदि।

पीएलएफआई का कुख्यात जोनल कमांडर कृष्णा यादव गिरफ्तार !

- कई मामलों में थी पुलिस को तलाश
- 2021 में बालूमाथ थाना से हो गया था पुलिस को चकमा देकर फरार

खबर मन्त्र संवाददाता

खलारी। झारखंड के कई जिलों के लिए आतंक का पर्याय बना पीएलएफआई का जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुलतान को रांची जिले की पुलिस ने लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है ! कृष्णा यादव लोहरदगा-रांची, खूंटी, लातेहार जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इन जिलों के कई कांडों में उग्रवादी कृष्णा यादव वांछित था। पीएलएफआई कमांडर कृष्णा यादव के विरुद्ध रांची जिले के चान्हों, खलारी, मैक्लुसकीगंज थाना, लोहरदगा जिले के कुडू, कैरो, भंडरा, लातेहार जिले के चंदवा, बालूमाथ में कई कांड दर्ज हैं।

पीएलएफआई के जोनल कमांडर कृष्णा को कई जिले की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। कृष्णा यादव उर्फ सुलतान पर लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में बढ़ई मिस्त्री की हत्या, कुडू के मकांदू गांव स्थित क्रेशर में तोड़फोड़, आगजनी व फायरिंग, कैरो और भंडरा थाना क्षेत्र के सीमाने पर नहर मरम्मत योजना में दहशत फैलाने सहित कई कांडों में पुलिस को तलाश थी। कृष्णा यादव को रांची जिले के चान्हो, खलारी और मैक्लुस्कीगंज की पुलिस ने कुडू थाना क्षेत्र के कुडू धोबी टोला के समीप उसके घर से गिरफ्तार कर रांची के एक थाने में ले गई! कृष्णा यादव के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन और देशी पिस्टल भी बरामद किया है। हालांकि पीएलएफआई का जोनल कमांडर कृष्णा यादव गिरफ्तार के मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहा है। सूत्रों का कहना है कि पीएलएफआई का जोनल कमांडर कृष्णा यादव कुडू धोबी टोला के समीप अपने घर पर था। इसी दौरान पुलिस की तकनीकी टीम ने मोबाइल लोकेशन से उसके घर तक पहुंच गई। जिसके बाद छापेमार कर कृष्णा को उसके घर से गिरफ्तार कर रांची लेकर चली गई है। परिजन आरोप लगा रहे है कि कृष्णा यादव कुडू थाने की गिरफ्त में है वो सरेंडर करने आया था लेकिन पुलिस उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है, पुलिस उसे जेल भेजे, उन्हे आशंका है कि कृष्णा यादव का पुलिस इंकाउंटर कर सकती है उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा रही है। इसके अलावे सूत्र ने बताया कि पुलिस ने मुकेश यादव खलारी युवा मोर्चा के प्रखण्ड अध्यक्ष जेएमएम, व रविन्द्र यादव दुल्ली को भी थाना लाया है जिसके लिए खलारी प्रखण्ड के कई नेता थाना के चक्कर लगा रहे थे। वही खलारी के एक थाने में रांची जिले के कई पुलिस के आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है।

स्पीड न्यूज

सड़क हादसा में बाईक सवार हुआ घायल

अनगड़ा। गेतलसूद-हुंडरू मार्ग में बनादाग इंदिरा आवास कोलोनी के समीप बुधवार की शाम में बाइक दुर्घटना में कांटाटोली रांची का युवक विजय कुमार घायल हो गया । वह बाईक से हुंडरू फौल मेला देखने जा रहा था विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में विजय की बाइक रोड किनारे एक पेड़ से जा टकराया। दुर्घटना में विजय का पैर टूट गया। हेलमेट पहने होने के कारण उसके सिर में चोट नही लगी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता जैलेन्द्र कुमार मौके पर पहुंचे व घायल को अस्पताल भेजने का प्रयास करने लगे। इसी बीच घायल युवक का स्वजन आटो लेकर पहुंचे व इलाज के लिए रिम्स ले गये।

अफीम की खेती करने के आरोप में जेल

अनगड़ा। अनगड़ा थाना क्षेत्र के कोन्ता टोली चट्टान टोली में अवैध रूप से पोस्ता अफीम की खेती करने के आरोप में अनगड़ा पुलिस ने बुधराम मुन्डा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मालूम हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में अनगड़ा पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने के विरुध अभियान चलाया गया। तथा छह एकड़ में लगे प्रतिबंधित अफीफ की खेती को पुलिस वल के सहयोग से विनष्ट कर दिया गया। तथा अफीम की खेती करने में बुधराम मुन्डा की संलिप्पता पाए जाने पर बुधराम मुन्डा को पकड़कर जेल भेज दिया गया।

मायापुर पंचायत अध्यक्ष ने वृद्ध असहाय के बीच कंबल का वितरण

खलारी। मैक्लुस्कीगंज स्थित मायापुर पंचायत अध्यक्ष राजेश गंझू ने विधायक के सौजन्य से गरीब महिला-पुरुष के बीच 30 कंबल का वितरण किया। मौके पर जैनूल खान, जेवियर एक्का, देवचरण गंझू, रेमिश टोप्पो, मसीदास भेंगरा, विकास सिंह, तरशिला भेंगरा, हेलेन भेंगरा सुशिला भेंगरा, दुलारी देवी सहित अन्य शामिल थे।

पेड़ से टकराई बाइक सवार का टूटा पैर

सिकिदिरी। गेतलसूद-हुंडरू फॉल मार्ग के सोसो मोड़ में एक बाइक सवार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। इस घटना में बाइक सवार कांटाटोली निवासी विजय कुमार का एक पैर टूट गया। बताया गया कि विजय तेज गति से बाइक से हुंडरू फॉल टुसू मेला देखने जा रहा था, इसी दौरान घटना घटी। मुकेश करमाली ने आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से घायल को अस्पताल भेजा।

चान्हो: घासीराम महली स्मारक समिति का प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

चान्हो। घासीराम महली स्मारक समिति के तत्वाधान में बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की की घासीराम महली स्मारक समिति के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष 17 जनवरी को उनके जन्म स्थान करकट में मेला सह जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार मुख्या अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को आमंत्रित किया गया है। इस मेल के आयोजन की अनुमानित खर्च तीन लाख बारह हजार रुपए है। इसलिए उन्होंने उपायुक्त से मांग की की मेला का जो अनुमानित खर्च है उसे सरकार द्वारा आवंटित की जाए। ताकि राज्य के कला संस्कृति को जीवित रखा जा सके।

रातू : एसएफसी में मोटिया की हड़ताल खत्म

- 8:50 मिलेगी मजदूरी
- आज से खुलेगा गोदाम

यह है समझौता की शर्तें

प्रखंड को प्रत्येक माह 54 सौ क्विंटल गेहूं और चावल आबंटित किया जाता है। कांट्रेक्टर, एफसीआई से ट्रक में खाद्यान लेकर आयेगा। मोटिया उसे उतारकर गोदाम में रखेंगे। उसके बाद डीलरों को इशू किया जायेगा। पहले व्यवस्था थी कि एफसीआई से खाद्यान आने के बाद ट्रक से ही इशू की जाती थी। इससे समय का बचत होता था। लेकिन, अब वैसा नहीं होगा। इस नयी व्यवस्था से डीलरों को समय पर राशन नहीं मिल सकेगा। लाभुकों की भी परेशानी बढ़ेगी।

खबर मन्त्र संवाददाता

रातू। रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर एसएफसी में मोटिया का बेमियादी हड़ताल बुधवार की शाम समाप्त हो गया। हथालन अभिकर्त्ता कुश पटेल के प्रतिनिधि आशीर्वाद कुमार और मोटिया के बीच हुये समझौते के तहत अब उन्हें प्रति बोरी 8:50 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वह दिसंबर माह के बकाये का भी भुगतान करेंगे। गुरुवार की सुबह 10 बजे से गोदाम खुलेगा और इशू भी शुरू हो जायेगी। यह जानकारी प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक मनोज कुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि डीएसडी मनोज कुमार को पीडीएस दुकान में तेजी के साथ अनाज पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर जवि दुकानदार संघ के अध्यक्ष मोहन साहू व सचिव मोबिन अंसारी आदि मौजूद थे।

72 घंटा अखंड हरिकीर्तन के साथ मकर संक्रांति मेला महोत्सव संपन्न

मेला महोत्सव के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।

मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु।

खबर मन्त्र संवाददाता

लापुंग। लापुंग प्रखंड के प्रसिद्ध घघारी बाबा धाम में चार दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बगैर किसी तामझाम के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बुधवार को हजारों लोगों ने घघारी बाबा धाम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मकर संक्रांति के मौके पर जमुनी नदी के तट पर दही चूड़ा और तिलकुट ग्रहण किया। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 72 घंटे के अखंड हरिकीर्तन का समापन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी के महाप्रसाद का लंगर लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी का महाप्रसाद ग्रहण किया। मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को घघारी बाबा धाम में अधिक भीड़ देखी गई। मेला स्थल पर बुधवार को दुकानें भी सजी थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगलवार की बजाए बुधवार को घघारी बाबा धाम पहुंचे थे। मंदिर में मंदिर के मुख्य पुजारी राम शंकर पाठक, राजकुमार पाठक, राजेश पाठक, सीताराम पाठक, तुलसीदास गोस्वामी तथा अजय गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना कराई। इधर मेला समापन के साथ ही थाना प्रभारी लापुंग संतोष कुमार यादव और बेड़ो थाना प्रभारी नकुल शाह ने मेला में आए श्रद्धालुओं जो नदी के नीचे उतर गए थे उन सबों को सुरक्षा पूर्वक ऊपर पहुंचाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक रामशंकर सिंह, अध्यक्ष आर गोप, देवेंद्र वर्मा, राजधन शेखर सिंह, पूर्व मुखिया, संतोष तिर्की, सेवक सिंह, भुवन महतो, संजय कुमार महतो, दशरथ तिर्की, विकास नारायण सिंह, हीरालाल शेखर सिंह, लाल ऋतुराज नाथ शाहदेव व विजय सहित अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एतिहासिक हुंडरू मेला में ओरमांझी को मिला सर्वश्रेष्ठ टुसू का पुरस्कार

सिकिदीरी। एतिहासिक हुण्डरु फॉल में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित टुसू मेला बुधवार को चाला अखड़ा खोड़हा हुंडरू शाखा द्वार टुसू मेला लगाया गया। मेला में में रांची, रामगढ़, बोकारो, जमशेदपुर, पुरूलिया आदि जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं मेला देखने पहुंचे थे। अध्यक्ष जितराम बेदिया ने कहा कि टुसू हमारे परम्परा एवं संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है टुसू हमारी सामाजिक मेलजोल को बढाने के अतिरिक्त हमारे पूर्वजों से मिली सास्कृतिक परम्परा को बढाने के लिए प्रेरित करती है। मेला में 30 गांव के महिला पुरुष रंग बिरंगी टुसू लेकर मेला स्थल पहुंचे थे। ओरमांझी के टूसू को प्रथम, कोइनारडीह को द्वितीय एवं हुंडरू जारा को तृतीय पुरस्कार मिला।

51 बकरों की दी गयी बलि

मेला में स्थानीय पहान गुहीराम बेदिया, कालिया बेदिया एवं फागुराम बेदिया ने 51 बकरे की बलि देकर हुण्डरु बाबा की पूजा अर्चना की। टुसू मेला में बदरी, खभावन, हुण्डरु, कुच्चू, मैनीछापर, हुण्डरु जारा, नवागढ़, अम्बाटुंगरी,जाराडीह आदि दर्जनों गावों से महिला-पुरूष टुसू लेकर नाचने गाते ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। मेला में मिठाई, खिलौना, ईख आदि खूब बिक्री हुई। मेला के विधि व्यवस्था में स्थानीय थाना सिकिदीरी के प्रभारी दीपक कुमार सिन्हा एवं एएसआई बाबुलाल टुडू ने? सम्भाल रखा था। मेला का संचालन मनीष बेदिया ने किया। मेला के सफल आयोजन में मेला अध्यक्ष अध्यक्ष जीतराम बेदिया, सचिव मदन बेदिया, बबलू बेदिया, जगदीश बेदिया, संदीप भोगता, बिलेन्द्र भोगता, बिशेषश्वर बेदिया, हरिचरण बेदिया, मनबोध बेदिया, जगेश्वर बेदिया आदि का योगदान रहा।

एक प्रेमी ने दूसरे को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका संग मिलकर की हत्या

- पुलिस ने तत्वरित कारवाई करते हुए लड़की सहित सात को गिरफ्तार किया

खबर मन्त्र संवाददाता

अनगड़ा। थाना क्षेत्र के जमूवारी गांव में बीती रात करीब 7.30 बजे टूसू मेला में बुलाकर संदीप महतो नामक एक करीब 24 वर्षीय युवक की चाकू से अंधाधुंध प्रहार कर हत्या कर दी गयी। बताया गया उसपर चाकू से नौ बार प्रहार किया गया था जिससे उसका आंत पेट से बाहर आ गया था। खून से लथपथ युवक को इलाज के लिए तत्काल सीएससी गोन्दली पोखर इसके बाद वहां से रिम्स रांची ले जाया गया जहां इलाज के दौरान दो बजे रात में उसकी मौत हो गई। मृतक पिठोरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत राढ़ा मोहरा गांव का रहने वाला था। बताया गया कि बीआईटी ओपी क्षेत्र के रुदिया गांव की एक लड़की आरती कुमारी मुन्डा से संदीप और संगम लोहरा नामक युवक प्रेम करते थे। उक्त लड़की के साथ पिछले चार साल से मृतक संदीप का प्रेम प्रसंग चल रहा था इसके बाद कुछ दिनों पूर्व ही संगम लोहरा ने इन्ट्री मारा था। बताया गया कि लड़की आरती का पहला प्रेमी से दिल उब गया था इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए संगम लोहरा और उक्त लड़की ने योजना बद्ध तरीके से अपने अन्य छह साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी मृतक संदीप महतो के दोस्तों ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व उसे आरती ने मरवा देने की भी धमकी दी थी इसी के तहत उक्त लड़की ने धोखा देकर पहले संदीप को मेला में बुलाया इसके बाद संगम लोहरा और लड़की आरती ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद लड़की आरती ने मृतक का मोबाईल फोन अपने कब्जे में करके स्वीच ऑफ कर दिया। बताया गया कि मृतक संदीप को एक पेड़ में सटा करके अंधाधुंध चाकू मारने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए लेकिन मृतक संदीप ने हिम्मत दिखाते हुए दौड़ कर भीड़ के तरफ आया तब एक दुकानदार ने उसे खून से लथपथ देखकर चिलाया लोग जमा हुए और मुखिया पति कृष्ण भगत ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना अनगड़ा पुलिस को दी सूचना पाकर थाना प्रभारी हिरालाल शाह के नेतृत्व में पहुंची अनगड़ा पुलिस ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए बारह घंटा के अन्दर हत्या कांड का उदभेदन करते हुए हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त संगम लोहार आरती कुमारी मुन्डा सहयोगियों पवन कुमार शाहील शाह गोलू कुमार सूरज राम विशाल उरांव सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। संगम लोहार टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के चतरा गांव का रहने वाला बताया गया है जबकि अन्य छह लोग पुरना लोवाडीह और भुईया टोली लोवाडीह का रहने वाले है। बताया कि संगम लोहार ने अपने सहयोगियों को वर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया था।

एक नजर में

विवाहिता ने की फांसी लगा कर आत्महत्या

मांडर। थाना क्षेत्र के करकरा गांव निवासी 19 वर्षीय यासमीन परवीन ने बुधवार शाम लगभाग 4:30 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि घटना के वक्त उसके घर वाले सभी बाहर थे, इसी बीच उसने घर में फांसी के फंदे से झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसकी डेढ़ वर्ष की एक बेटी भी है। घटना की सूचना मिलने पर मांडर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है साथ ही घटना की जांच भी कर रही है। यासमीन का मैका मांडर बाजारटांड है दो वर्ष पूर्व अपने पसंद से करकरा निवासी मुंसफ अंसारी से विवाह किया था खबर लिखे जाने तक मृतिका की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला था। मगर लड़की के परिजनों का कहना था की यासमीन की हत्या हुई है।

कांके विधायक के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने लड्डू और कंबल का वितरण किया

खलारी। कांके विधानसभा के विधायक सुरेश बैठा के जन्मदिन पर बुकबुका पंचायत भवन में केक काटकर व लड्डू बांटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकताओं ने विधायक की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। साथ ही खलारी प्रखण्ड का विकास के लिए तत्पर रहें। वही कार्यकताओं ने वृद्ध असहायों को कंबल का वितरण किया। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता बुकबुका पंचायत अध्यक्ष अजय सिंह बबलू ने किया। कार्यक्रम में राजेश सिंह मिंटू,मारुति देवी, मोनू रजक, वीरेंद्र यादव, मोनू सिंह, जावेद अंसारी, बाबू खान, संजय राम, राजा केसरी, मनोज यादव, ओम प्रकाश, भोला यादव, सुरेंद्र यादव, शिव प्रसाद चौहान, रवि सिंह, दीपक सिंह, प्रिंस सिंह, राहुल निषाद सहित अन्य उपस्थित थे।

अमानत अंसारी ने कंबल का वितरण किया

मांडर। बुधवार को उप प्रमुख अमानत अंसारी ने मुड़मा पंचायत के बढ़ते ठंड के प्रकोप से बचने के लिए गरीबों, असहायों, वृद्धों व जरूरतमंदो के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशियां देखी गई और सभी लोगों ने उप प्रमुख अमानत अंसारी का आभार व्यक्त किया। श्री अंसारी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तेज हवा चलने के बाद ठंड का प्रकोप और अधिक बढ़ गया है। तेज ठंडी हवा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शाम होते ही लोग अपनेझअपने घरों में दुबक जाते हैं। इस सर्दी में गरीबों की मदद बहुत जरूरी है।

खलारी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि बने मोनू रजक

खलारी। कांके विधानसभा के विधायक सुरेश कुमार बैठा ने पत्र जारी कर कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वसंर्पित कार्यकर्ता मंतोष रजक (मोनू रजक) को खलारी प्रखंड का विधायक प्रतिनिधि चुना गया। प्रतिनिधि पर विधायक ने पूरे विश्वास किया है कि प्रखण्ड क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर कर्तव्यों का पालन करेगा। विधकाय प्रतिनिधि बनाये जाने प्रखंड की नेत्री इंदिरा देवी,मजदूर नेता अब्दुल्ला अंसारी, साबिर अंसारी, रमेश चौहान, तनवीर अंसारी, विक्की सिंह, गोपाल सिंह, जावेद अंसारी, संजय राम, अनीता पासवान, सुमन देवी, सुधा झा,अनीता देवी, लिली स्टेला, फूलों देवी, बाबू खान, राजा केसरी, अजय सिंह, सलामत अंसारी, टुनु साव, सुरेंद्र चौहान, रुपेश मिश्रा,अशोक महतो, संजय बैठा सहित अन्य ने बधाई दी।

रातू : लापता युवक का कुएं से मिला शव

रातू। पुलिस ने पुरियो के एक कुएं से 35 वर्षीय सुरज उरांव का शव बरामद किया है। वह टोंकाटोली चापा टिकरा निवासी स्व बिग्गा उरांव का एकलौती संतान था। मृतक को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल पंचनामा कर रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। देर शाम गांव के श्मशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी गयी। मामले को लेकर पत्नी पार्वती उरांव के ब्यान पर रातू थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 6 साल का एक पुत्र और 3 साल की पुत्री है। पार्वती ने बताया कि सुरज उरांव शराब का अत्यधिक सेवन करता था। 5 जनवरी की शाम से ही लापता था। खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। थाने में उसकी गुमसुदगी का संहा दर्ज कराने के बाद वह बच्चों के साथ मायका चली गयी थी। सुरज की आकस्मिक मौत से परिजनों पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा है। बच्चों की परवरिश को लेकर पार्वती चिंतित है। रो-रोकर उसका बुरा हाल है।

उलास के साथ संपन्न हुआ सतिघाट टुसु मेला

सोनाहातू। पांच परगना का प्रसिद्ध सतिघाट टुसु मेला बुधवार को उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। मेला में वक्ताओं ने कहा कि हमें अपनी लोक सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जरूरत है ।मेला से हमें आपसी तालमेल को मजबूत बनाने का संदेश देता है। हमें अपनी सांस्कृतिक और परंपरा की रक्षा स्वंय करनी होगी। टुसु मेला स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। सतिघाट मेला स्वाभिमान से जुड़ा है हमें अपनी स्वाभिमान की रक्षा करनी है। मेला में लोग चौड़ल के साथ नाचते गाते हुए आये। कृषि उपकरण, ढोल नगाड़े, शील-बट्टे, पारंपरिक हथियार ईख सहित घरेलू समानों की खूब बिक्री हुई। मेले में मौत का कुआँ, बूगी बूगी डांस मुख्य आकर्षण रहा। लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी किये। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा सिल्ली विधानसभा के द्वारा बारेंदा चौक से सतीघाट तक डहरे डहरे सतीघाट मेला का आयोजन किया गया ।समिति के लोगों ने बारेन्दा चौक से लेकर सतीघाट टुसू मेला तक शोभायात्रा निकाली। लोकगीत पर लोग नाचते-गाते हुए मेला में पहुंचे। सिल्ली विधायक अमित कुमार महतो अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे ।मौके पर पूर्व विधायक सिमा देवी, जिप सदस्य लक्ष्मी देवी, मुंडा कृष्णा कुमार सिंह मुंडा, मेला को सफल बनाने में मेला समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह मुंडा, मुखिया सुभद्रा देवी, अशोक महतो, गौतम सिंह देव, माधव सिंह मुंडा, महानंद पुराण, विरंचि पुराण, जयप्रकाश सिंह मुंडा, बसंत महतो, निर्मल महतो, आंनद यादव, विपिन कुमार महतो आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन्न

माण्डर। प्रखण्ड स्थित भारथी कॉलेज ऑफ एजुकेशन तीन दिवसीय वार्षिक खेलकुद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत 11 जनवरी को की गई थी जिसका समापन 13 जनवरी को हुआ। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिता जैसे 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, थ्री लेग रेस, शॉटपुट, टग ऑफ वार, रिले रेस, स्किपिंग, कबडडी एवं कैरम, चेस एवं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी खिलाडियों को चार हाउस हंसराज, दयानंद, विवेकानंद तथा श्रद्धानंद में बाँटा गया। तीनो दिन का खेल काफी रोमांचक रहा खिलाड़ी काफी उत्साहित थे। समापन के अवसर पर महाविद्यालय के शैक्षणिक सचिव सह प्राचार्या दीपाली पराशर ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में महाविद्यालय के सभी स्टाफ का सहयोग रहा।

युवा शक्ति का सशक्तिकरण: विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष-2047 की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हमारे युवा विकसित भारत के निर्माण के हमारे मिशन में सबसे आगे हैं। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीति में शामिल करने के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, हमने राष्ट्रीय युवा महोत्सव को एक असाधारण रूप में परिकल्पित किया है - विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025। यह संवाद केवल एक आयोजन नहीं है, यह एक अभियान है, युवा सशक्तिकरण, नेतृत्व और व्यावहारिक विचारों का एक जीवंत उत्सव है, जो ॣविकसित भारतॣ से जुड़े देश के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परिकल्पना

दो दशकों से अधिक समय से, राष्ट्रीय युवा महोत्सव सांस्कृतिक आदान-प्रदान और युवा ऊर्जा का प्रतीक रहा है। हालांकि, इस वर्ष, हमने अलग तरीके से सोचने का साहस किया। 18 नवंबर, 2024 को, हमने उत्सव के प्रारूप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन की घोषणा की, जिसके केंद्र में नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र-निर्माण को रखा गया।

इस परिकल्पना का केंद्र है - विकसित भारत चुनौती, जो तीन चरणों वाली प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। यह चुनौती योग्यता, समावेश और पारदर्शिता पर आधारित है, जो भौगोलिक या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर युवा भारतीय को योगदान करने का समान अवसर मिलना सुनिश्चित करती है।

पहले चरण, विकसित भारत क्विज में देश भर के लगभग 3 मिलियन युवाओं ने भाग लिया। 12 भाषाओं में आयोजित इस प्रतियोगिता में पिछले दशकों में भारत की प्रगति के बारे में उनके ज्ञान का परीक्षण किया गया, जिससे समावेश और पहुँच सुनिश्चित हुई।

दूसरे चरण के तहत, विकसित भारत निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पेश किये गए दो लाख से अधिक निबंधों में विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, सतत विकास को अपनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने जैसे दस विषयगत क्षेत्रों पर विचार प्रस्तुत किये गए। विशेषज्ञ पैनल द्वारा मूल्यांकित इन निबंधों ने हमारे युवाओं की रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और मौलिकता के बारे में गहन जानकारी प्रदान की।

अंतिम चरण के अंतर्गत, विकसित भारत विजन डेक प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतिभागी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में शामिल हुए। यहाँ, युवा नेताओं ने क्षेत्र (डोमेन) विशेषज्ञों और नेतृत्व मध्यस्थों के पैनल के सामने अभिनव विचार प्रस्तुत किए। इस चरण में जमीनी स्तर के दृष्टिकोण और क्षेत्रीय विविधता पर जोर दिया गया, जिससे युवा भारतीयों की स्थानीय रूप से कार्य करते हुए वैश्विक स्तर पर सोचने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

इन चरणों के माध्यम से पूरी हुई यात्रा को सुदृढ़ता और दृढ़ संकल्प की प्रेरक कहानियों से रेखांकित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तथा राजस्थान और गुजरात के गाँवों से लेकर तमिलनाडु के तटीय शहरों तक, हमने युवा नेताओं को सामाजिक बाधाओं, लॉजिस्टिक्स चुनौतियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों को पार करते हुए विकसित भारत का अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते देखा - एक ऐसा भारत, जिसकी वे कल्पना करते हैं।

भव्य संवाद: एक ऐतिहासिक समागम

विकसित भारत युवा नेता संवाद 10 जनवरी, 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू होगा, जिसमें 3,000 प्रतिभागी एक ऐतिहासिक समागम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत चैलेंज ट्रैक से 1,500 प्रतिभागी शामिल होंगे, जो राज्य चैंपियनशिप की शीर्ष 500 टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे, पारंपरिक ट्रैक से 1,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सवों से चयनित प्रदर्शनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगे और 500 पथप्रदर्शक शामिल होंगे, जो विषयगत ट्रैक पर अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए चुने गए हैं।

प्रतिभागी सांस्कृतिक और विषयगत प्रस्तुतियों, प्रतियोगिताओं तथा प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे प्रतिष्ठित स्थलों की यात्रा में भाग लेंगे। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ एक विशेष रात्रिभोज, अनौपचारिक संवाद के लिए एक दुर्लभ मंच प्रदान करेगा, जो युवाओं की आकांक्षाओं को नीति निर्माण अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ेगा।

11 जनवरी को एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ संवाद की शुरूआत होगी, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, वैचारिक नेता और नवोन्मेषक भाग लेंगे। यह उच्च-स्तरीय चर्चा दस महत्वपूर्ण विषयों पर विषयगत विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार करेगी, जिसका नेतृत्व सलाहकार और क्षेत्र (डोमेन) विशेषज्ञ करेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम, ॣविकसित भारत के रंगॣ के साथ संध्या बेला जीवंत हो उठेगी, जिसमें भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा और यह हमारे युवाओं की असीम क्षमता का भी प्रतीक होगा। यह दिन बौद्धिक विमर्श और सांस्कृतिक उत्सव के बीच एक आदर्श संतुलन बनाता है, जो प्रतिभागियों को बड़े सपने देखने और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

राष्ट्रीय युवा दिवस: विकसित भारत के लिए एक विजन

स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा सशक्तिकरण की उनकी चिरस्थायी विरासत का सम्मान करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन का अंतिम दिन होगा, जो प्रत्येक प्रतिभागी के लिए एक निर्णायक क्षण साबित होगा। विषयगत ट्रैक से शीर्ष दस विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जो नवोन्मेषी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरक मंच प्रदान करेगा।

यह संवाद शासन और निर्णय लेने में युवाओं को शामिल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। इसके बाद, प्रतिभागियों को माननीय प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के साथ दोपहर के भोजन पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इससे सार्थक बातचीत को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को यादगार पलों को संजोने का मौका मिलेगा और उनमें सशक्तिकरण की भावना का विकास होगा।

इस दिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भव्य पूर्ण सत्र का भी आयोजन होगा। यह सत्र विकसित भारत को आकार देने में भारत के युवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता को सुदृढ़ करेगा। इस सत्र के जरिये प्रतिभागियों को बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त और प्रेरित किया जाएगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद अपने पैमाने, समावेशिता और प्रभाव को दर्शाता है। इसकी पारदर्शी चयन प्रक्रिया से लेकर कार्रवाई योग्य विचारों पर इसके विशेष ध्यान तक, यह पहल युवा सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। नवोन्मेषी विचारों के लिए एक मंच प्रदान करने तथा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के अग्रणी व्यक्तियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सीधे संवाद करने के माध्यम से यह संवाद कार्यक्रम शासन में युवाओं की भागीदारी के लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है।

(केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री)



युवा दिवस की थीम

2011 2011 की थीम थी ॣसबसे पहले भारत।

2012 की थीम थी विविधता में एकता का जश्न।

2013 की थीम थी युवा शक्ति की जागरुकता।

2014 की थीम थी ड्रग्स मुक्त संसार के लिये युवा।

2015 की थीम थी ॣयंगमंच और स्वच्छ, हरे और प्रगतिशील भारत के लिये युवा।(इसका नारा था, 'हमसे है नयी शुरुआत')

2016 की थीम है विकास, कौशल और सद्भाव के लिए भारतीय युवा।

युवा भारत को अपने युवाओं से उम्मीद

एनके मुरलीधर

समाज और राष्ट्र के बिखरे हुए ऊर्जा के स्त्रोत युवाओं को संगठित और अनुशासित करके उनकी ऊर्जा को किसी सकारात्मक लक्ष्य और समाज उत्थान के कार्य हेतु अगर प्रयोग में लिया गया तो यह युवा शक्ति हर लक्ष्य को भेदती हुई सफलता के नए आयाम गढ़कर देश और समाज को हिमालय की बुलंदियों तक पहुचा सकेगें। इसके लिए उचित शिक्षा, सही मार्गदर्शन एवं अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ताओं व सरकारी तंत्र के पारस्परिक समन्वय की महती आवशयकता है। अतएव शिक्षा को रोजगारपरक, हिंसामुक्त, क्रियाशील, मूल्यपरक एवं प्रकृति से सम्बन्धित करके ही निर्भय, स्वानुशासित, अहिंसात्मक जीवन दृष्टि वाले, आत्मनिर्भर, सहकारप्रिय एवं गीता में विंणत 'आत्मन्येवात्मना तुष्ट (अपने भीतर स्वयं से तृप्त) युवाओं का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे युवकों के द्वारा ही देश में सामाजिक सौहार्द्र ,सुख-शान्ति व समृद्धशाली समाज की स्थापना की जा सकती है जिसके द्वारा ही आधुनिक सभ्यता के उज्जवल भविष्य का सपना साकार हो सकेगा।

कौन संभालेगा युवाओं को

आज प्रश्न यह है कि युवा शक्ति को संभालने और दिशा देने की सामर्थ्य किसमे है जबकि वर्तमान भारतवर्ष में 13 से 35 वर्ष की आयु वाले लगभग 42 करोड़ यूवाओं की मानवीय पूँजी है जो कि दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है अर्थात हमारा देश इन दिनो सर्वाधिक युवा देश है जिसमें से 70 प्रतिशत (लगभग 29 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। गॉव में रहने वाले युवाओं तथा शहरों में निवास करने वाले लगभग 13 करोड़ युवा दोनो के रहन-सहन, क्षमता, रूचि, परिवेश, शिक्षा आदि एकदम अलग है। गॉवो की शिक्षा व्यवस्था और शहरों की सुविधाए, दोनो में जमीन-आसमान का फर्क है। इसलिए ग्रामीण युवाओं को आज शिक्षा एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नही हो पा रहे हैं और वे विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। जबकि किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति उसके रचनात्मक कार्यो का आधार होती है परन्तु जब युवाओं को अपनी योग्यता व शक्ति का सदुपयोग करने का अवसर नही मिलता तो वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में युवा शक्ति रचनात्मक कार्यो में व्यस्त न रहकर विध्वंसक कार्यो की ओर अग्रसर होती है।

आज हमारे देश में ग्रामीण युवा शक्ति के सामने अनेक गम्भीर चुनौतियां हैं जिनमें आर्थिक विषमता, मूल्यरहित शिक्षा, शिक्षा का रोजगारोन्मुखी न होना, उचित मार्गदर्शन का अभाव एवं टेलीविजन के द्वारा सेक्स और हिंसा का ग्लैमराइजेशन किया जाना आदि हैं। जिसके कारण उत्पन्न अमीरी-गरीबी की बढती खाई, बेरोजगारी, सामाजिक रिश्तों का अभाव, पारिवारिक विघटन, उपभोगवादी संस्कृति का प्रसार, टूटते सामाजिक-राजनैतिक मूल्यों ने इन युवाओं के भीतर निराशा पैदा कर दी है। आज हमारे देश में उचित मार्गदर्शन के अभाव में भारतीय युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित है और कुप्रवृत्तियों की पगडंडियो में भटककर अपराध और आतंकवाद पर चल रही है। कश्मीर में जारी आतंकवादी गतिविधियों तथा देश के कोने-कोने में पैर पसारते नक्सलवाद में गुमराह युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त देश की बढती जनसंख्या ने भी युवा वर्ग को दिशा से भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। इन

समस्याओं का निदान किए बिना युवा शक्ति को राष्ट्रज विकास के कार्यो से संलग्न कर पाना संभव न हो सकेगा। आर्थिक विषमता भी युवाओं को मार्ग से भटकाने में प्रेरक तत्व है। आज देश में अधिकांश पूँजी चंद हाथों में है जबकि अधिकांश ग्रामीण युवा निर्धन व अशिक्षित परिवारों से संबन्धित है। धन के अभाव में ये ग्रामीण युवक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और इनकी प्रतिभा को उचित अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। कृषि योग्य भूमि बढते परिवारों के साथ टुकड़ों में बंटती जा रही है। कृषि से जीवन-यापन संभव नहीं रह गया है। फलस्वरूप युवा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर है। शहरो में आकर ये युवक मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं। जहाँ पर वे शहरी चकाचैंध से परिचित होते है और भौतिक सुखसुविधाओं की प्राप्ति हेतु गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं।

वर्तमान शिक्षा युवाओं को परिश्रम से दूर करती है। अल्प शिक्षा प्राप्त ये युवक कृषि व संबन्धित कार्य करने में शिंमन्दगी महसूस करते है। ॣथोड़ा पढा तो गया हल से, ज्यादा पढा तो गया घर से ॣ कहावत इन पर चरितार्थ होती है। ये युवक कृषि के बजाए नौकरी प्राप्त करने में अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन युवकों की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होता है, वे जल्द से जल्द शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण कराने का प्रयास करते हैं ताकि शहरी जीवन का लाभ उठा सकें। वर्तमान शिक्षा युवाओं में नैतिक मूल्यों का विकास करने में असफल सिद्ध हो रही है। शिक्षा एक व्यवसाय नहीं, वरन् संस्कार है। परंतु आज की शिक्षा व्यवसाय ज्यादा नजर आती है। युवा वर्ग कालेजो के माध्यम से ही दुनिया को देखता है। पर शिक्षा में सामाजिक व नैतिक मूल्यों कअभाव होने के कारण वह न तो उपयोगी प्रतीत होती है और न ही युवा वर्ग इसमें कोई खास रूचि लेता है। शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी या रोजगार से जुड़ गया है। ऐसे में शिक्षा की व्यावहारिक उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगने लगाा है।ऐसे में युवा वर्ग की सक्रियता हिंसात्मक कार्यों, उपद्रव, हड़तालों, अपराधों और अनुशासनहीनता के रूप में ही दिखाई देती है। शिक्षा में सामाजिक व नैतिक मूल्यों के अभाव ने युवाओं को नैतिक मूल्यों के सरेआम उल्लंघन की ओर अग्रसर किया है।मसलन मादक द्रव्यों व धूमपान की आदतें, यौन शुचिता का अभाव आदि ने विद्यालयों को विद्यास्थल के बजाए राजनीतिक अखाड़ा, असामाजिक व अनैतिक कार्यों की जन्मस्थली बना दिया है। दुर्भाग्यवश आज के गुरूजन भी प्रभावी रूप में सामाजिक व नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में असफल रहे। युवाओं के समक्ष एक अन्य चुनौती उचित मार्गदर्शन का अभाव है। आदर्श नेतृत्व ही युवाओं को सही दिशा दिखा सकता है, पर जब नेतृत्व ही भ्रष्ट हो तो युवाओं का क्या? किसी दौर में युवाओं के आदर्श गांधी, नेहरू, विवेकानन्द, आजाद, सुभाष जैसे लोग या उनके आसपास के सफल व्यक्ति, वैज्ञानिक और शिक्षक रहे। पर आज के युवाओं के आदर्श वही हैं जो शार्टकट के माध्यम से ऊँचाइयों पर पहुँच जाते हैं। फिल्मी अभिनेता, अभिनेत्रियां, विश्वसुन्दरियां, भ्रष्ट अधिकारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और अपराध जगत के डान आदि उनके आदर्श बन गए हैं। फलस्वरूप अपनी संस्कृति के प्रतिमानो और उद्यमशीलता को भूलकर रातोरात ग्लैमर की चकाचैंध में वे शीर्ष पर पहुँचना चाहते हैं। पर वे यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार बिना उद्यम के ठोस कार्य भी नहीं हो सकता।

विवेक कथन

राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गये कथन निम्न प्रकार हैं :

उच्चतम आदर्श को चुनो और उस तक अपना जीवन जीयो। सागर की तरफ देखों न कि लहरों की तरफ।- कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में एक सदी की भीड़ से अधिक कार्य कर सकते हैं। धर्म आदमी में पहले से ही देवत्व की अभिव्यक्ति है। धन पाने के लिये कड़ा संघर्ष करों पर उससे लगाव मत करो

जो गरीबों में, कमजोरों में और बिमारियों में शिव को देखता हैं, वो सच में शिव की पूजा करता हैं।

प्रत्येक आत्मा संभावित परमात्मा है।

दिन में एकबार खुद से बात अवश्य करों......नहीं तो आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने से चूक जाओंगे।

मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढी से मेरे कार्यकर्ता आ जायेगें। काम, काम, काम बस यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिये।

पृथ्वी का आनंद नायकों द्वारा लिया जाता हैं ये अमोघ सत्य हैं। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है।

महसूस करो कि तुम महान हो और तुम महान बन जाओगें। मेरी भविष्य की आशाएँ युवाओं के चरित्र, बुद्धिमत्ता, दूसरों की सेवा के लिए सभी का त्याग और आज्ञाकारिता खुद को और बड़े पैमाने पर देश के लिए अच्छा करने वालों पर निर्भर है।

मृत्यु तो निश्चित हैं, एक अच्छे काम के लिये मरना सबसे बेहतर हैं। हमारे देश को नायकों की जरुरत हैं, नायक बनों, तुम्हारा कर्तव्य हैं काम करते जाओ और फिर सभी तुम्हारा खुद अनुसरण करेंगे। स्वामी विवेकानंद

उठो, जागों और जब तक मत रुकों तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हों। आप भगवान में जब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद में विश्वास नहीं करते। जब एक विचार यदि मन में आये तो ये वास्तविक शारीरिक या मानसिक स्थिति में तब्दील हो जाता है। युवाओं के बीच काम करना सबसे अच्छा हैं जिनमें तुम्हारी आशाएँ रहती हैं झ धैर्य, व्यवस्थित रुप से और बिना शोर के। एक बच्चा इंसान का पिता होता हैं । एक बूढे. आदमी के लिये ये कहना कहा तक उचित हैं कि बचपन पाप हैं या युवा अवस्था पाप है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय

युवा नीति 2014

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिलहाल लागू राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के शुभरंभ की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उसके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति में पांच भली-भांति परिभाषित उदेश्यों और प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र में नीति के लिए भी सुझाव दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली, खेल, सामाजिक मूल्यों का संवर्द्धन, समुदाय से जोड़ना, रानीति एवं शासन में भागीदारी, युवाओं को संलग्न करना, समावेश और सामाजिक न्याय शामिल हैं। यह नीति 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवाओं की जरूरतें पूरी करेगी जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 27.5 प्रतिशत हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिलहाल लागू राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के शुभरंभ की आज मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उसके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति में पांच भली-भांति परिभाषित उदेश्यों और प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र में नीति के लिए भी सुझाव दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली, खेल, सामाजिक मूल्यों का संवर्द्धन, समुदाय से जोड़ना, रानीति एवं शासन में भागीदारी, युवाओं को संलग्न करना, समावेश और सामाजिक न्याय शामिल हैं। यह नीति 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवाओं की जरूरतें पूरी करेगी जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 27.5 प्रतिशत हैं। युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ-साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशों से अधिक है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के माध्यम से विकास लाने पर केन्द्रित है। उनके अनुसार युवा देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें न कि केवल उसका एक हिस्सा बनकर रह जाएँ। सरकार द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय युवा नीति-2014 का उदेश्य युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उसके अनुसार उन्हें अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और इसके माध्यम से विश्वभर में भारत को उसका सही स्थान दिलाना है। युवाओं के व्यक्तित्व में सुधार लाने, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने एवं उनमें ज़िम्मेदार नागरिक के गुण और स्वयंसेवा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से युवा मामले विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वयित किया है। राष्ट्रीय युवा नीति-2014 की विषयवस्तु एवं युवा मामले विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(चीफ सब एडिटर खबर मन्त्र)

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह
स्वामित्व वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह
द्वारा चिरौंदी, बोड़ेया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 95708-48433
पिनः -834006
e-mail
khabarmantra.city@gmail.com
R.N.I No.
JHAHIN/2013/51797
*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

मंधाना-प्रतिका की धमाकेदार शतक, भारतीय क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, वनडे में बनाया सबसे बड़ा स्कोर

भारत की बेटियों ने किया आयरलैंड का साफ सूपड़ा

- भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को 304 रनों से हराया
- स्मृति मंधाना ने सिर्फ 70 गेंद में पूरा किया शतक
- वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना के नाम 10वां शतक
- प्रतिका रावल ने भी खेली 154 रनों की दमदार पारी

प्रतिका ने भी मचाई धूम आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मंधाना के अलावा प्रतिका रावल ने भी अपनी दमदार बैटिंग से धूम मचा दी। पिछले साल टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाली प्रतिका आयरलैंड के खिलाफ कहर बनकर टूटी है। तीसरे वनडे मैच में प्रतिका ने 154 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपनी इस पारी में प्रतिका ने 129 गेंद का सामना करते हुए 20 चौके और 1 सिक्स भी लगाईं।

महिला वनडे में भारत-महिला की सबसे बड़ी जीत

- 304 रन vs आयरलैंड, राजकोट, 2025
- 249 रन vs आयरलैंड, पोटचेफस्ट्रूम, 2017
- 211 रन vs वेस्टइंडीज, वडोदरा, 2024
- 207 रन vs पाकिस्तान, दांबुला, 2008
- 193 रन vs पाकिस्तान, कराची, 2005

भारत का सबसे बड़ा वनडे स्कोर

भारतीय महिला टीम ने स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के शतकों से वनडे इतिहास का अपना सर्वोच्च स्कोर बना डाला है। राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारत ने 50 ओवर में पांच विकेट पर 435 रन बनाए जो उसका इस प्रारूप में सर्वोच्च टोटल है। इससे पहले टीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पांच विकेट पर 370 रन बनाए थे जो उसका सर्वोच्च टोटल था, लेकिन अगले ही मैच में टीम ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम वनडे में 400 रन के स्कोर को पार कर सकी है।

एजेंसी

राजकोट। भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में 304 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने इस सीरीज में 3-0 से आयरलैंड का सूपड़ा साफ कर दिया। इससे पहले टीम इंडिया ने दूसरा वनडे 116 रन और पहला मुकाबला छह विकेट से जीता था। बुधवार को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रतिका रावल (154) और स्मृति मंधाना (135) की दमदार पारियों की बदौलत 50 ओवर में पांच विकेट पर 435 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 31.4 ओवर में 131 रन ऑलआउट हो गई।

आयरलैंड पर भारत की सबसे बड़ी जीत

आयरलैंड को भारत ने 304 रन से हराकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महिला वनडे में यह भारतीय टीम की रनो के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने पोचेफस्ट्रूम में आयरलैंड को 249 रन से हराया था। यह मुकाबला 2017 में खेला गया था।

आयरलैंड को 304 रन से हराया

महिला क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम 300 से ज्यादा रन से जीत दर्ज करने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के अलावा नीदरलैंड ने 300 से ज्यादा रन से जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड के नाम सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है। उसने पाकिस्तान को 408 रन से हराया था। न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज्यादा बार 300 से ज्यादा रन से जीती है। उसने 4 बार ऐसा किया है। आस्ट्रेलिया ने 2 बार ऐसा किया है।

भारत की पारी

भारत को मंधाना और प्रतिका ने दमदार शुरूआत दिलाई और दोनों ने शतक जड़े। प्रतिका का वनडे करियर का यह पहला शतक है। इससे पहले अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी शतकीय पारी खेली थी। प्रतिका 129 गेंदों पर 20 चौकों और एक छक्के की मदद से 154 रन बनाकर आउट हुईं। भारत के लिए मंधाना और प्रतिका के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 42 गेंदों पर 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 59 रन की पारी खेली। इनके अलावा तेजल हसबनिस ने 28 रन और हरलीन देओल ने 15 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 11 और जेमिमा रोड्रिग्ज चार बनाकर नाबाद रहे। आयरलैंड की ओर से ओरला प्रेंडरगास्ट ने दो विकेट झटके, जबकि आरलेने केली, फ्रेया सरगेंट और जॉर्जिना डेंपसे को एक-एक विकेट मिला। भारत को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा जो शतक लगाकर आउट हुईं। ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने मंधाना को आउट कर टीम को सफलता दिलाई। मंधाना 80 गेंदों पर 12 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुईं। इसके साथ ही मंधाना और प्रतिका रावल के बीच पहले विकेट के लिए 233 रनों की साझेदारी का अंत हो गया। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज मंधाना ने शतकीय पारी खेली। मंधाना ने महज 70 गेंदों पर शतक लगाया जो भारत के लिए महिला क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया सबसे तेज शतक है। मंधाना ने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा जिन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों पर शतक जमाया था।

आयरलैंड की पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम इस मुकाबले में भी फ्लॉप रही। टीम को पहला झटका तीसरे ओवर में लगा। तितास साधू ने कप्तान गैबी लेविस को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह सिर्फ एक रन बना सकीं। इसके बाद सायली सतघरे ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं क्रिस्टिना कोल्टर रेली को बोल्ड किया। वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं।

मंधाना वनडे में हरमनप्रीत का रिकॉर्ड तोड़ा

कप्तान स्मृति मंधाना बुधवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में केवल 70 गेंद पर शतक पूरा करके खेल के इस प्रारूप में सबसे तेज सैकड़ा जड़ने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व कर रही इस सलामी बल्लेबाज ने ओर्ला प्रेंडरगैस्ट की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर कैच थमाने से पहले 80 गेंद पर 135 रन बनाए जिसमें 12 चौके और सात छक्के शामिल हैं। मंधाना ने सबसे तेज शतक लगाने का हरमनप्रीत का पिछला भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत ने पिछले साल बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों में शतक बनाया था।

कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में

एजेंसी

वड़ोदरा। अभिलाष शेट्टी (चार विकेट) की बेहरीन गेंदबाजी के बाद देवदत्त पड़िक्कल (86) और आर स्मरण (76) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत कर्नाटक ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा को पांच विकेट से हराकर टूनार्मेंट के फाइनल में जगह बना ली हैं। हरियाणा के 237 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की शुरूआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में कप्तान मयंक अग्रवाल (चार) का विकेट गवां दिया। इसके बाद बल्लेबाज करने आये के वी अनीश ने देवदत्त पड़िक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिये 62 रन जोड़े। 16वें ओवर में अमित राणा ने अनीश (22) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। निशांत सिंधु ने देवदत्त पड़िक्कल को आउट किया। पडिक्कल ने 113 गेंदों में आठ चौके और एक छक्का लगाते हुए (86) रन बनाये। चौथे विकेट के रूप में कृष्णन श्रीजीत (तीन) रन बनाकर आउट हुये। 46वें ओवर में निशांत सिंधु ने आर स्मरण को बोल्ड कर कर्नाटक को पांचवां झटका दिया। आर स्मरण ने 94 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्को की मदद से (76) रनों की पारी खेली। श्रेयस गोपाल (22) और अभिनव मनोहर (दो) रन बनाकर नाबाद रहे। कर्नाटक ने 47.2 ओवर में 238 रन बनाकर हरियाणा को पांच विकेट से हराकर टूनार्मेंट के फाइनल में जगह बना ली हैं।

रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम से जुड़े जायसवाल, रहाणे के साथ किया अभ्यास

मुंबई। यशस्वी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने एक शतकीय और दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अब वह घरेलू क्रिकेट में वापसी करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने एमसीए को दे दी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल ने सुबह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में ओपन नेट सत्र में बल्लेबाजी का अभ्यास किया। उनके अलावा अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने भी बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक में अगर मुक्केबाजी शामिल होती है तो मैं हिस्सा लूंगा : निशांत देव

एजेंसी

नयी दिल्ली। पेशेवर सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तैयार भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने कहा कि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि ओलंपिक पदक के लिए उनकी कोशिश खत्म हो जाएगी इसलिये अगर यह खेल 2028 लॉस एंजिलिस में बना रहता है तो वह इसमें शिरकत करेंगे। निशांत ने पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में मिली करीबी हार और ओलंपिक में मुक्केबाजी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण पेशेवर बनने का फैसला किया। हालांकि वह लॉस एंजिलिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। 2023 विश्व चैंपियनशिप में लाइट मिडिलवेट (71 किग्रा) में कांस्य पदक जीतने वाले इस मुक्केबाज ने एडी हर्न की मैचरूम बॉक्सिंग से करार किया है। उनकी पहली पेशेवर बाउट 25 जनवरी को लॉस एंजिलिस में होगी। देव लॉस एंजिलिस में पेशेवर मुक्केबाज रोनाल्ड सिम्स की देखरेख में अपना मुक्केबाजी कौशल निखार रहे हैं। उन्होंने लॉस एंजिलिस से कहा, मैं ओलंपिक में खेलने का अपना सपना पूरा करना चाहता था जो मैं कर चुका हूं। लेकिन अब मैं पेशेवर मुक्केबाजी में खेलने के अपने दूसरे सपने को पूरा करना चाहता हूं। देव को अब भी पेरिस ओलंपिक में मिली करीबी हार सालती है जिसमें वह मेक्सिको के मार्को वर्डे से विवादास्पद क्वार्टरफाइनल हार गये थे। उन्होंने कहा, मैं टूट गया था। इतने बड़े मंच पर इस तरह का झटका चुनौतीपूर्ण था। ओलंपिक में मुक्केबाजी के भविष्य की अनिश्चितता इस निराशा को और भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, ह्यअभी तक मुक्केबाजी की ओलंपिक के लिए पुष्टि नहीं की गई है।

सूरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराया

रांची। सूरमा हॉकी क्लब ने महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में अपनी मजबूत शुरूआत जारी रखते हुए रांची के मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में बुधवार को ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराया।

जोकोविच ने बनाया सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम मैच खेलने का नया रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का है रिकॉर्ड

जोकोविच के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। पुरुषों में वह इस मामले में राफेल नडाल (22) और फेडरर (20) से आगे हैं। 37 वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा समय तक रैंकिंग में शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में अबतक 37 ग्रैंडस्लैम फाइनल खेले हैं जो फेडरर के मुकाबले छह ज्यादा हैं। अगर जोकोविच आस्ट्रेलियन ओपन जीतने में सफल रहे तो यह उनका 25वां ग्रैंडस्लैम खिताब होगा। यह ऐसा आंकड़ा है जिसे अबतक कोई भी पुरुष या महिला टेनिस खिलाड़ी हासिल नहीं कर सका है। जोकोविच का यह 11वां आस्ट्रेलियन ओपन खिताब हो सकता है। अगर वह ऐसा करने में सफल रहे तो सर्वाधिक बार आस्ट्रेलियन ओपन जीतने के मामले में मार्गेट कोर्ट की बराबरी कर लेंगे। इतना ही नहीं यह जोकोविच का 100वां टूर लेवल खिताब हो सकता है।

जोकोविच ने जीते हैं 89.2 प्रतिशत मैच

जोकोविच का यह 430वां ग्रैंडस्लैम मुकाबला था और वह फेडरर से आगे निकलने में सफल रहे जिन्होंने अपने करियर में 429 ग्रैंडस्लैम मुकाबले खेले हैं। जोकोविच ने अपने करियर में 379 ग्रैंडस्लैम मैच जीत लिए हैं और उनका जीत का प्रतिशत 89 .2 है जो सभी से बेहतर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जीत के साथ ही जोकोविच ने ग्रैंडस्लैम में अपने जीत हार का रिकॉर्ड 379-51 कर लिया है।

एजेंसी

मेलबर्न। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वर्ष के पहले ग्रैंडस्लैम के दौरान स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आस्ट्रेलियन ओपन में अपने 11वें खिताब की तलाश में उतरे जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 24 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता जोकोविच ने 21 साल के पुर्तगाल के जैमी फरिया को चार सेटों में हराया और अगले दौर में जगह बनाई है।

आस्ट्रेलियन ओपन में प्रभावित नहीं कर सकी युकी-ओलिवेटी की जोड़ी

मेलबर्न। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी बुधवार को पहले दौर में स्थानीय ट्रिस्टन स्कूलकेट और एडम वाल्टन की जोड़ी से हारकर आस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल स्पर्धा से बाहर हो गए। एक घंटा 20 मिनट तक चले मुकाबले में भांबरी और ओलिवेटी आस्ट्रेलियाई वाइल्डकार्ड जोड़ी के खिलाफ सीधे सेटों में 6-2, 7(7)-6(3) से हार गए।

ओसाका, पेगुला, एंड्रीवा जीत दर्ज की

मेलबर्न। आस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दिन बुधवार को जापान की नीओमी ओसाका, अमेरिका की जेसिका पेगुला और रूस की मीरा एंड्रीवा ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। बुधवार को खेले गये मुकाबले में नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा पर 1-6, 6-1, 6-3 से जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई।

मानेरो को हराकर सबालेंका तीसरे दौर में पहुंची

मेलबर्न। गत चैंपियन आर्यना सबालेंका ने बुधवार को जेसिका बौजास मानेरो को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। बुधवार को खेले गये मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त और लगातार तीसरे खिताब की प्रबल दावेदार सबालेंका ने अपनी स्पेनिश प्रतिद्वंद्वी मानेरो से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बेलारूसी खिलाड़ी ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की और मानेरो को 6-3, 7-5 से हराया।

अल्काराज तीसरे दौर में

मेलबर्न। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने बुधवार को जापान के योशिहितो निशिओका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्पेन के विश्व नंबर दो खिलाड़ी अल्काराज ने दूसरे दौर में सटीकता, शक्ति और गति के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 81 मिनट में जापानी खिलाड़ी निशिओका को 6-0, 6-1, 6-4 से हराया।

पेरू को हराकर भारत खो-खो विश्व कप के क्वाफा में

नयी दिल्ली। भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को पेरू पर 70-38 से जीत दर्ज कर खो खो विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे खो खो टूनार्मेंट में भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए पेरु को हराया। भारतीय टीम ने पहले टर्न के शुरूआती चरणों में दबदबा बनाया, हालांकि पेरू ने दूसरे टर्न में थोड़े समय के लिए रक्षात्मक स्टैंड के साथ प्रदर्शन किया। भारत ने पहले राउंड को प्रभावशाली 36 अंकों के साथ समाप्त किया।

भारतीय महिला टीम ईरान को हराकर क्वाफा में

नयी दिल्ली। दक्षिण कोरिया को 175-18 के अंतर से ऐतिहासिक शिकस्त देने के एक दिन बाद भारतीय महिला खो खो टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को ईरान को 84 अंकों से भारी भरकम अंतर से हराकर खो खो विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने दिखाया कि वे क्यों खिताब की दावेदार है। इस टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 100-16 का स्कोर बनाकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए शुरूआती सेकंड से ही दबदबा बनाए रखा। मैच की शुरूआत भारत की ट्रेडमार्क आक्रामक शुरूआत के साथ हुई, क्योंकि उन्होंने 33 सेकंड के भीतर ईरान के पहले बैच को बाहर कर दिया। अश्विनी ने आक्रमण की अगुआई की, जबकि मीनू ने कई टच पॉइंट के साथ अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, जिससे भारत को पहले टर्न में प्रभावशाली 50 अंक हासिल करने में मदद मिली।

फुटसल एशियाई कप में भारतीय टीम हांगकांग से हारी

योग्यकार्ता (इंडोनेशिया)। अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय महिला फुटसल टीम का बुधवार को एएफसी महिला फुटसल एशिया कप 2025 के लिए ग्रुप बी क्वालीफायर मुकाबले में हांगकांग से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। योग्यकार्ता के अमंग रोगो स्पोर्ट्स हॉल में खेले गये मुकाबले में हांगकांग के लिए च्युंग वाइ की ने (13वें, 23वें, 40वें) मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनायी और वाइ यूएन टिंग ने (27वें) मिनट तथा कुंग यूएट चारिस ने (35वें) मिनट में किये गोल की बदौलत हांगकांग ने भारतीय टीम के खिलाफ जीत दर्ज की।

डीसी ने किया स्वतंत्रता सेनानी स्व. कौशल कुमार ठाकुर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन

खबर मन्त्र संवाददाता

मेराल। प्रखंड मुख्यालय स्थित हाईस्कूल के स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानी स्व. कौशल कुमार ठाकुर क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का उद्घाटन डीसी शेखर जमुआर ने फीता काटकर एवं बैटिंग कर किया। उद्घाटन मैच खेल रहे परिहारा एवं अंजुमन शाने वतन पेशका टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद संबोधित करते हुए डीसी श्री जमुआर ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल जगत में आज झारखंड की पहचान महेंद्र सिंह धोनी के नाम लेने से मिलता है। वहीं 18 वर्षीय डी गुकेश ने चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनकर 13 करोड रुपए जीतने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में प्रतिभा निखारने की जरूरत है। वैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार के द्वारा भी खेलो गढ़वा के तहत सरकारी सहयोग देने का प्रावधान है। उन्होंने लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कराने वाले समिति के लोगों से जिला में रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव दिया। बताया कि उनके द्वारा गढ़वा जिला में नीति आयोग के तहत 73 खेल मैदान का निर्माण कराया गया है। उन्होंने मेराल प्रखंड में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन के लिए

उद्घाटन करते डीसी

आयोजन समिति के सदस्यों की सराहना की। इसके पूर्व टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष अतहर अली, उपाध्यक्ष विनोद प्रसाद, संरक्षक सूर्य प्रकाश, अजय प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र गोस्वामी, जफीर अंसारी, रेयाज अंसारी आदि ने डीसी को शॉल एवं बुके देकर स्वागत किया। इस टूर्नामेंट आयोजन में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक एवं झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम ख़ां, प्रखंड प्रमुख दीप माला कुमारी ने भी खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाते हुए टूर्नामेंट के आयोजन की सराहना की।

परिहारा ने चार विकेट से जीता मैच : स्व. कौशल कुमार ठाकुर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच परिहारा की टीम ने चार विकेट से जीत लिया।

टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। बैटिंग करने उतरी पेशका की टीम ने निर्धारित 11 ओवर एक बाल में 89 रन बनाई। जवाबी पारी खेलने उतरी परिहार के टीम ने 8 ओवर 3 बॉल पर सात विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। पीयूष कुमार को दो विकेट और 29 रन बनाने पर सलीम ऑटो सेंटर के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी विष्णुकांत, झामुमो नेता संजय भगत, प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष सूर्य प्रकाश, विनोद प्रसाद, प्रमोद महाजन, अजय प्रसाद गुप्ता, जफीर अंसारी, मुखिया पति मुन्ना राम, सुरेंद्र गोस्वामी, रेयाज अंसारी, कामेश्वर सिंह, नवीन जायसवाल, नाथून राम, ग्यासुद्दीन अंसारी, शमीम रंगसाज सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

शिव मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों ने किया भूमि पूजन

भूमि पूजन करते ग्रामीण

खबर मन्त्र संवाददाता

रमना। प्रखंड के करचा गांव में नव प्राथमिक विद्यालय करचा के समीप शिव मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों ने भूमि पूजन किया। यह मंदिर निर्माण ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से करने का निर्णय लिया है। भूमि पूजन पंडित संजय पाठक व यजमान सीताराम साव व शांति देवी ने किया। भूमि पूजन के बाद ग्रामीणों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मंदिर निर्माण के लिए बने कमेटी में रामचंद्र वियार को अध्यक्ष, विरेंद्र वियार को सचिव एवं गुड्डू वियार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं विजय सिंह, मोती साव, शर्मा वियार, कमलेश विश्वकर्मा, शक्ति वियार, बबलु वियार, जगदीश वियार, जयराम वियार एवं विनय पहाड़ियां आदि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व उपमुखिया सीता देवी, नागेंद्र विश्वकर्मा, महेंद्र वियार, रमेश राम, योगेन्द्र ठाकुर, सुजीत कुमार गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, प्यारी वियार, सविता देवी, राजपती देवी, रिंकी देवी, सत्यवंती देवी, देवंती देवी एवं रिता देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

बिना हेलमेट वाहन चालकों को दी गयी सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले के विभिन्न थानों से पकडे गए बिना हेलमेट वाहन चालकों के बीच सडक सुरक्षा से सम्बंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हिट एंड रन स्कीम एवं गुड समरीटन के बारे में जागरूक किया गया।

मौके पर सडक सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 2025 में इस प्रकार के आयोजनों से वैसे स्थान जहां भीड़-भाड़ वाले हाट, बाजार लगते हैं, को चिन्हित कर विभिन्न प्रकार से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है एवं सबको हिट एंड रन तथा गुड समेरिटन पलिसी 2020 के बारे में जानकारी दी जा रही है। जागरूकता अभियान में बताया गया कि समाज के बीच के दायरे को कम करने के उद्देश्य से इस प्रकार का आयोजन बहुत

जानकारी देते पदाधिकारी

जरूरी है। गोल्डन आवर में किसी भी दुर्घटना पीड़ित को बचाने में सोचें नहीं, पुलिस कभी भी आपको किसी की मदद करने के लिए परेशान नहीं कर सकती है। ऐसा गुड समेरिटन पलिसी 2020 के द्वारा आपको हक् मिलता है, जिससे पुलिस और अस्पताल आपसे अनावश्यक पूछताछ नहीं कर सकती है और किसी भी प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं से आप मुक्त रहेंगे। गुड समेरिटन पॉलिसी 2020 के तहत किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर रुपए 2000 से रुपए 5000 तक से आपको सम्मानित किया जाता है। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हेलमेट हमेशा पहन कर चलेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, तो ही आने वाली दुर्घटना को आप टाल सकते हैं। दुर्घटना में सिर ही वैसा अंग है जिसका इलाज़ संभव नहीं है, इसलिए अपने सिर को बचाने के लिए जब भी गाड़ी को चलाने या गाड़ी में बैठने का मौका मिले हेलमेट का उपयोग में बहाना ना बनाये। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

अंचलाधिकारी ने लगाया राजस्व शिविर

भागलपुर। जिले के सन्हौला प्रखंड के अमडंडा पंचायत में जनता की सुविधा के लिए अंचलाधिकारी रजनीश चन्द्र राय के द्वारा बुधवार को एक दिवसीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में परिमार्जन, आधार सीडिंग, लगान अपडेट और अन्य राजस्व से संबंधित कार्य किए गए। पंचायत के अधिकारी और राजस्व कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहकर सभी कार्यों को सरल और सुलभ बनाने के लिए तत्पर दिखे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना था। मौके पर आए लोगों ने अपने भूमि से संबंधित दस्तावेजों का परिमार्जन कराया, आधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा किया और लगान अपडेट करवाया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों से उन्हें समय और धन की बचत होती है और सरकारी सेवाओं का लाभ लेना सरल हो जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल का शुभारंभ

उद्घाटन करते अतिथि

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। भवनाथपुर-खरौंधी रोड अवस्थित स्व. गणेश साह के मकान में बुवार को ड भीमराव अंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल का शुभारंभ किया गया। जिसका उद्घघाटन झामुमो प्रखंड अयक्ष मनोज प्रसाद यादव एवं शैलेंद्र यादव ने संयुक्त रूप मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर किया। मौके पर मनोज प्रसाद यादव ने कहा कि ड भीमराव अंबेडकर पब्लिक एकेडमिक स्कूल भवनाथपुर के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इतिहास रचेगी। भवनाथपुर में ऐसे स्कूल की जरूरत थी। जहां से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और जिले के साथ साथ अपने अभिभावक एवं देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने की शुभकामना दिया। मौके पर स्कूल के एचएम राहुल सिंह, शिक्षिका खुशी चंद्रा, अनुराग रानी, झामुमो जिला उपायक्ष लल्लू राम, असमुद्दीन अंसारी, विजय राउत, सलाहुद्दीन अंसारी, बूटा सिंह, इलियास अंसारी, प्रयाग राउत, राजकुमार राउत, गुलाब यादव आदि उपस्थित थे।

विधायक ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की

खबर मन्त्र संवाददाता

धुरकी। थाना क्षेत्र अंतर्गत मिरचैया गांव निवासी मुकलेश कोरवा की पिछले दिनों डोभा में गिरने से मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव मृतक के घर पहुंच कर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। साथ ही बीडीओ सह सीओ जुल्फिकार अंसारी से संपर्क कर सरकारी प्रावधान के तहत सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदना उनके परिवार वालों के साथ है यह बहुत दुखद घटना है। विधायक ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी दलित पिछड़ा हुआ अल्पसंख्यक के दुख सुख में शामिल रहता है। उन्होंने गहरा दुख प्रकट कर परिजनों को ढांढस बनाया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार यादव, जानकी सिंह, उपेन्द्र सिंह, अमरनाथ यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

मुखिया के ससुर का निधन

भवनाथपुर। अरसली उतरी पंचायत के मुखिया नुसरत जहां के ससुर सह समाजसेवी तासवीन अंसारी के पिता रोज मोहम्मद अंसारी 78 वर्ष का निधन मंगलवार की रात हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी निधन की सूचना मिलते ही भाजपा नेता राजा सिंह, दिनेश सिंह झामुमो जिला उपाध्यक्ष लल्लू राम, प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव, अख्तर अंसारी, असमुद्दीन अंसारी, एलियास अंसारी, ऐनुल अंसारी आदि ने मृतक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया।

शहीद कमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर संकल्प मार्च

महेंद्र सिंह की फाइल फोटो

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 20वें शहादत दिवस पर 16 जनवरी दिन गुरूवार को संकल्प मार्च जिले के गढ़वा, भवनाथपुर, धुरकी सहित विभिन्न जगहों पर निकाला जाएगा। गढ़वा में संकल्प मार्च दानरो नदी टेम्पो स्टैंड से प्रखंड परिसर तक जाएगा, तत्पश्चात संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए माले नेता कालीचरण मेहता ने बताया कि केतार, खरौंधी, भवनाथपुर प्रखंड के सभी साथी संयुक्त रूप से भवनाथपुर में संकल्प सभा आयोजित कर अपने नेता शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करेंगे। साथ ही सगमा व धुरकी के साथी धुरकी में कार्यक्रम को सम्पन्न करेंगे। माले कार्यकर्ता जोहार झारखंड अभियान के तहत जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए कार्पोरेट लूट के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लेंगे।

सतबहिनी झरना तीर्थ के विराट मेले में दूसरे दिन भी उमड़ते रहे पर्यटक

खबर मन्त्र संवाददाता

कांडी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतबहिनी झरना तीर्थ में मकर संक्रांति के अवसर पर वर्ष के चौथे मेला के दूसरे दिन भी श्रद्धालु पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रही। मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के तत्वावधान में सदियों से लग रहे एक दिन के मेले को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिए जाने के बाद 25वें साल भी मकर संक्रांति के दूसरे दिन के मेले में भारी भीड़ देखी गई। इसमें स्थानीय 100 गांव के साथ झारखंड के कई जिले एवं देश के कई राज्यों के पर्यटक शामिल थे।

कड़ाके की ठंड एवं कोहरे की चादर छाई रहने के बावजूद अहले सुबह से ही लोगों को मनोरम झरना में स्नान करते देखा गया। दिन चढ़ने के बाद जब थोड़ी धूंधं छंटी तो यह संख्या रैला के रूप में सतबहिनी पहुंचने लगी। स्नान के बाद लोगों को सतबहिनी में स्थित नौ मंदिरों की श्रृंखला में पूजा अर्चना करते

मेला में लगी भीड़

देखा गया। वहीं काफी संख्या में लोगों को तिल, चावल व चूड़ा पैसे के साथ दान करते भी देखा गया। जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग सतबहिनी भगवती मंदिर के सामने श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते रहे। इधर मेले में प्रसाद, पूजन सामग्री, मिठाई, होटल, चाट, चाउमीन, खिलौना, रेडीमेड, लौह निर्मित सामग्री, काष्ठ निर्मित सामग्री, फोटोग्राफी, फोटो सहित सैकड़ों तरह की हजारों की संख्या में दुकानें सजी हैं। जिन पर लाखों लोग देर शाम तक खरीदारी करते रहे। इधर सतबहिनी विकास समिति के स्वयंसेवकों को मेले की व्यवस्था को सफल बनाने में काफी मशक्कत करते देखा गया।

जबकि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तीन दंडाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी अविनाश राज पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। जबकि पर्यटकों को स्नान, पूजा, मेले में खरीदारी के साथ-साथ सतबहिनी की मनोहारी छटा एवं खूबसूरत वादियों में भ्रमण करते देखा गया। काफी संख्या में लोगों ने कहा कि अनेक जगह उन्होंने भ्रमण एवं दर्शन पूजन किया है। लेकिन सतबहिनी झरना तीर्थ से रमणीक एवं खुला-खुला जगह कहीं नहीं है। वे अब बार-बार सतबहिनी आने का प्रयास करेंगे। संचालक दिलीप कुमार पांडेय ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के तत्वावधान में आम जनों के द्वारा 25वें मानस महायज्ञ का आयोजन 13 से 23 फरवरी तक किया जाएगा।

इस दौरान 13 फरवरी को सतबहिनी झरना तीर्थ की विराट कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर सतबहिनी से निकली हुई कलश यात्रा दर्जनों गांवों का भ्रमण करते हुए कोयल एवं बायीं बांकी नदी के संगम श्री बजरंगबली मंदिर के सामने जाएगी।

संगम पर अभिमंत्रित जल भर कर सतबहिनी की पक्की यज्ञशाला में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान हजारों कलश यात्री सैकड़ो वाहनों पर सवार होकर कलश यात्रा में जाना आना करेंगे। संचालक ने सभी पर्यटकों से मानस महायज्ञ की रजत जयंती में भाग लेने की अपील की।

खबर एक नजर में

विशेष सर्वेक्षण अमीन रजनीश कुमार एवं विशाल गुप्ता पर डीएम ने दिए करवाई के आदेश

पूर्णिया। पूर्णिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने दो सर्वेक्षण अमीनो पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार रजनीश कुमार एवं विशाल कुमार गुप्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन, कसबा के द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के दौरान कुल्लाखास राजस्व ग्राम हल्का अंतर्गत ललहरिया गाँव में रैयतों से अवैध वसूली एवं रैयतों द्वारा इसका विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने पर कार्रवाई की है। जिलादाधिकारी ने इस मामले में अविलंब बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्णिया को इसकी जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।जिला पदाधिकारी ने बताया कि दोनों विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किया गया यह कृत्य बिल्कुल अस्वीकार्य, निंदनीय एवं कार्य के उचित एवं समयबद्ध निष्पादन में बाधक एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के विपरित है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि विशेष सर्वेक्षण का उद्देश्य भू विवाद को खत्म करना है। सरकार के इस उद्देश्य के प्रतिपूर्ति में बाधक बनने वाले तथा भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी कर्मी को बक्शा नहीं जाएगा।

2025 के बिहार विस चुनाव में 225 सीटों पर जीत दर्ज करेगा एनडीए: जयंत

पटना। मंत्री जयंत राज ने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में 2010 के रिकॉर्ड को तोड़कर 2025 में 225 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि राजद इस बार 22 सीटों के अंदर ही सिमटने वाली है। मंत्री जयंत राज ने बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बगहा जिले से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरूआत हो चुकी है, जिससे हमारे कार्यकताओं में अपार उत्साह का माहौल है। एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से तमाम जिलों को खासा लाभ हो रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित तकरीबन 37 शिक्षकों का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद हम लोग उनकी भी ट्रांसफर-पोस्टिंग करेंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी।

16 जनवरी से व्यवहार न्यायालयकर्मियों का राज्यव्यापी अनिश्चित कालीन कलमबंद हड़ताल

पूर्णिया। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में 16 जनवरी से समस्त बिहार के व्यवहार न्यायालयकर्मी कलमबंद अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेंगे। राज्य सरकार और पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय कर्मियों की चार सूत्री मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिये जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के पूर्णियाँ शाखा ने भी सभी कर्मचारियां की सहमति से निर्णय लिया कि वे इस अनिश्चित कालीन हड़ताल में पूर्णतः सम्मिलित रहेंगे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के पूर्णियाँ शाखा के कार्यकारी सचिव अभिषेक भारती ने बताया कि पिछले कई वर्षों से व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों मांगों को लेकर पटना उच्च न्यायालय से लेकर बिहार सरकार का दरवाजा खटखटाया लेकिन न्याय के मंदिर में सेवा देने वाले कर्मचारियों को दशकों से स्नातक स्तर का वेतनमान व प्रोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की कालबद्ध प्रोन्नति और विशेष राज्य न्यायिक कर्मचारी व अधिकारी कैडर का निर्माण आदि में कोई कार्रवाई नहीं कि गई। नतीजतन न्याय के मंदिर में ही न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों की पूर्ति तक हड़ताल पर जाने को विवश हो गये है।

राहुल गांधी की कार्यक्रम की सफलता को ले कांग्रेस कमेटी ने की बैठक

नवादा। जिला कांग्रेस कार्यालय नवादा में बुधवार को जिला अध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ मनटन सिंह के नेतृत्व में जननायक राहुल गांधी के पटना आगमन संविधान बचाओ रैली एवं कार्यकर्ता मीटिंग में नवादा की महत्वपूर्ण सहभागिता को लेकर बैठक की गई, जिसमें तमाम प्रखंड अध्यक्षों ने भाग लिया। जिला कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुये। कार्यक्रम को सफल बनाने मैं नवादा की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसका निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष ने तमाम प्रखंड अध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रखंड से भारी संख्या बल ले जाने का काम करें और जिला अध्यक्ष के हाथ को मजबूत करें।

लंबित मामलो का करे त्वरित निपटारा: डीआईजी

पूर्वी चंपारण। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी हरकिशोर राय ने पुलिस कार्यो को बेहतर बनाने को लेकर मोतिहारी में समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान डीआईजी राय ने सभी पुलिस पदाधिकारियो को लंबित मामलों के त्वरित निपटारे करने निर्देश देते कहा कि नये कानूनो के बारे में लोगो को जागरूक बनाने व उन्हे त्वतरित समाधान के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा व्यापक अभियान शुरू किया जायेगा। उन्होने कहा कि पुलिसकर्मियों को मोबाइल और लैपटॉप दिये जा रहे हैं। ऐसे में जांच प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए निर्धारित समय सीमा में हर मामले का समाधान करें।

बैंकों के शाखा प्रबंधक के साथ एलडीएम व आरबीआइ पटना के अधिकारी ने की बैठक

बेतिया। पश्चिम चंपारण ज़िला में स्थित नौतन प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंकों के साथ प्रबंधकों की एलबीसी बैठक एलडीएम सतीश कुमार व आरबीआइ पटना से आये अधिकारी मलय रंजन की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मदों में बैंकों से दी गई ऋण की वसूली को लेकर चर्चा हुई। एलडीएम ने कहा कि बकायेदारों से ऋण वसूली को लेकर स्थानीय थाने की भी मदद ली जाएगी। इसके लिए सभी थानों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। आरबीआई अधिकारी मलय रंजन ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि इस ऋण वसूली में सभी शाखा प्रबंधक अपना सहयोग करें, ताकि देश व राज्य के विकाश कार्यों को गति मिल सके।

नेपाल पुलिस ने तीन लाख से अधिक का प्रतिबंधित दवा किया जब्त

अररिया। बिहार में नेपाल की सीम से सटे जोगबनी के मटियरवा बॉर्डर होकर नेपाल तस्करी कर ले जाए जा रहे तीन लाख से अधिक मूल्य के नेपाल में प्रतिबंधित दवाओं को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने बुधवार को जब्त किया। तस्कर चीनी के बोरे में छिपाकर तस्करी कर मटियरवा बॉर्डर से नोमैंस लैंड एरिया पहुंचा ही था कि नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने चीनी के बोरे में छिपाकर रखे प्रतिबंधित दवाओं को जब्त कर लिया। जबकि मौके से तस्कर भागने में कामयाब रहे। यह कार्रवाई प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी की टीम के द्वारा की गई। नेपाल में प्रतिबंधित जब्त दवा की कीमत तीन लाख से अधिक भारतीय करेंसी में बताई जाती है। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी के प्रमुख डीएसपी ऋषिकेश राउत के अनुसार नेपाल भारत सीमा मे तस्करों के द्वारा चीनी के बोरा के अंदर घरेलू कार्य मे प्रयोग होने वाले खाद्यान्न सामग्री के तरह पेकिंग कर भारत सीमा से नेपाल सीमा मे प्रवेश कर रहा था।

भाजपा-संघ के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं : राहुल

नेता प्रतिपक्ष बोले, भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद यह दावा भी किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है।

राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गलत हुआ है। हम चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असहज हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक करीब एक करोड़ नये मतदाताओं का सामने आना समस्या की बात है।

नयी दिल्ली में कांग्रेस के नये मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी व खड़गे।

राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, लेकिन उसने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने से क्यों इनकार करेगा? हमें सूची न देकर किस उद्देश्य की पूर्ति होती है और वे इसे क्यों रोके हुए हैं? राहुल गांधी के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है और यह बताना उनकी पवित्र ज़िम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह ऐसी बात है जिसे हर कांग्रेसी और हर विपक्षी सदस्य को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी चुनाव प्रणाली में एक गंभीर समस्या है। पारदर्शी होना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।

कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई उजागर : नड्डा

राहुल के बयान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई उनके अपने नेता द्वारा उजागर हो गई है। राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने वह बात साफ-साफ कही है जो देश जानता है- कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम, अपमानित करना चाहते हैं। उनके बार-बार के कार्यों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है।

उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वह भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है।

प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में एशिया का दूसरा बड़ा इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन, कहा

भारत की चेतना होगी समृद्ध

आस्था और पुण्य का केंद्र बनेगा मंदिर : मोदी

एजेंसी

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई में एक नये इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 2.5 एकड़ क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाया गया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। उन्होंने कहा कि आज ज्ञान और भक्ति की इस महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मदनमोहन जी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। मोदी ने कहा कि मैं अभी देख रहा था कि श्री श्री राधा मदनमोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की सम्पूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मुझे विश्वास है कि यह मंदिर परिसर आस्था के साथ-साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतो, सदस्यों और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को याद करते हुए मोदी ने कहा कि मुझे परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावुक स्मरण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में उनका विजन जुड़ा हुआ है। भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आज वह भौतिक शरीर से भले ही यहां न हों, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की डोर से बंधे हैं। उन सबको एक-दूसरे से कनेक्ट रखने वाला एक और सूत्र है, जो चौबीसों घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। यह श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र है। उन्होंने उस समय वेद-वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जनसामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। मोदी ने कहा कि भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत जीवंत धरती है, और यहां का आध्यात्म। यदि भारत को समझना है, तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है।

नवी मुंबई में बुधवार को इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य।

दिल्ली और प्रयागराज के बीच एयर इंडिया की 25 से प्रतिदिन फ्लाइट

नयी दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली एअर इंडिया दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेला 2025 के दौरान दिल्ली और प्रयागराज के बीच दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। एअर इंडिया ने हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली और प्रयागराज के बीच अस्थायी दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने करने का ऐलान किया है। एअर इंडिया ने कहा कि इस रूट पर जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, एयरलाइन 25 जनवरी से 28 फरवरी तक उड़ानें संचालित करेगी। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिसमें दुनियाभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन उड़ानों के साथ एअर इंडिया ग्राहकों के लिए दो शहरों के बीच एकमात्र पूर्ण-सेवा उड़ान विकल्प लेकर आई है। इससे यात्रा करने वालों को समय बचाने और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है कि एयर इंडिया इस रूट्स पर एकमात्र फुल सर्विस एयरलाइन होगी, जो यात्रियों को प्रीमियम और इकोनॉमी दोनों ऑप्शन उपलब्ध कराएगी। इन विमानों में इकोनॉमी क्लास के अलावा प्रीमियम केबिन का विकल्प भी होगा। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के श्रद्धालुओं को भी आसानी से संपर्क सुविधा मिलेगी। एअर इंडिया के मुताबिक 25 जनवरी से 31 जनवरी तकः दिल्ली से फ्लाइट 14:10 बजे रवाना होकर 15:20 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी फ्लाइट 16:00 बजे प्रयागराज से उड़ान भरेगी और 17:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद 1 से 28 फरवरी तकः दिल्ली से फ्लाइट 13:00 बजे रवाना होकर 14:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी फ्लाइट 14:50 बजे प्रयागराज से उड़ान भरेगी।

सात अमेरिकी कंपनियों पर चीन ने लगाया बैन

बीजिंग। चीन के ताइवान क्षेत्र को हथियार बेचने के लिए सात अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय इकाई सूची में डालकर इन कंपनियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अविश्वसनीय इकाई सूची कार्य तंत्र की ओर से कानूनों और विनियमों के अनुसार लिया गया है तथा साथ ही, इन अमेरिकी कंपनियों पर कुछ प्रतिबंधक उपायों का भी खुलासा किया गया है, जिन्हें लागू किया जाएगा।

प्रतिबंधित कंपनियां इंटर-कोस्टल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम स्टडीज एंड सिमुलेशन, आयरनमाउंटेन सॉल्यूशंस, एप्लाइड टेक्नोलॉजीज ग्रुप, एक्सिएंट, एंडुरिल इंडस्ट्रीज और मैरीटाइम टैक्टिकल सिस्टम हैं। इन कंपनियों को चीन से संबंधित आयात या निर्यात गतिविधियों में शामिल होने और चीन के भीतर नए निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।

शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी

एजेंसी

- सेंसेक्स 224 अंक उछलकर 76724 पर पहुंचा, निफ्टी 37 अंक चढ़कर 23213 पर बंद
- निवेशकों को 1.18 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा

मुंबई। अमेरिका में मौद्रिक नीति को प्रभावित करने वाली खुदरा महंगाई के आंकड़े आने से पहले विश्व बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर यूटिलिटीज, पावर, रियल्टी, आईटी, टेक और सर्विसेज समेत 17 समूहों में लिवाली की बदौलत बुधवार को शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 224.45 अंक उछलकर 76,724.08 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 37.15 अंक की बढ़त लेकर 23,213.20 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारोबार के बाद बढ़ कर 424.41 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 423.23 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। इस दौरान बीएसई में कुल 4064 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2150 में लिवाली जबकि 1806 में बिकवाली हुई वहीं 108 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई की 1535 कंपनियां हरे जबकि 1252 लाल निशान पर बंद हुईं वहीं 96 के भाव स्थिर रहे। बीएसई में एफएमसीजी, तेल एवं गैस, ऑटो और हेल्थकेयर की 1.20 प्रतिशत तक की गिरावट को छोड़कर अन्य 17 समूहों का रुझान सकारात्मक रहा। इस दौरान यूटिलिटीज 2.45, पावर 1.75, रियल्टी 1.58, कमोडिटीज 0.22, सीडी 0.62, ऊर्जा 0.27, वित्तीय सेवाएं 0.05, इंडस्ट्रियल्स 0.15, आईटी 0.68, दूरसंचार 0.37, बैंकिंग 0.08, कैपिटल गुड्स 0.36, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.38, धातु 0.26, टेक 0.61, सर्विसेज 0.98 और फोकस्ड आईटी समूह के शेयर 0.74 प्रतिशत उछल गए। कारोबार की शुरूआत में सेंसेक्स 401 अंक के उछाल के साथ 76,900.14 अंक पर खुला और लिवाली के दम पर दोपहर से पहले 76,991.05 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, बिकवाली होने से दोपहर बाद यह 76,479.70 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले दिवस के 76,499.63 अंक के मुकाबले 0.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकर 76,724.08 अंक हो गया।

अक्षय कुमार ने फिल्म भूत बंगला के सेट पर किया तब्बू का स्वागत

मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला के सेट पर तब्बू का स्वागत किया है। निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेता अक्षय कुमार की जोड़ी 14 साल बाद भूत बंगला के लिए फिर से साथ आ रही है। इस फिल्म में तब्बू की एंट्री हो गयी है।वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म हेरा फेरी में अक्षय और तब्बू साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी प्रियदर्शन ने ही किया था। यह फिल्म अक्षय कुमार और तब्बू जैसे ऑन-स्क्रीन आइकॉन्स की वापसी भी होने जा रही, जो इसे और ज्यादा रोमांचक और खास बना देती है। अक्षय कुमार और तब्बू 25 साल बाद भूत बंगला में अपनी जादूगरी दिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है,कुछ चीजें समय के साथ अच्छी कर आइकॉनिक बन जाती हैं। इसकी कहानी आकाश कौशिक ने लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले रोहन शंकर, अबिलाश नायर और प्रियदर्शन ने तैयार किया है।

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश

सेनाध्यक्ष द्विवेदी ने पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी लेकर सैनिकों में भरा जोश

एजेंसी

पुणे। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी ली। उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि आज हमारा देश नए युग की दहलीज पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। परेड में विभिन्न मार्चिंग दस्तों और हथियारों के जरिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। सेना दिवस परेड 1949 में फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा की भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में नियुक्ति की याद दिलाती है, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद के सैन्य नेतृत्व का प्रतीक है। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय सेना को एक

आधुनिक, चुस्त, प्रौद्योगिकी सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल बनाने के लिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील है। हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पश्चिमी सीमाओं की नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम लागू है लेकिन घुसपैठ की कोशिश जारी है। जम्मू-कश्मीर के आंतरिक क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा में काफी कमी आई है। पिछले साल लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव और अमरनाथ यात्रा का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना सुरक्षा स्थिति में सुधार को दशार्ता है। थल सेनाध्यक्ष ने आर्मी डे परेड में सेना पदक (वीरता) और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। परेड में मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट, रेजिमेंट आफ आर्टिलरी, मिलिट्री पाइप्स एंड ड्रम बैंड, बाम्बे इंजीनियर ग्रुप, आर्मी आर्डिनेंस कार्प्स और एनसीसी के दस्तों ने मार्च करके सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। मार्चिंग दस्तों के माथे पर पसीना और आंखों में अनुभव की चमक दिखाई दी। मार्चिंग दस्तों पर आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने पुष्पों की बारिश करके पूरे माहौल को देशभक्ति के जोश से भर दिया। सेना दिवस परेड में पहली बार ऐतिहासिक रूप से नेपाली आर्मी बैंड की टुकड़ी ने भाग लिया, जो भारतीय और नेपाली सेना के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती में मील का पत्थर साबित हुई। इस टुकड़ी में तीन महिला सैनिकों सहित 33 सदस्य शामिल रहे, जिसमें ब्रास और पाइप बैंड ने अनूठी सांस्कृतिक और संगीतमय झलक जोड़ी। नेपाली आर्मी बैंड ने भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दशार्ने वाली संगीत परंपराओं का मिश्रण पेश किया। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और राजनयिक संबंधों का प्रमाण है। महिला सशक्तीकरण और उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण प्रदर्शन में पहली बार अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी ने भारतीय सेना में महिलाओं की उल्लेखनीय यात्रा को आगे बढ़ाया। 'नारी शक्ति' की थीम के अनुरूप अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी ने महिला सैन्य पुलिस की ताकत, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। कैप्टन संध्या राव एच की कुशल कमान के तहत यह टुकड़ी भारतीय सेना में महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अग्निवीर महिला मार्चिंग टुकड़ी की भागीदारी भारतीय सेना के लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और अपने रैंकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का प्रमाण है।

स्पीड न्यूज

अनाथालय ट्रस्ट मामले में खालिदा जिया बरी

ढाका। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित जिया अनाथालय ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को आज बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रेफअत अहमद ने सुबह करीब पौने नौ बजे फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिया की अपील की समीक्षा के बाद प्रधान न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया।

खैबर पख्तूनख्वा में चार आतंकी मारे गये

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के सामान्य क्षेत्र स्पिनवाम में चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने इसकी पुष्टि की। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाबलों को यह कामयाबी 14/15 जनवरी की रात खुफिया आधारित अभियान में मिली। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को घेरकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान चार आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया।

मणिपुर में हथियार व विस्फोटक बरामद

इंफाल। मणिपुर में व्यापक पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले के संवेदनशील इलाकों में तलाशी और क्षेत्र वर्चस्व अभियान चलाया। न्यू कैथेलमांबी थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट-पी1 रेलवे टनल रोड (सीओबी कोटलेन से 6 किलोमीटर उत्तर) में तलाशी के दौरान दो 9 मिमी सीएमजी और दो मैगजीन, दो देसी सिंगल बैरल राइफल, एक नंबर 36 हैंड ग्रेनेड तथा एक मोटरोला (बाओफेंग) बरामद किया गया।

छत्तीसगढ़ में चार इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर

रायपुर। नारायणपुर जिले में बुधवार को तीन दर्जन से अधिक घटनाओं में 32 लाख रुपये के चार इनामी नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों में एक दंपत्ति भी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि खोखली और ₹अमानवीय माओवादी विचारधारा और वरिष्ठ कैडरों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के शोषण से निराश होकर आत्मसमर्पण किया है।

बंगाल के पूर्व मंत्री मल्लिक को जमानत

कोलकाता। कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन वितरण घोटाले से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। अदालत ने मल्लिक को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे। ईडी ने उन्हें 27 अक्टूबर 2023 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वह वन मंत्री के पद पर थे।

ओली सरकार की आयु अधिक नहीं : प्रचंड

काठमांडू। नेपाल के विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी ओली और उनकी सरकार की आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि अब ओली सरकार की आयु अधिक नहीं है। प्रचंड ने कहा कि ओली के रवैये से सत्तारूढ़ दलों में असंतुष्टि चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का सरकार के विरोध में सार्वजनिक बयान आ रहा है।